

**ALAN SCOTT**  
ENTERPRISES LIMITED  
(Formerly: ALAN SCOTT INDUSTRIES LIMITED)

May 14, 2024

To,  
BSE Limited  
Corporate Relationship Department,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,  
Mumbai 400 001

Scrip Code: 539115.

Subject: Intimation under Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – Submission of Newspaper advertisement for final demand-cum-forfeiture notice to the Holders of partly paid-up equity shares.


Dear Sir/Madam,

We are enclosing a copy of the following newspaper notices published today i.e. May 14, 2024 for the Final Demand-Cum-Forfeiture Notice to the Holders of partly paid-up equity shares issued by Alan Scott Enterprises Limited (Formerly Known as Alan Scott Industries Limited) (the "Company"), on a rights basis, pursuant to the Letter of Offer dated June 16, 2023 ("Letter of Offer"):

1. Financial Express (English National Daily newspaper)
2. Jansatta (Hindi national daily newspaper) and
3. Pratahkal (Regional language as per the Registered Office of the Company).

We request the Stock Exchange and the Members of the Company to kindly take note of the above information on record.

For Alan Scott Enterprises Limited  
(Formerly known as Alan Scott Industries Limited)



Saloni Suresh Jain  
Designation : Director  
DIN : 07361076  
Place : Mumbai







**KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED**  
(Formerly Known as KURLON LIMITED)  
(CIN : U17214KA1962PLC001443)  
Regd. Office : # N-301, 3rd Floor, North Block, Manipal Centre,  
47 Dickenson Road, Bangalore - 560 042.  
Phone : 080 - 4031 3131, E-mail : secretary@manipal.com

**NOTICE OF RECORD DATE - BUYBACK OF SHARES**

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, the Board of Directors of the Company at its meeting held on Friday, 3rd May 2024, noted that the shareholders have approved the buyback of shares of the Company via postal ballot the equity shares of face value of Rs. 10 each fully paid, being offered at a price of Rs. 1,300 per share.

The Company has further fixed the record date as Tuesday, 21st May 2024 to determine the shareholders eligible to receive the Letter of Offer and the Tender Form for the buyback of shares.

For KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED  
(Formerly Known as Kurlon Limited)  
Date : 14-05-2024  
Place : Bangalore  
Sd/- Susheela Y. Bungale  
Company Secretary

**PRIOR PUBLIC NOTICE  
CHANGE IN NBFC CONTROL AND MANAGEMENT**

Public Notice is hereby issued under Direction 42.3 of Master Direction - Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023 ("RBI NBFC Directions") for intention to sell and transfer ownership / control of Pyxis Finvest Limited (Company), a Non-Banking Finance Company (NBFC) registered with the Reserve Bank of India (RBI) under registration number N.13.01840 dated 30-August-2006 and bearing CIN L65990MH2005PLC157586.

**Particulars of Transferee:**  
Mr. Uttam Bharat Bagri, an Indian Resident individual bearing Income Tax Permanent Account Number AAEPB6014D residing in Mumbai.

**Reasons for such sale or transfer of ownership/control:**  
The existing promoters of the Company being JBCG Advisory Services Private Limited (Transferor) bearing CIN U74110MH2016PTC287730 have executed Share Purchase Agreement dated 19-December-2023 with the Transferee to sell their entire holding of 65,72,000 equity shares (representing 57.13%) of the Company as a strategic business decision. Following this transaction, there will be change in Management (Board of Directors) of the company.

In compliance with RBI NBFC Directions, prior approval has been obtained from the RBI as evidenced by their letter reference DoS.CO.RSG.No.S1030/02.13.001/2024-25 dated 10-May-2024. The proposed transfer of ownership (by sale of shares) and control will take place after thirty days have elapsed following the publication of this public notice.

This notice is being issued jointly by Transferee, Transferor and the Company. For any further clarifications/ information/ objections, kindly contact the company at email pyxisinvest@gmail.com or by post at registered office address at Level 9 (Unit 801), Centrum House, CST Road, Vidya Nagar Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400098.

**Transferee** For JBCG Advisory Services Private Limited - Transferor For Pyxis Finvest Limited - Company  
Sd/- Uttam Bharat Bagri PAN AAEPB6014D Place: Mumbai Date: 13-May-2024  
Sd/- Kapil Bagla DIN 00387814  
Sd/- Shaileendra Apte DIN 00017814



**ALAN SCOTT ENTERPRISES LIMITED**  
(formerly known as Alan Scott Industries Limited)

Corporate Identification Number: L33100MH1994PLC076732  
Registered Office: Unit no. 302, Kumar Plaza, 3rd Floor, Near Kalina Masjid, Kalina Kuria Road, Santacruz (East), Mumbai - 400029, Maharashtra, India. | Tel: +91 61786000/01, 9867644930  
E-mail: alanscottcompliance@gmail.com | Website: thealanscott.com | Contact person: Mr. Shankar Madva

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined here shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated June 16, 2023 filed with BSE Limited ("BSE").

**FINAL DEMAND-CUM-FORFEITURE NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES**

In terms of the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made thereunder, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer dated June 16, 2023 ("Letter of Offer"), a Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been sent in electronic mode to the holders of partly paid-up equity shares who have not paid the call money or part thereof, pursuant to the First and/or Second & Final Call Money Notice dated November 27, 2023 and February 26, 2024, and physical copy of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice along with the detailed instructions and payment slip, has been sent through permitted modes of dispatch at the registered address of all those holders of partly paid-up equity shares, who have not paid the First and Second & Final call money (or a part thereof). The Company has completed the dispatch on May 10, 2024.

The Board of Director ("Board"), duly authorized by the Board, has on Thursday, May 9, 2024, approved sending of a Final Demand-cum-Forfeiture Notice for payment of First and Second & Final call amount of ₹ 10.00 (including share premium of ₹ 6.5) towards the First Call and ₹ 10.00 (including share premium of ₹ 7.00) as First and Second & Final Call money ("Final Demand-cum-Forfeiture Notice"), to the holders of such partly paid-up equity shares on which the First and/or Second & Final Call Money remains unpaid.

Accordingly, the Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been served providing the details given below:

Payment Period	From	To	Duration
	Tuesday, May 14, 2024	Tuesday, May 28, 2024	15 days

Cheque or Demand Draft payable to:  
Mode of Payment: Alan Scott Call Money - Escrow Collection - R A/c (For resident Shareholders)  
Alan Scott Call Money - Escrow Collection - NR A/c (For Non-resident Shareholders)

Shareholder pay through cheque/demand draft, the payment slip (stating Full Name of the Sole/First shareholder; DP ID-Client ID/ Folio No; and No. of partly paid-up equity shares) along with the amount payable by cheque or demand draft must be presented. Please note that, failure to pay the First and Second & Final Call Money pursuant to the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, as aforesaid, shall render the partly paid-up equity shares (to the extent that the First and Second & Final Call Money was not paid), including the application amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the Act, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.

Shareholders may also note that:

- The ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares of face value ₹10 each (₹3.50 paid-up and ₹7.00 paid up) has been suspended by the Stock Exchanges. Further the ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares has been suspended by National Securities Depository Ltd ("NSDL") and Central Depository Services (India) Ltd. ("CDSL").
- The process of corporate action for converting the partly paid-up equity shares to the fully paid-up ordinary shares under the present ISIN INE273F01022 for the existing fully paid-up ordinary shares, allotted by the depositories, is estimated to be completed, on a best effort basis, within two to three weeks from the last date of payment of the First and/or Second & Final Call Money stipulated under this Final Demand-cum-Forfeiture Notice. Upon completion of the corporate action, the partly paid-up equity shares shall be converted into fully paid-up equity shares and would be credited to ISIN INE273F01022, allotted by NSDL/CDSL.
- In case of non-receipt of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the duplicate Final Demand-cum-Forfeiture Notice to the Registrar, or may also download the same from the Company's website: www.thealanscott.com or the Registrar's website: www.purvashare.com. In such a case, however, the shareholder has to fill the DP ID-Client ID/folio Number, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the First and Second & Final Call Money.
- The shareholder must mention in the Application, his/her PAN number allotted under the Income Tax Act, 1961.

All correspondence in respect of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice may be addressed to: Purva Sharegistry (India) Private Limited (Unit: Alan Scott Enterprises Limited) at the address Office 9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel East, Mumbai - 400011, Maharashtra, India, Telephone No - 022 49614132 | 022 49700138 | 022 35220056; E-mail: newissue@purvashare.com; Website: www.purvashare.com; Contact Person: Ms. Deepali Dhuri; SEBI Registration Number: INR000001112.

For Alan Scott Enterprises Ltd.  
Sd/-  
Saloni Suresh Jain  
Director

Date: May 13, 2024  
Place: Mumbai

**CHALET Chalet Hotels Limited**

CIN: L55101MH1986PLC038538,  
Registered office: Raheja Tower, Plot No. C-30, Block 'G' Next to Bank of Baroda, Bandra Kuria Complex, Bandra, Mumbai 400 051  
Email ID: investorrelations@chalet-hotels.com, website: www.chalet-hotels.com

**EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2024**

Particulars	CONSOLIDATED					
	Quarter Ended			Year Ended		
	31 March 2024	31 December 2023	31 March 2023	31 March 2024	31 March 2023	
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
Total Income	4,244.07	3,798.87	3,457.83	14,370.38	11,779.54	
EBITDA before exceptional items	1,890.08	1,722.15	1,602.71	6,043.78	5,023.04	
Profit before income tax	990.26	886.52	714.59	2,693.53	2,728.29	
Profit for the period / year	824.40	706.42	366.31	2,781.81	1,832.90	
Total Comprehensive Income for the period / year	819.98	705.09	361.45	2,773.42	1,828.26	
Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 per share)	2,054.74	2,053.95	2,050.25	2,054.74	2,050.25	
Other Equity	-	-	-	16,458.68	13,369.14	
Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each)						
Basic (*not annualised) (in Rs.)	*4.01	*3.44	*1.79	13.54	8.94	
Diluted (*not annualised) (in Rs.)	*4.01	*3.44	*1.79	13.53	8.94	

**1) Key numbers of Standalone Financial Results**

Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
	31 March 2024	31 December 2023	31 March 2023	31 March 2024	31 March 2023
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total Income	4,210.50	3,783.89	3,469.51	14,186.63	11,793.81
Profit before income tax	990.23	910.59	749.64	2,684.81	2,772.53
Profit for the period / year	818.36	731.87	401.52	2,782.82	1,877.65

- Notes:**
- The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2024 are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website at www.chalet-hotels.com.
  - The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 13 May 2024.
  - The above results are in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 as prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013, read with the relevant Rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.

For Chalet Hotels Limited  
(CIN - L55101MH1986PLC038538)  
Sd/-  
Sanjay Sethi  
Managing Director & CEO  
(DIN. 00641243)

Place : Mumbai  
Date : 13 May 2024

(This Is Only An Advertisement For Information Purposes And Not A Prospectus Announcement. Not For Distribution Outside India.)

**SILKFLEX  
SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED**

Corporate Identification Number: U51909WB2016PLC215739

Our Company was originally incorporated on May 13, 2016 as "Silkflex Polymers (India) Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, the status of the Company was changed to public limited Company and the name of our Company was changed from "Silkflex Polymers (India) Private Limited" to "Silkflex Polymers (India) Limited" vide fresh certificate of incorporation dated December 21, 2023 by the Registrar of Companies, Kolkata. The Corporate Identification Number of our Company is U51909WB2016PLC215739. For further details on incorporation and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 155 of the Prospectus.

Registered Office: Daga Complex, Sulati Jaladhalagori, Sankrail, Howrah - 711 302, West Bengal, India  
Tel: +91 9674912615 | E-mail: investors@silklflexindia.in | Website: www.silklflexindia.in  
Contact Person: Mr. Sourabh Sharma, Company Secretary and Compliance Officer

**PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. TUSHAR LALIT KUMAR SANGHAVI, MS. URMI RAJ MEHTA, M/S. TUSHAR LALITKUMAR SANGHAVI HUF AND M/S. LALITBHAI H SANGHAVI HUF**

"The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the equity shares are proposed to be listed on Emerge Platform of NSE (NSE EMERGE)."

**BASIS OF ALLOTMENT**

INITIAL PUBLIC OFFERING OF 34,82,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED ("SPIL" OR "OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹52/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹42/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 1,810.64 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH 1,78,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 92.56 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 33,04,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 52/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 1,718.08 LAKHS ("NET ISSUE"), THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 30.00% AND 28.47% RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 250 OF THE PROSPECTUS.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS 5.2 TIMES OF THE FACE VALUE

**ISSUE**  
ISSUE OPENED ON: TUESDAY, MAY 07, 2024  
ISSUE CLOSED ON: FRIDAY, MAY 10, 2024

**RISK TO INVESTORS:**

- Our Equity Shares have never been publicly traded, and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may be volatile and you may be unable to resell your Equity Shares at or above the Issue Price or at all.
- The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is set forth in the table below:

Sr. No.	Name of the Promoters	No of Equity Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Mr. Tushar Lalit Kumar Sanghavi	66,65,450	6.81
2.	Ms. Urmil Raj Mehta	48,750	10.77
3.	M/s Tushar Lalitkumar Sanghavi HUF	9,10,000	6.18
4.	M/s Lalitbhai H. Sanghvi HUF	4,87,500	3.08

Investors are required to refer section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Prospectus.

Our Company has filed the Prospectus dated May 01, 2024 with the ROC, Kolkata (the "Prospectus"). The Equity Shares of the Company are proposed to be listed on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited i.e., NSE Emerge, in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval from NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated April 30, 2024. NSE is the Designated Stock Exchange for the purpose of this Issue. The trading is to be commenced on May 15, 2024 (Subject to receipt of listing and trading approvals from the NSE).

The Issue is being made through the Fixed Price process, the allocation in the Net Issue to the Public category is made pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, wherein a minimum of 50% of the Net Issue of shares to the Public is initially made available for allotment to Retail Individual Investors. The balance of Net Issue of Shares to the public is made available for allotment to Individual Applicants other than Retail Individual Investors and other Investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. If the Retail Individual Investor category is entitled to more than 50% on proportionate basis, they shall be allotted that higher percentage. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and the Designation Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All potential investors shall participate in the Issue only through an Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process including through UPI mode (as applicable) by providing details of the irrelative bank accounts and / or UPI IDs, in case of RILs, if applicable, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") for the same

**SUBSCRIPTION DETAILS**

The Net Issue has received 34,418 applications before technical rejections for 12,27,48,000 Equity Shares resulting in 37,15 times subscription. The details of the applications received in the Net Issue (before and after technical rejections & withdrawal) are as follows:

Category	Gross		Less: Rejections*		Valid	
	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares
Non-Retail Investors	3,390	6,06,92,000	36	1,88,000	3,354	6,05,04,000
Retail Individual Investors	31,028	6,20,56,000	830	16,60,000	30,198	6,03,96,000
<b>TOTAL</b>	<b>34,418</b>	<b>12,27,48,000</b>	<b>866</b>	<b>18,48,000</b>	<b>33,552</b>	<b>12,09,00,000</b>

\*This includes 312 applications for 6,24,000 equity shares from Retail investors which were not in book but excludes bids (UPI mandates) not accepted by investors.

- Note:**
- The Net Issue does not include 1,78,000 Equity Shares reserved for Market Maker, which was subscribed by 1.00 time.
  - There were 866 Technical Rejections for 18,48,000 Equity Shares. The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange - NSE on May 13, 2024.

**A) Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawals):** The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Issue Price of ₹ 52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 1,78,000 Equity Shares. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to Total
1,78,000	1	100.00	1,78,000	100.00	1,78,000	1:1	1,78,000	100.00

**B) Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawals):** The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.56 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to Total
2000	30,198	100.00	6,03,96,000	100.00	54.71	2000	914	16,52,000

**C) Allocation to Other than Retail Category (After Technical Rejections & Withdrawals):** The Basis of Allotment to the Non-Retail Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.62 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of shares allocated/allotted
4,000	2,253	67.17	90,12,000	14.89	2,46,063	109.22	2,000	41
6,000	213	6.35	12,78,000	2.11	34,894	163.82	2,000	17
8,000	139	4.14	11,12,000	1.84	30,362	218.43	2,000	15
10,000	111	3.31	11,10,000	1.83	30,307	273.04	2,000	5
12,000	50	1.49	6,00,000	0.99	16,382	327.64	2,000	4
14,000	26	0.78	3,64,000	0.60	9,939	382.27	2,000	5
16,000	36	1.07	5,76,000	0.95	15,727	436.86	2,000	2
20,000	179	5.34	35,80,000	5.92	97,748	546.08	2,000	49
22,000	22	0.66	4,84,000	0.80	13,215	600.68	2,000	7
30,000	17	0.51	5,10,000	0.84	13,925	819.12	2,000	7
38,000	7	0.21	2,66,000	0.44	7,263	1,037.57	2,000	4
40,000	16	0.48	6,40,000	1.06	17,475	1,092.19	2,000	9
50,000	10	0.30	5,00,000	0.83	13,652	1,365.2	2,000	7
52,000	4	0.12	2,08,000	0.34	5,679	1,419.75	2,000	3
58,000	6	0.18	3,48,000	0.58	9,502	1,583.67	2,000	5

The Board of Directors of the Company at its meeting held on May 13, 2024, has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares, as approved by the Designated Stock Exchange viz. NSE and has authorized the corporate action for the allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

The CAM and allotment advice and / or notices shall be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories on or before May 14, 2024. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking of funds will process on or prior to May 14, 2024. The Equity Shares allotted to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. In case the same is not received within prescribed time, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the Emerge Platform of NSE within 3 working days from the Closure of the Issue. The trading is proposed to be commenced on May 15, 2024 subject to receipt of listing and trading approvals from NSE.

**Note:** All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated May 01, 2024 ("Prospectus").



# भाजपच्या राष्ट्रीय संघटन मंत्र्यांकडून कल्याण पश्चिम, मुरबाडमधील प्रचाराचा आढावा

## शक्तीकेंद्र प्रमुख, सुपर वॉरियर्स आणि कोअर कमिटी सदस्यांना केलं मार्गदर्शन

**कल्याण, दि. १३ (वार्ताहर) :** लोकसभा निवडणुकीत पाचव्या टप्प्याच्या मतदानाला अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले. या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय संघटन मंत्री बी. एल. संतोष यांनी भिवंडी लोकसभेच्या कल्याण पश्चिम आणि मुरबाड विधानसभा मतदारसंघातील प्रचाराचा आढावा घेतला. तसेच भाजप पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेत राष्ट्रीय संघटन मंत्री बी. एल. संतोष यांनी उपस्थितांना महत्त्वपूर्ण सूचनाही केल्या. लोकसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यातील प्रचार आता शेवटच्या टप्प्यात पोहोचला आहे. प्रचारासाठी आता अवघा एक आठवडा शिल्लक असून भारतीय जनता पक्षासाठी इतर मतदारसंघांप्रमाणे भिवंडी लोकसभा हादेखील अतिशय

महत्त्वाचा मतदारसंघ आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून भाजपचे राष्ट्रीय संघटन मंत्री बी.एल. संतोष यांनी कल्याण पश्चिमेत भाजपच्या प्रमुख शक्ती केंद्रप्रमुख, सुपर वॉरियर्स आणि कोअर कमिटी सदस्यांची बैठक घेतली. यामध्ये बी.एल. संतोष यांनी उपस्थित भाजप पदाधिकारी - कार्यकर्त्यांकडून प्रचाराबाबत माहिती जाणून घेतली. त्यासोबतच अखेरच्या टप्प्यात कशाप्रकारे प्रचार करावा याबाबत मार्गदर्शन करत त्यांनी अधिकाधिक मतदानासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही यावेळी केले.

तर कल्याण पश्चिम विधानसभा निवडणुक प्रमुख माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी यावेळी कल्याण पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील प्रचाराची

सखोल माहिती यावेळी राष्ट्रीय संघटन मंत्री बी.एल.संतोष यांना सादर केली. या बैठकीला कपिल पाटील, आमदार किसन कथोरे, आमदार महेश चौधले, कल्याण पश्चिम विधानसभा निवडणुक प्रमुख माजी आमदार नरेंद्र पवार, कोकण विभागीय संघटन मंत्री हेमंत म्हात्रे, भिवंडी

लोकसभेचे समन्वयक जितेंद्र ढाकी, कल्याण जिल्हा अध्यक्ष पश्चिम शहराध्यक्ष वरुण पाटील, मोहने टिटवाळा मंडळ अध्यक्ष शक्तिवान भोईर उपस्थित होते.

अध्यक्ष मधुकर मोहरे, कल्याण पश्चिम शहराध्यक्ष वरुण पाटील, मोहने टिटवाळा मंडळ अध्यक्ष शक्तिवान भोईर उपस्थित होते.



**प्रमारा प्रमोशनस लिमिटेड**  
 नोंदणीकृत कार्यालय : ए-२०८, सुवेग, चाव्हिली, साकिनका, अंधेरी पूर्व, मुंबई ४०० ०७२, भारत.  
 सीआयएन : US1909MH2006PTC164247 ईमेल : [info@pramara.com](mailto:info@pramara.com)  
 दूर. +९१ ०२२ २१९८३००० वेबसाइट : [www.pramara.com](http://www.pramara.com)

**अति-सामान्य सर्वसाधारण सभा**

प्रमारा प्रमोशन लिमिटेड (कंपनी) यांची अति-सामान्य सर्वसाधारण सभा (ईजीएम) बुधवार, दि. ०५ जून, २०२४ रोजी १२.१५ वा. (भा.पू.) व्हीडीओ कॉन्फरेंसिंग (व्हीओ) / अन्य ऑडिओ व्हिड्युअल मीन्स (ओएव्हीएम) सुविधा यांच्या मार्फत सभासदांच्या एमसीए सर्क्युलर क्र. १४/२०२० दि. ८ एप्रिल, २०२०, १७/२०२० दि. १३ एप्रिल, २०२०, २०/२०२० दि. ५ मे, २०२०, ०२/२०२१ दि. १३ जानेवारी, २०२१, २१/२०२१ दि. १४ डिसेंबर, २०२१, ०२/२०२२ दि. ५ मे, २०२२ व १०/२०२२ दि. २८ डिसेंबर, २०२२ अनुक्रमे यांच्यासह मिनीस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स (एमसीए सर्क्युलर) व सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएफडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११ दि. १५ जानेवारी, २०२१, सेबी/एचओ/डीडीएचएस/पी/सीआयआर/२०२२/००६३ दि. १३ मे, २०२२ व सेबी/एचओ/ सीएफडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/४ दि. ५ जानेवारी, २०२३ अनुक्रमे अंतर्गत सीक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (सेबी सर्क्युलर) द्वारे जारी केली होती व अन्य सर्क्युलर ईजीएमच्या ठिकाणी सूचनेमध्ये पार पडलेल्या व्यवसायांवर आधारित आहे.

ईजीएम आयोजित सुचनेची इलेक्ट्रॉनिक प्रत संबंधित अन्य, प्रक्रिया व ई-मतदानाची माहिती पाठविली होती, सभासद ज्यांचे ई-मेल आयडी कंपनी / डिपॉझिटर पार्टीसिपंट्स यांच्यासह नोंदणीकृत केली होती.

सभासदांनी त्यांचे ई-मेल आयडी नोंदणीकृत केले नसल्यास कृपया सदर पूर्वी नोंदणीकरण करावे ही विनंती.

ए. डिमेंट स्वरूपात आयोजित शेअर्स संबंधात - त्यांचे डिपॉझिटी पार्टीसिपंट्स (डीपी) यांच्यासह.

बी. प्रत्यक्ष प्रपत्रामध्ये आयोजित शेअर्स संबंधात - (१) कंपनीचे निबंधक व शेअर ट्रान्सफर एजंट अर्थात बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांना लेखी स्वरूपात तपशील ई-मेल [investor@bigshareonline.com](mailto:investor@bigshareonline.com) वर पाठवावा.

सभासद व डिमेंट स्वरूपातील शेअर्स धारक आहेत त्यांनी ई-मेल सदर ईजीएमच्या सूचनेमध्ये रिव्हकृत करून न्यायित हेतुकरीता त्यांचे ई-मेल आयडी नोंदणीकरण करावे. कंपनीने सभासदांना त्यांचे मतदान हक्क इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात बजावण्याकरिता सुविधा प्रदान केली आहे. ई-मतदानाची प्रक्रिया व व्हीसी/ ओएव्हीएम मार्फत ईजीएममध्ये जोडले जाण्याकरिता माहिती (ई-मतदान मार्फत त्यांचे मतदान पार पडल्यास त्यांचे ई-मेल आयडी नोंदणीकृत नसल्यास प्रत्यक्ष स्वरूपातील शेअर्स धारक सभासद यांच्यासह) ईजीएमच्या सूचनेचा भाग आहे.

ईजीएम आयोजित सूचना कंपनीची वेबसाइट [www.pramara.com](http://www.pramara.com) वर व स्टॉक एक्सचेंज अर्थात एनएसई [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वर उपलब्ध आहे.

**प्रमारा प्रमोशनस लिमिटेडकरिता सही/-**  
**रहित लांबा**  
**दिनांक : १३ मे, २०२४ व्यवस्थापकीय संचालक (डीआयएन : ०१९६००७)**

**Alan Scott**  
 (formerly known as Alan Scott Industries Limited)  
 Corporate Identification Number: L33100MH1994PLC076732  
 Registered Office: Unit no. 302, Kumar Plaza, 3rd Floor, Near Kalina Masjid, Kalina Kurla Road, Santacruz (East), Mumbai – 400029, Maharashtra, India. | Tel: +91 61786000/01, 9867649300  
 E-mail: [alanscottcompliance@gmail.com](mailto:alanscottcompliance@gmail.com) | Website: [thealanscott.com](http://thealanscott.com) | Contact person: Mr. Shankar Madva

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined here shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated June 16, 2023 filed with BSE Limited ("BSE").

**FINAL DEMAND-CUM-FORFEITURE NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES**

In terms of the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made thereunder, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer dated June 16, 2023 ("Letter of Offer"), a Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been sent in electronic mode to the holders of partly paid-up equity shares who have not paid the call money or part thereof, pursuant to the First and/or Second & Final Call Money Notice dated November 27, 2023 and February 26, 2024, and physical copy of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice along with the detailed instructions and payment slip, has been sent through permitted modes of dispatch at the registered address of all those holders of partly paid-up equity shares, who have not paid the First and Second & Final call money (or a part thereof). The Company has completed the dispatch on May 10, 2024.

The Board of Director ("Board"), duly authorized by the Board, has on **Thursday, May 9, 2024**, approved sending of a Final Demand-cum-Forfeiture Notice for payment of First and Second & Final call amount of ₹ 10.00 (including share premium of ₹ 6.5) towards the First Call and ₹10.00 (including share premium of ₹ 7.00) as First and Second & Final Call money ("Final Demand cum-Forfeiture Notice"), to the holders of such partly paid-up equity shares on which the First and/or Second & Final Call Money remains unpaid.

Accordingly, the Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been served providing the details given below:

Payment Period	From	To	Duration
	<b>Tuesday, May 14, 2024</b>	<b>Tuesday, May 28, 2024</b>	<b>15 days</b>

Cheque or Demand Draft payable to:  
 Alan Scott Call Money – Escrow Collection – R/A/c (For resident Shareholders)  
 Alan Scott Call Money – Escrow Collection – NR A/c (For Non-resident Shareholders)

Shareholder pay through cheque/demand draft, the payment slip (stating Full Name of the Sole/First shareholder; DP ID-Client ID/ Folio No; and No. of partly paid-up equity shares) along with the amount payable by cheque or demand draft must be presented. Please note that, failure to pay the First and Second & Final Call Money pursuant to the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, as aforesaid, shall render the partly paid-up equity shares (to the extent that the First and Second & Final Call Money was not paid), including the application amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the Act, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.

Shareholders may also note that:

- The ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares of face value ₹10 each (₹3.50 paid-up and ₹7.00 paid up) has been suspended by the Stock Exchanges. Further the ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares has been suspended by National Securities Depository Ltd ("NSDL") and Central Depository Services (India) Ltd. ("CDSL").
- The process of corporate action for converting the partly paid-up equity shares to the fully paid-up ordinary shares under the present ISIN INE273F01022 for the existing fully paid-up ordinary shares, allotted by the depositories, is estimated to be completed, on a best effort basis, within two to three weeks from the last date of payment of the First and/or Second & Final Call Money stipulated under this Final Demand-cum-Forfeiture Notice. Upon completion of the corporate action, the partly paid-up equity shares shall be converted into fully paid-up equity shares and would be credited to ISIN INE273F01022, allotted by NSDL/CDSL.
- In case of non-receipt of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the duplicate Final Demand-cum-Forfeiture Notice to the Registrar, or may also download the same from the Company's website: [www.thealanscott.com](http://www.thealanscott.com) or the Registrar's website: [www.purvashare.com](http://www.purvashare.com). In such a case, however, the shareholder has to fill the DP ID-Client ID/folio Number, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the First and Second & Final Call Money.
- The shareholder must mention in the Application, his/her PAN number allotted under the Income Tax Act, 1961.

All correspondence in respect of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice may be addressed to: **Purva Sharegistry (India) Private Limited (Unit: Alan Scott Enterprises Limited)** at the address **Office 9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel East, Mumbai - 400011, Maharashtra, India, Telephone No - 022 49614132 | 022 49700138 | 022 35220056; E-mail: [newissue@purvashare.com](mailto:newissue@purvashare.com); Website: [www.purvashare.com](http://www.purvashare.com); Contact Person: Ms. Deepali Dhuri; SEBI Registration Number: INR000001112.**

Date: May 13, 2024  
 Place: Mumbai

**जाहीर सूचना**

सूचना देण्यात येते की, माझे अशील श्री. मीत दिवकभाई सांगवी व त्यांचे दिवंगत वडील श्री. दिवकभाई हरीभाई सांगवी हे फ्लट क्र. ए-२०८४, मोजगापिठ ६६.५ चौ. मीटर चर्द शेअरफळ, अर्धात ७९.८ चौ. मीटर बिल्ट अप पार्क १५ वा मजला, ए विंग व खुला/ मजला पार्किंग जागा विलिडींग आदित्य आमन/ आदित्य इन्व्हा, शिव सृष्टम टॉव, दहिसर पूर्व, मुंबई ४०० ०६८ येथील शेअर क्र. ८४/४४६ सीटीएस क्र. २३३४/ए, बी व सी, २३३४/२ए व डी, २३३४/३ व ३, २३३४/४ ते सी, २३३४/१ ते ३, २३३४/१ व २३३४ (सीटीएस क्र. २३३४/ए, बी व सी) धारक मालमनेचे संयुक्त मालक आहेत.

श्री. दिवकभाई हरीभाई सांगवी यांचा मृत्यू दि. १३.११.२०२० रोजी झाला त्यांच्या मागे खालील केवळ कायदेशीर वास्तू आहेत

- श्रीम. अंजनाबेन दिवकभाई सांगवी - पत्नी.
- श्री. सीरध दिवकभाई सांगवी - मुलगा.
- श्री. मीत दिवकभाई सांगवी - मुलगा हे आहेत.

नोंदणीकृत विलेज करार १. श्रीम. अंजनाबेन दिवकभाई सांगवी - पत्नी, २. श्री. सीरध दिवकभाई सांगवी - मुलगा यांनी त्यांचे वारसाहक्क शेअर वरील नामित फ्लॅटमधील माझे अशील श्री. मीत दिवकभाई सांगवी यांच्या नावे रिलीज केले. आता माझे अशील हे फ्लॅटचे १००% मालक आहेत. आता माझे अशील यांनी सदर फ्लॅट संबंधात तिवरे पक्ष हक्क विक्री / हस्तांतरण केले आहेत.

कोणती व्यक्ती/ पक्षांना कोणतेही आरोप, दावे, मालकीहक्क वा अधिकार असल्यास तसेच वाद, शेअर, विक्री, महाग, कर्ज, धांपणाधिकार, भेट, पावना, बहिश्कार, प्रचार ताबा वा अडथळे काही असल्यास त्यांनी याद्वारे अधोहस्ताक्षरित यांना त्यांचे कार्यालय पत्ता फ्लॅट क्र. ११/डी-३, सुवेड रोधेयाम सोल्यारस लि., म्हाडा कॉलनी, मुंबई पूर्व ४०००८१ येथे लेखी स्वरूपात त्यांचे सवे नोंदणीकृत एडी मार्फत सदर सूचनेच्या प्रतिलिपि तारखेबाबत ०५ दिवसांत दिवाळीचा आत सूचित करावे व संबंधित दस्तावेज/ पुरावे व त्यांचे दावे काही असल्यास ७ दिवसांच्या आत सूचित करावे व माझे अशील हे सदर दावेबाबत व अधिवृत्तीत मालक जालेल.

मुंबई दि. १४.०५.२०२४

वकील निलेश विजय तिरोटकर  
 कार्यालय : फ्लॅट क्र. ११/डी-३, सुवेड रोधेयाम सोल्यारस लि., म्हाडा कॉलनी, मुंबई (पू) ४०० ०८१. मो. ९८१९११५६७३

**AXIS BANK** शाखेचा पत्ता: अँक्सिस बँक लि., तिसरा मजला, गिगाप्लेक्स, एनपीसी-१, एम.आय.डी.सी, एरोली नॉलेज पार्क, मुमुलासन रोड, एरोली, नवी मुंबई-४००७०८. एलिसाव्रिज, अहमदाबाद-३८०००९.

**मागणी सूचना**

सिक्विरिटायझेशन अँड कन्ट्रक्शन ऑफ फायनॅन्शियल असेट्स अँड एफोर्समेंट ऑफ सिक्विरिटी इटेट्स अँड २००२ (सर्फेसी अँड) आणि सिक्विरिटी इटेट्स (एफोर्समेंट) कन्व २००२ च्या अध्याय १३ (२) अंतर्गत रूल ३(१) सह

अ. क्र	प्रॉडक्ट/अकाउंट नं./कर्जदार / सहकर्जदार/ जामीनदारांचे नाव व पत्ता / कामाचा पत्ता	एनपीएपी तारीख	सुस्था तपशील	अ. क्र	प्रॉडक्ट/अकाउंट नं./कर्जदार / सहकर्जदार/ जामीनदारांचे नाव व पत्ता / कामाचा पत्ता	एनपीएपी तारीख	सुस्था तपशील	
		मागणी नोटीसीची तारीख						
		एकूण येणे रक्कम						
१	अॅटो लोन: <b>UCR064702911965</b> कर्जदार: अनिल राधाकृष्ण कुबेरान, डी १३३३ निहारिका सी एच एल सर्व्हास अन्वैसॅं रोड लोसुरम शाळेसमोर, ठाणे प. महाराष्ट्र ४००६१० मागणी नोटीसीची तारीख: १५-११-२०२३ कामाचा पत्ता: अनिल राधाकृष्ण कुबेरान सव्हेसॅं नं २६ २ आणि २८ ३ ३ माला नं बी १ आणि बी २ काठिया कॅम्पाउंड जवळ आशिर्वाद हॉटेल मीताडा रोड सेलार भिवंडी ठाणे महाराष्ट्र ४२१३०२	एनपीएपी तारीख: ०१-१०-२०२२ मागणी नोटीसीची तारीख: १५-११-२०२३ एकूण येणे रक्कम: रु.२०१६४४२१/-	गाडीचा प्रकार:-मर्सिडीज बेंझ डी व्हेन - मर्सिडीज बेंझ डी व्हेन - ४ बॅंटा रजिस्ट्रेशन नं: MH04HF7825 इंडियन नं.: 05192133150581 चेसिस नंबर: WVV795000261012504	१३	अॅटो लोन:- <b>AUR064702854455</b> कर्जदार: सुरेश चंद्रयामराजगणालिया फ्लॅट नं ६०४ रायवेड हेल्स सी.सी. लिमिटेड च्या अंदाज रोड इंडक फेज ५ ठाणे महाराष्ट्र ४०१११०५, भारत मागणी नोटीसीची तारीख: ०५-०९-२०२४ कामाचा पत्ता: सुरेश मित्रा फ्लॅट नं ६०४ रायवेड हॉटेल लिमिटेड ठाणे महाराष्ट्र ४०१११०५ भारत फोन:१०२६३३११२	एनपीएपी तारीख: १२-०५-२०२१ मागणी नोटीसीची तारीख: ०५-०९-२०२४ एकूण येणे रक्कम: रु.२२९०४४८/-	गाडीचा प्रकार:-टोयोटा - टोयोटा कॅट सी - इनुहा रजिस्ट्रेशन नं: MH04JB5450 इंडियन नं.: 1GDA142741 चेसिस नंबर: MBJA33EM1007776651117	
२	अॅटो लोन: <b>UCR086102176727</b> कर्जदार: अनुज शंकर पाटील फ्लॅट बी ७०२ ७ मजला सई सफोर बोलींग फ्लॅट १५० १८० पंजाब अँड महा को बँक से. २० उजवे नवी मुंबई महाराष्ट्र ४१०२०६ भारत फोन: ९०२२२०२४३ कामाचा पत्ता: शांण १ सुवेज पार्क से २३ एएसएसबी ऑफिस जवळ उजवे नोटे नवी मुंबई महाराष्ट्र ४१०२०६ भारत फोन: ९०२२२०२४३	एनपीएपी तारीख: ०५-०२-२०२८ मागणी नोटीसीची तारीख: ०५-०९-२०२४ एकूण येणे रक्कम: रु.२०५४४००/-	गाडीचा प्रकार:-महिंद्रा आणि महिंद्रा - महिंद्रा कॅटेगरी सी प्लस - XUV500 रजिस्ट्रेशन नं: MH05TX6371 इंडियन नं.: :HFHFG48957 चेसिस नंबर: MA1YU3CCUF6C82188	१४	अॅटो लोन:- <b>UCR064703594577</b> कर्जदार: अनिता बलकनसरोज फ्लॅट नंबर २०४ विल्डिंग नंबर एट हार्मनी रिडेन्सिबी बोर्डर्स सारवली महार पालखर ठाणे महाराष्ट्र ४०१५०१, भारत मागणी नोटीसीची तारीख: १५-११-२०२३ कामाचा पत्ता: शांण नं ३३८ विल्डिंग नंबर पी ०२ हार्मनी व्लाडा नं १ बोर्डर्स सिटी पालखर ठाणे महाराष्ट्र ४०१५०१	एनपीएपी तारीख: ०१-१०-२०२२ मागणी नोटीसीची तारीख: १५-११-२०२३ एकूण येणे रक्कम: रु.२२९९१५४/-	गाडीचा प्रकार:-हूंडई - हूंडई कॅट सी हूंडई - हूंडई रजिस्ट्रेशन नं: MH48AK9209 इंडियन नं.: D4FBGM234672 चेसिस नंबर: MLC381ULHM204919	
३	अॅटो लोन: <b>UCR086103782919</b> कर्जदार: मनोज कल्याणी श्रेयिषा फ्लॅट क्रमांक ५ नं२१ अपार्टमेंट रोड जी ऑलिव्हास साताक्रीडा पूर्व मुंबई मुंबई महाराष्ट्र ४०००५५ भारत फोन: ९९२०३९९९६८ कामाचा पत्ता: चीरगा टूँबल २१९ क्रिस्टल शांण पॅराडाइज लिंकिंग रोड बांद्रा पश्चिम मुंबई महाराष्ट्र ४०००५० भारत फोन: ९८१९४०३२३६	एनपीएपी तारीख: १०-१२-२०२० मागणी नोटीसीची तारीख: ०५-०९-२०२४ एकूण येणे रक्कम: रु.२०९८५९१/-	गाडीचा प्रकार:-मारुती - मारुती कॅट सी - डिट्टा रजिस्ट्रेशन नं: MH02EE2479 इंडियन नं.: D13A5214490 चेसिस नंबर:MA3FLEB1S00370508	१५	अॅटो लोन:- <b>AUR032702100943</b> कर्जदार: मनिंद वलत डोंगरे बेलावड वरतगा शहापूर ठाणे महाराष्ट्र ४००११२ भारत फोन:१०९८९९४४४४ कामाचा पत्ता: महालक्ष्मी कन्ट्रक्शन्स बेलावड वताशहापूर ठाणे महाराष्ट्र ४२१३०१ भारत फोन:१०९८९९४४४४४	एनपीएपी तारीख: १४-०२-२०१८ मागणी नोटीसीची तारीख: ०५-०९-२०२४ एकूण येणे रक्कम: रु.२३०५०४३/-	गाडीचा प्रकार:-हूंडई - हूंडई सीएटी सी - क्रेटा रजिस्ट्रेशन नं: MH04JF1111 इंडियन नं.: D4FBGM161992 चेसिस नंबर: MLC381ULHM150917	
४	अॅटो लोन: <b>UCR064702147409</b> कर्जदार: रणजीत कळकडिया फ्लॅट नंबर ३०१ जवा अपार्टमेंट सी एच रोड आनंद नगर दहिसर पूर्व मुंबई महाराष्ट्र ४०००८८ भारत फोन:९८८७७३३३३५ कामाचा पत्ता: गाला नं ए १०२ बी तिनस्का इंडस्ट्रियल डिवीज कॅम्पाउंड दहिसर पेट्रोल पंप जवळ दहिसर ई मुंबई महाराष्ट्र ४०००६८ भारत फोन:९९८७७३३३३५	एनपीएपी तारीख: ११-०२-२०१८ मागणी नोटीसीची तारीख: ०५-०९-२०२४ एकूण येणे रक्कम: रु.२१९०६९१२/-	गाडीचा प्रकार:-वीएएमडब्ल्यू - बीएएमडब्ल्यू कॅट डी - बीएएमडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन नं: MH06AZ6123 इंडियन नं.: 74537693 चेसिस नंबर:WBAVN3704V0P46269	१६	अॅटो लोन:- <b>AUR032702542154</b> कर्जदार: प्रदीप अनिल जाधव ए ६०३ बिल्डिंग क्रमांक १५ ए विंग सुभाष नाग आर चेंबर मुंबई महाराष्ट्र ४०००८९ भारत फोन:९८९८९९४४०० कामाचा पत्ता: ७०३ ७व्या मजल्याचा विस्तार लिंक इमारत मुंबई गोरगाव लिंक रोड मारू ए ३०६ मुंबई महाराष्ट्र ४०००८८ भारत फोन: २५६६३०३३	एनपीएपी तारीख: ३१-०१-२०१८ मागणी नोटीसीची तारीख: ०५-०९-२०२४ एकूण येणे रक्कम: रु.२३०५०४३/-	गाडीचा प्रकार:-हूंडई - हूंडई सीएटी सी - क्रेटा रजिस्ट्रेशन नं: MH03CM5972 इंडियन नं.: D4FBGM358116 चेसिस नंबर: MLC381ULHM266508F	
५	अॅटो लोन:- <b>ALR032701945083</b> कर्जदार: भारत नानिकाम सॅंड फ्लॅट क्र. १०१ पहिला मजला नवनी निकेतन उजवसमनगर न. तरसलीदार कार्यालय बीके क्र. १५२४/११ क्लस ३३ उजवसमनगर-५, ठाणे ठाणे महाराष्ट्र ४२१३०५ भारत फोन:९९६०६६९६६६ कामाचा पत्ता: नानिक मोहनदास किराणा शांण शांण नं ७०० गाव देवी रोडकुतवली अंबवना ठाणे महाराष्ट्र ४२१४०१	एनपीएपी तारीख: ०१-०७-२०२० मागणी नोटीसीची तारीख: १५-११-२०२३ एकूण येणे रक्कम: रु.२११२१५२१/-	गाडीचा प्रकार: हूंडई - हूंडई कॅट सी हूंडई - हूंडई रजिस्ट्रेशन नं:MH05CV1773 इंडियन नं.: D4FBGM122744 चेसिस नंबर: MLC381ULMGM123474F	१७	अॅटो लोन:- <b>UCR086102065821</b> कर्जदार: रवींद्र आत्माराम महाडिक रुम नंबर ३०२ एफ विंग वनशी सृष्टी सीएचएस खडकवाडा कल्याण पश्चिम ठाणे महाराष्ट्र ४२१३०२ भारत फोन:९८०७९२१३७२	एनपीएपी तारीख: ०३-०५-२०१८ मागणी नोटीसीची तारीख: ०५-०९-२०२४ एकूण येणे रक्कम: रु.२३५०७९३/-	गाडीचा प्रकार:-टोयोटा - टोयोटा कॅट डी - फॉच्यून रजिस्ट्रेशन नं: MH04GE6939 इंडियन नं.: 1KDU336722 चेसिस नंबर: MBJ11JV6104017093	
६	अॅटो लोन:- <b>UCR000407544372</b> कर्जदार: खान मलिक मुस्तुफ ११५४ खाडीपार रसुलाबाद भिवंडी ठाणे ठाणे महाराष्ट्र ४२१३०८ भारत फोन:७७९८३८८५८५ हमीदार: मुस्तुफ खान ११५४ अकूम रोड कांबा रोड, अल उमन शाळेच्या मागे, खाडीपार, खोनी रसुलाबाद भिवंडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र राज्य, पिनकोड: ४२१३०८, भारत फोन: ८०८०४१३८६८	एनपीएपी तारीख: ०१-०३-२०२३ मागणी नोटीसीची तारीख: २१-११-२०२३ एकूण येणे रक्कम: रु.२११२३३३/-	गाडीचा प्रकार: हूंडई - हूंडई सीएटी सी - क्रेटा रजिस्ट्रेशन नं: MH48BH4751 इंडियन नं.: :G4FGJU523400 चेसिस नंबर: MLC381CJMJM494111	१९	अॅटो लोन:- <b>AUR086104168643</b> कर्जदार: हार्दिस सुनील दास ५३१ मसिहा निवास चिंचवाडा रोड मडिंड कॉलेज समोर, कल्याण पूर्व पिन ४२१३०६ ठाणे महाराष्ट्र ४२१३०८ भारत फोन:७७७७०३३७५ कामाचा पत्ता: खोसला तिलिटी अँड इन्व्हायझरी प्राव्हेंट लिमिटेड निमा लाफकट्टल कॉर्प सेंट्र ऑफिस सुइट नं ३२५ ३रा मजला वर शांण स्टॉप एलसीएस मार्ग मुंबई महाराष्ट्र ४०००८०	एनपीएपी तारीख: ०१-१०-२०२२ मागणी नोटीसीची तारीख: १५-११-२०२३ एकूण येणे रक्कम: रु.२४६२५१९/-	गाडीचा प्रकार:-फोर्ड - फोर्ड कॅट डी फोर्ड - फोर्ड रजिस्ट्रेशन नं: MH05EA7777 इंडियन नं.: KJ334411 चेसिस नंबर: MAJAXXMRWAKJ33441	
७	अॅटो लोन: <b>UCR064703160376</b> कर्जदार: प्रकाश केंदुकरुती रुम नंबर २२१ गीता नगर नेव्ही नगर कोलोबा मुंबई महाराष्ट्र ४०००५५ भारत फोन: ८८५४०२०२११ कामाचा पत्ता: राधा चंढ्री नाथ पेपर प्लेटर्स डी. मजला २१ गीता नागरवली नगर कोलोबा मुंबई महाराष्ट्र ४०००५० भारत फोन: ८४२२२७४८/-	एनपीएपी तारीख: ०१-०२-२०१९ मागणी नोटीसीची तारीख: ०५-०९-२०२४ एकूण येणे रक्कम: रु.२१२२७४८/-	गाडीचा प्रकार: हूंडई - हूंडई सीएटी सी - क्रेटा रजिस्ट्रेशन नं: MH44AL3892 इंडियन नं.: BU496626-V चेसिस नंबर: MALSH81XSCM011643	२०	अॅटो लोन:- <b>UCR064702442667</b> कर्जदार: अशोककुमार एतन प्रजापती ६०९ १११ दुर्गा नगर देवी सीएचएस सीटीएस दत्तागडा रोड दत्तागडा पोलिस चौकीकडे बायवेली पूर्व मुंबई महाराष्ट्र ४००६६ भारत फोन:९९६९५७६८५७ कामाचा पत्ता: गाला क्रमांक २ - २ बर्बात रामा कॉम्प दामूराम आशुतोष रोड धनु नगर लाडर सह स्टॉप जवळ काठिवली मुंबई महाराष्ट्र ४०००८० भारत फोन:९८२२४०५८५८	एनपीएपी तारीख: ०९-		





**KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED**  
(Formerly Known as KURLON LIMITED)  
(CIN : U17214KA1962PLC001443)  
Regd. Office : # N-301, 3rd Floor, North Block, Manipal Centre,  
47 Dickenson Road, Bangalore - 560 042.  
Phone : 080 - 4031 3131, E-mail : secretary@manipal.com

### NOTICE OF RECORD DATE - BUYBACK OF SHARES

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, the Board of Directors of the Company at its meeting held on Friday, 3rd May 2024, noted that the shareholders have approved the buyback of shares of the Company via postal ballot the equity shares of face value of Rs. 10 each fully paid, being offered at a price of Rs. 1,300 per share.

The Company has further fixed the record date as Tuesday, 21st May 2024 to determine the shareholders eligible to receive the Letter of Offer and the Tender Form for the buyback of shares.

For KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED  
(Formerly Known as Kurlon Limited)  
Date : 14-05-2024 Sd/- Susheela Y. Bungal  
Place : Bangalore Company Secretary

### PRIOR PUBLIC NOTICE

#### CHANGE IN NBFC CONTROL AND MANAGEMENT

Public Notice is hereby issued under Direction 42.3 of Master Direction - Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023 ("RBI NBFC Directions") for intention to sell and transfer ownership / control of Pxyis Finvest Limited (Company), a Non-Banking Finance Company (NBFC) registered with the Reserve Bank of India (RBI) under registration number N.13.01840 dated 30-August-2006 and bearing CIN L65990MH2005PLC157586.

#### Particulars of Transferee:

Mr. Uttam Bharat Bagri, an Indian Resident individual bearing Income Tax Permanent Account Number AAEPB014D residing in Mumbai.

#### Reasons for such sale or transfer of ownership/control:

The existing promoters of the Company being JBCG Advisory Services Private Limited (Transferor) bearing CIN U74110MH2016PTC287730 have executed Share Purchase Agreement dated 19-December-2023 with the Transferee to sell their entire holding of 65,72,000 equity shares (representing 57.13%) of the Company as a strategic business decision. Following this transaction, there will be change in Management (Board of Directors) of the company.

In compliance with RBI NBFC Directions, prior approval has been obtained from the RBI as evidenced by their letter reference DoS.CO.RSG.No.S1030/02.13.001/2024-25 dated 10-May-2024. The proposed transfer of ownership (by sale of shares) and control will take place after thirty days have elapsed following the publication of this public notice.

This notice is being issued jointly by Transferee, Transferor and the Company. For any further clarifications/ information/ objections, kindly contact the company at email pxyisinvest@gmail.com or by post at registered office address at Level 9 (Unit 901), Centrum House, CST Road, Vidy Nagar Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai-400098.

Transferee	For JBCG Advisory Services Private Limited - Transferor	For Pxyis Finvest Limited - Company
Sd/- Uttam Bharat Bagri	Sd/- Kapil Bagla	Sd/- Shailendra Apte
PAN AAEPB014D	DIN 00387814	DIN 00017814
Place: Mumbai		
Date: 13-May-2024		

(This is Only An Advertisement For Information Purposes And Not A Prospectus Announcement. Not For Distribution Outside India.)

# SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED

Corporate Identification Number: U51909WB2016PLC215739

Our Company was originally incorporated on May 13, 2016 as "Silkflex Polymers (India) Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, the status of the Company was changed to public limited Company and the name of our Company was changed from "Silkflex Polymers (India) Private Limited" to "Silkflex Polymers (India) Limited" vide fresh certificate of incorporation dated December 21, 2023 by the Registrar of Companies, Kolkata. The Corporate Identification Number of our Company is U51909WB2016PLC215739. For further details on incorporation and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 155 of the Prospectus.

Registered Office: Daga Complex, Sulati Jaladhulagori, Sankrail, Howrah - 711 302, West Bengal, India  
Tel: +91 9674912615 | E-mail: investors@silkflextia.in | Website: www.silkflextia.in  
Contact Person: Mr. Sourabh Sharma, Company Secretary and Compliance Officer

**PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. TUSHAR LALIT KUMAR SANGHAVI, MS. URMJI RAJ MEHTA, M/S. TUSHAR LALITKUMAR SANGHAVI HUF AND M/S. LALITBHAI H SANGHVI HUF**

"The issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the equity shares are proposed to be listed on Emerge Platform of NSE (NSE EMERGE)."

### BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFERING OF 34,82,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED ("SPLI" OR "OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹52/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹42/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 1,810.64 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH 1,78,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 92.56 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 33,04,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 52/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 1,718.08 LAKHS ("NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 30.00% AND 28.47% RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 250 OF THE PROSPECTUS.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS 5.2 TIMES OF THE FACE VALUE

**ISSUE** **ISSUE OPENED ON: TUESDAY, MAY 07, 2024**  
**ISSUE CLOSED ON: FRIDAY, MAY 10, 2024**

### RISK TO INVESTORS:

1. Our Equity Shares have never been publicly traded, and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may be volatile and you may be unable to resell your Equity Shares at or above the Issue Price or at all.

2. The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is set forth in the table below:

Sr. No.	Name of the Promoters	No of Equity Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Mr. Tushar Lalit Kumar Sanghavi	66,65,450	6.81
2.	Ms. Urmji Raj Mehta	48,750	10.77
3.	M/s Tushar Lalitkumar Sanghavi HUF	9,10,000	6.18
4.	M/s Lalitbhai H. Sanghvi HUF	4,87,500	3.08

Investors are required to refer section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Prospectus.

Our Company has filed the Prospectus dated May 01, 2024 with the ROC, Kolkata (the "Prospectus"). The Equity Shares of the Company are proposed to be listed on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited i.e., NSE Emerge, in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval from NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated April 30, 2024. NSE is the Designated Stock Exchange for the purpose of this Issue. The trading is to be commenced on May 15, 2024 (Subject to receipt of listing and trading approvals from the NSE).

The Issue is being made through the Fixed Price process, the allocation in the Net Issue to the Public category is made pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, wherein a minimum of 50% of the Net Issue of shares to the Public is initially made available for allotment to Retail Individual Investors. The balance of Net Issue of Shares to the public is made available for allotment to individual Applicants other than Retail Individual Investors and other Investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. If the Retail Individual Investor category is entitled to more than 50% on proportionate basis, they shall be allotted that higher percentage. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and the Designation Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All potential investors shall participate in the Issue only through an Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process including through UPI mode (as applicable) by providing details of the irrevocable bank accounts and / or UPI IDs, in case of RILs, if applicable, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") for the same.

### SUBSCRIPTION DETAILS

The Net Issue has received 34,418 applications before technical rejections for 12,27,48,000 Equity Shares resulting in 37.15 times subscription. The details of the applications received in the Net Issue (before and after technical rejections & withdrawal) are as follows:

#### Detail of the Applications Received

Category	Gross		Less: Rejections*		Valid	
	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares
Non-Retail Investors	3,390	6,06,92,000	36	1,88,000	3,354	6,05,04,000
Retail Individual Investors	31,028	6,20,56,000	830	16,60,000	30,198	6,03,96,000
<b>TOTAL</b>	<b>34,418</b>	<b>12,27,48,000</b>	<b>866</b>	<b>18,48,000</b>	<b>33,552</b>	<b>12,09,00,000</b>

\*This includes 312 applications for 6,24,000 equity shares from Retail investors which were not in book but excludes bids (UPI mandates) not accepted by investors.

#### Note:

1. The Net Issue does not include 1,78,000 Equity Shares reserved for Market Maker, which was subscribed by 1.00 time.  
2. There were 866 Technical Rejections for 18,48,000 Equity Shares. The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange - NSE on May 13, 2024.

A) Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Issue Price of ₹ 52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 1,78,000 Equity Shares. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to Total
1,78,000	1	100.00	1,78,000	100.00	1,78,000	1:1	1,78,000	100.00

B) Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.56 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant		Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to Total	
					Before Rounding off	After Rounding off				
2000	30,198	100.00	6,03,96,000	100.00	54.71	2000	25	914	16,52,000	100.00

C) Allocation to Other than Retail Category (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Non-Retail Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.62 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of shares allocated/allotted	
						Before Rounding off	After Rounding off			
4,000	2,253	67.17	90,12,000	14.89	2,46,063	109.22	2,000	41	751	2,46,000
6,000	213	6.35	12,78,000	2.11	34,894	163.82	2,000	17	213	34,000
8,000	139	4.14	11,12,000	1.84	30,362	218.43	2,000	15	139	30,000
10,000	111	3.31	11,10,000	1.83	30,307	273.04	2,000	5	37	30,000
12,000	50	1.49	6,00,000	0.99	16,382	327.64	2,000	4	25	16,000
14,000	26	0.78	3,64,000	0.60	9,939	382.27	2,000	5	26	10,000
16,000	36	1.07	5,76,000	0.95	15,727	436.86	2,000	2	9	16,000
20,000	179	5.34	35,80,000	5.92	97,748	546.08	2,000	49	179	98,000
22,000	22	0.66	4,84,000	0.80	13,215	606.68	2,000	7	22	14,000
30,000	17	0.51	5,10,000	0.84	13,925	819.12	2,000	7	17	14,000
38,000	7	0.21	2,66,000	0.44	7,263	1,037.57	2,000	4	7	8,000
40,000	16	0.48	6,40,000	1.06	17,475	1,092.19	2,000	9	16	18,000
50,000	10	0.30	5,00,000	0.83	13,652	1,365.2	2,000	7	10	14,000
52,000	4	0.12	2,08,000	0.34	5,679	1,419.75	2,000	3	4	6,000
58,000	6	0.18	3,48,000	0.58	9,502	1,583.67	2,000	5	6	10,000

The Board of Directors of the Company at its meeting held on May 13, 2024, has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares, as approved by the Designated Stock Exchange viz. NSE and has authorized the corporate action for the allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

The CAN and allotment advice and / or notices shall be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories on or before May 14, 2024. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking of funds will process on or prior to May 14, 2024. The Equity Shares allotted to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. In case the same is not received within prescribed time, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the Emerge Platform of NSE within 3 working days from the Closure of the Issue. The trading is proposed to be commenced on May 15, 2024 subject to receipt of listing and trading approvals from NSE.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated May 01, 2024 ("Prospectus").

### INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, Bigshare Services Private Limited at www.bigshareonline.com.

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole Applicant, Serial number of the Application Form, Number of Shares Applied for and Bank Branch where the Application had been lodged and payment details at the address given below:

#### BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED

Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai - 400 093, Maharashtra, India | Telephone: 022 - 6263 8200 | E-mail: ipo@bigshareonline.com  
Investor Grievance E-mail: investor@bigshareonline.com | Website: www.bigshareonline.com  
Contact Person: Mr. Vinayak Morbale | SEBI Registration Number: INR00001385

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated May 01, 2024.

#### For Silkflex Polymers (India) Limited

On Behalf of the Board of Directors

Sd/- Mr. Tushar Lalit Kumar Sanghavi

Designation: Chairman & Managing Director

DIN: 07476030

Place: Howrah

Date: May 13, 2024

LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED

Silkflex Polymers (India) Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a Public Issue of its Equity Shares and has filed Prospectus with the Registrar of Companies, Kolkata on May 01, 2024. The Prospectus is available on websites of the Company, the NSE and the Lead Manager at www.silkflextia.in, www.nseindia.com, www.shreni.in respectively. Applicants should note that investment in equity shares involves a high-risk and for details relating to the same, see the Prospectus, including section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities law. Accordingly, the Equity Shares are offered or sold (i) within the United States to persons reasonably believed to be qualified institutional investors (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act and (ii) Outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and applicable laws of the jurisdiction where such offers and sales occur.

AdBaz

## ALAN SCOTT ENTERPRISES LIMITED

(formerly known as Alan Scott Industries Limited)  
Corporate Identification Number: L33100MH1994PLC076732  
Registered Office: Unit no. 302, Kumar Plaza, 3rd Floor, Near Kalina Masjid, Kalina Kurla Road, Santacruz (East), Mumbai - 400029, Maharashtra, India. | Tel: +91 61786000/01, 9867644930  
E-mail: alanscottcompliance@gmail.com | Website: thealanscott.com | Contact person: Mr. Shankar Madva

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined here shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated June 16, 2023 filed with BSE Limited ("BSE").

### FINAL DEMAND-CUM-FORFEITURE NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES

In terms of the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made thereunder, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer dated June 16, 2023 ("Letter of Offer"), a Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been sent in electronic mode to the holders of partly paid-up equity shares who have not paid the call money or part thereof, pursuant to the First and/or Second & Final Call Money Notice dated November 27, 2023 and February 26, 2024, and physical copy of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice along with the detailed instructions and payment slip, has been sent through permitted modes of dispatch at the registered address of all those holders of partly paid-up equity shares, who have not paid the First and Second & Final call money (or a part thereof). The Company has completed the dispatch on May 10, 2024.

The Board of Director ("Board"), duly authorized by the Board, has on Thursday, May 9, 2024, approved sending of a Final Demand-cum-Forfeiture Notice for payment of First and Second & Final call amount of ₹ 10.00 (including share premium of ₹ 6.5) towards the First Call and ₹ 10.00 (including share premium of ₹ 7.00) as First and Second & Final Call money ("Final Demand cum-Forfeiture Notice"), to the holders of such partly paid-up equity shares on which the First and/or Second & Final Call Money remains unpaid.

Accordingly, the Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been served providing the details given below:

Payment Period	From		To	Duration
	Tuesday, May 14, 2024	Tuesday, May 28, 2024		
Mode of Payment	Cheque or Demand Draft payable to:			
	Alan Scott Call Money - Escrow Collection - R A/c (For resident Shareholders) Alan Scott Call Money - Escrow Collection - NR A/c (For Non-resident Shareholders)			

Shareholder pay through cheque/demand draft, the payment slip (stating Full Name of the Sole/First shareholder; DP ID-Client ID/ Folio No; and No. of partly paid-up equity shares) along with the amount payable by cheque or demand draft must be presented.

Please note that, failure to pay the First and Second & Final Call Money pursuant to the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, as aforesaid, shall render the partly paid-up equity shares (to the extent that the First and Second & Final Call Money was not paid), including the application amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the Act, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.

Shareholders may also note that:

- The ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares of face value ₹10 each (₹3.50 paid-up and ₹7.00 paid up) has been suspended by the Stock Exchanges. Further the ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares has been suspended by National Securities Depository Ltd ("NSDL") and Central Depository Services (India) Ltd. ("CDSL").
- The process of corporate action for converting the partly paid-up equity shares to the fully paid-up ordinary shares under the present ISIN INE273F01022 for the existing fully paid-up ordinary shares, allotted to be completed, on a best effort basis, within two to three weeks from the last date of payment of the First and/or Second & Final Call Money stipulated under this Final Demand-cum-Forfeiture Notice. Upon completion of the corporate action, the partly paid-up equity shares shall be converted into fully paid-up equity shares and would be credited to ISIN INE273F01022, allotted by NSDL/CDSL.
- In case of non-receipt of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the duplicate Final Demand-cum-Forfeiture Notice to the Registrar, or may also download the same from the Company's website: www.thealanscott.com or the Registrar's website: www.purvashare.com. In such a case, however, the shareholder has to fill the DP ID-Client ID/folio Number, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the First and Second & Final Call Money.
- The shareholder must mention in the Application, his/her PAN number allotted under the Income Tax Act, 1961.

All correspondence in respect of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice may be addressed to: Purva Sharegistry (India) Private Limited (Unit: Alan Scott Enterprises Limited) at the address Office 9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near Lohada Excelus, Lower Parel East, Mumbai - 400011, Maharashtra, India. Telephone No - 022 49614132 | 022 49700138 | 022 35220056; E-mail: newissue@purvashare.com; Website: www.purvashare.com; Contact Person: Ms. Deepali Dhuri; SEBI Registration Number: INR00001112.

For Alan Scott Enterprises Ltd. Sd/- Saloni Suresh Jain Director

Date: May 13, 2024  
Place: Mumbai

## CHALET Chalet Hotels Limited

CIN: L55101MH1986PLC038538,  
Registered office: Raheja Tower, Plot No. C-30, Block 'G' Next to Bank of Baroda, Bandra Kurla Complex, Bandra, Mumbai 400 051  
Email ID: investorrelations@chalet-hotels.com, website: www.chalet-hotels.com

### EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2024

(Rs. in million)

Particulars	CONSOLIDATED				
	Quarter Ended			Year Ended	
	31 March 2024	31 December 2023	31 March 2023	31 March 2024	31 March





## KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED

(Formerly Known as KURLON LIMITED)

(CIN : U17214KA1962PLC001443)

Regd. Office : # N-301, 3rd Floor, North Block, Manipal Centre,  
47 Dickenson Road, Bangalore - 560 042.  
Phone : 080 - 4031 3131, E-mail : secretary@manipal.com

### NOTICE OF RECORD DATE - BUYBACK OF SHARES

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 91 of The Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, the Board of Directors of the Company at its meeting held on Friday, 3rd May 2024, noted that the shareholders have approved the buyback of shares of the Company via postal ballot the equity shares of face value of Rs. 10 each fully paid, being offered at a price of Rs. 1,300 per share.

The Company has further fixed the record date as Tuesday, 21st May 2024 to determine the shareholders eligible to receive the Letter of Offer and the Tender Form for the buyback of shares.

For KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED

(Formerly Known as Kurlon Limited)

Date : 14-05-2024  
Place : Bangalore

Sd/-  
Susheela Y. Bungale  
Company Secretary

### PRIOR PUBLIC NOTICE

#### CHANGE IN NBFC CONTROL AND MANAGEMENT

Public Notice is hereby issued under Direction 42.3 of Master Direction - Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023 ("RBI NBFC Directions") for intention to sell and transfer ownership / control of Pyxis Finvest Limited (Company), a Non-Banking Finance Company (NBFC) registered with the Reserve Bank of India (RBI) under registration number N.13.01840 dated 30-August-2006 and bearing CIN L65990MH2005PLC157586.

#### Particulars of Transferee:

Mr. Uttam Bharat Bagri, an Indian Resident individual bearing Income Tax Permanent Account Number AAEPB6014D residing in Mumbai.

#### Reasons for such sale or transfer of ownership/control:

The existing promoters of the Company being JBCG Advisory Services Private Limited (Transferor) bearing CIN U74110MH2016PTC287730 have executed Share Purchase Agreement dated 19-December-2023 with the Transferee to sell their entire holding of 65,72,000 equity shares (representing 57.13%) of the Company as a strategic business decision. Following this transaction, there will be change in Management (Board of Directors) of the company.

In compliance with RBI/NBFC Directions, prior approval has been obtained from the RBI as evidenced by their letter reference DoS.CO.RSG.No. S1030/02.13.001/2024-25 dated 10-May-2024. The proposed transfer of ownership (by sale of shares) and control will take place after thirty days have elapsed following the publication of this public notice.

This notice is being issued jointly by Transferee, Transferor and the Company. For any further clarifications/ information/ objections, kindly contact the company at email pyxisinvest@gmail.com or by post at registered office address at Level 9 (Unit 801), Centrum House, CST Road, Vidya Nagar Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400098.

Transferee	For JBCG Advisory Services Private Limited - Transferor	For Pyxis Finvest Limited - Company
Sd/-	Sd/-	Sd/-
Uttam Bharat Bagri	Kapil Bagla	Shallendra Apte
PAN AAEPB6014D	DIN 00387814	DIN 00017814
Place: Mumbai		
Date: 13-May-2024		

(This Is Only An Advertisement For Information Purposes And Not A Prospectus Announcement. Not For Distribution Outside India.)

# SILKFLEX

## SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED

Corporate Identification Number: U51909WB2016PLC215739

Our Company was originally incorporated on May 13, 2016 as "Silkflex Polymers (India) Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, the status of the Company was changed to public limited Company and the name of our Company was changed from "Silkflex Polymers (India) Private Limited" to "Silkflex Polymers (India) Limited" vide fresh certificate of incorporation dated December 21, 2023 by the Registrar of Companies, Kolkata. The Corporate Identification Number of our Company is U51909WB2016PLC215739. For further details on incorporation and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 155 of the Prospectus.

Registered Office: Daga Complex, Sulati Jaladhulagori, Sankrail, Howrah - 711 302, West Bengal, India

Tel: +91 9674912615 | E-mail: investors@silklflexindia.in | Website: www.silklflexindia.in

Contact Person: Mr. Sourabh Sharma, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. TUSHAR LALIT KUMAR SANGHAVI, MS. URMI RAJ MEHTA, M/S. TUSHAR LALITKUMAR SANGHAVI HUF AND M/S. LALITBHAI H SANGHVI HUF

"The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the equity shares are proposed to be listed on Emerge Platform of NSE (NSE EMERGE)."

### BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFERING OF 34,82,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED ("SPIL" OR "OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹52/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹42/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 1,810.64 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH 1,78,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 92.56 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 33,04,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 52/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 1,718.08 LAKHS ("NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 30.00% AND 28.47% RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 250 OF THE PROSPECTUS.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS 5.2 TIMES OF THE FACE VALUE

### ISSUE

ISSUE OPENED ON: TUESDAY, MAY 07, 2024

ISSUE CLOSED ON: FRIDAY, MAY 10, 2024

#### RISK TO INVESTORS:

- Our Equity Shares have never been publicly traded, and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may be volatile and you may be unable to resell your Equity Shares at or above the Issue Price or at all.
- The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is set forth in the table below:

Sr. No.	Name of the Promoters	No of Equity Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Mr. Tushar Lalit Kumar Sanghavi	66,65,450	6.81
2.	Ms. Urmi Raj Mehta	48,750	10.77
3.	M/s Tushar Lalitkumar Sanghavi HUF	9,10,000	6.18
4.	M/s Lalitbhai H. Sanghvi HUF	4,87,500	3.08

Investors are required to refer section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Prospectus.

Our Company has filed the Prospectus dated May 01, 2024 with the ROC, Kolkata (the "Prospectus"). The Equity Shares of the Company are proposed to be listed on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited i.e., NSE Emerge, in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval from NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated April 30, 2024. NSE is the Designated Stock Exchange for the purpose of this Issue. The trading is to be commenced on May 15, 2024 (Subject to receipt of listing and trading approvals from the NSE).

The Issue is being made through the Fixed Price process, the allocation in the Net Issue to the Public category is made pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, wherein a minimum of 50% of the Net Issue of shares to the Public is initially made available for allotment to Retail Individual Investors. The balance of Net Issue of Shares to the public is made available for allotment to Individual Applicants other than Retail Individual Investors and other investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. If the Retail Individual Investor category is entitled to more than 50% on proportionate basis, they shall be allotted that higher percentage. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and the Designation Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All potential investors shall participate in the Issue only through an Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process including through UPI mode (as applicable) by providing details of the irrevocable bank accounts and / or UPI IDs, in case of RILs, if applicable, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") for the same.

#### SUBSCRIPTION DETAILS

The Net Issue has received 34,418 applications before technical rejections for 12,27,48,000 Equity Shares resulting in 37.15 times subscription. The details of the applications received in the Net Issue (before and after technical rejections & withdrawal) are as follows:

#### Detail of the Applications Received

Category	Gross		Less: Rejections*		Valid	
	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares
Non-Retail Investors	3,390	6,06,92,000	36	1,88,000	3,354	6,05,04,000
Retail Individual Investors	31,028	6,20,56,000	830	16,60,000	30,198	6,03,96,000
<b>TOTAL</b>	<b>34,418</b>	<b>12,27,48,000</b>	<b>866</b>	<b>18,48,000</b>	<b>33,552</b>	<b>12,09,00,000</b>

\*This includes 312 applications for 6,24,000 equity shares from Retail investors which were not in book but excludes bids (UPI mandates) not accepted by investors.

#### Note:

- The Net Issue does not include 1,78,000 Equity Shares reserved for Market Maker, which was subscribed by 1.00 time.
- There were 866 Technical Rejections for 18,48,000 Equity Shares. The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange - NSE on May 13, 2024.

A) Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Issue Price of ₹ 52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 1,78,000 Equity Shares. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to Total
1,78,000	1	100.00	1,78,000	100.00	1,78,000	1:1	1,78,000	100.00

B) Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.56 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant		Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to Total	
					Before Rounding off	After Rounding off				
2000	30,198	100.00	6,03,96,000	100.00	54.71	2000	25	914	16,52,000	100.00

C) Allocation to Other than Retail Category (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Non-Retail Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.62 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of shares allocated/allotted	
						Before Rounding off	After Rounding off			
4,000	2,253	67.17	90,12,000	14.89	2,46,063	109.22	2,000	41	751	2,46,000
6,000	213	6.35	12,78,000	2.11	34,894	163.82	2,000	17	213	34,000
8,000	139	4.14	11,72,000	1.84	30,362	218.43	2,000	15	139	30,000
10,000	111	3.31	11,10,000	1.83	30,307	273.04	2,000	5	37	30,000
12,000	50	1.49	6,00,000	0.99	16,382	327.64	2,000	4	25	16,000
14,000	26	0.78	3,64,000	0.60	9,939	382.27	2,000	5	26	10,000
16,000	36	1.07	5,76,000	0.95	15,727	436.86	2,000	2	9	16,000
20,000	179	5.34	35,80,000	5.92	97,748	546.08	2,000	49	179	98,000
22,000	22	0.66	4,84,000	0.80	13,215	600.68	2,000	7	22	14,000
30,000	17	0.51	5,10,000	0.84	13,925	819.12	2,000	7	17	14,000
38,000	7	0.21	2,66,000	0.44	7,263	1,037.57	2,000	4	7	8,000
40,000	16	0.48	6,40,000	1.06	17,475	1,092.19	2,000	9	16	18,000
50,000	10	0.30	5,00,000	0.83	13,652	1,365.2	2,000	7	10	14,000
52,000	4	0.12	2,08,000	0.34	5,679	1,419.75	2,000	3	4	6,000
58,000	6	0.18	3,48,000	0.58	9,502	1,583.67	2,000	5	6	10,000

The Board of Directors of the Company at its meeting held on May 13, 2024, has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares, as approved by the Designated Stock Exchange viz. NSE and has authorized the corporate action for the allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

The CAN and allotment advice and / or notices shall be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories on or before May 14, 2024. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking of funds will process on or prior to May 14, 2024. The Equity Shares allotted to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. In case the same is not received within prescribed time, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the Emerge Platform of NSE within 3 working days from the Closure of the Issue. The trading is proposed to be commenced on May 15, 2024 subject to receipt of listing and trading approvals from NSE.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated May 01, 2024 ("Prospectus").

#### INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, Bigshare Services Private Limited at www.bigshareonline.com.

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole Applicant, Serial number of the Application Form, Number of Shares Applied for and Bank Branch where the Application had been lodged and payment details at the address given below:



#### BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED

Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai - 400 093, Maharashtra, India | Telephone: 022 - 6263 8200 | E-mail: ipo@bigshareonline.com  
Investor Grievance E-mail: investor@bigshareonline.com | Website: www.bigshareonline.com  
Contact Person: Mr. Vinayak Morbale | SEBI Registration Number: INR000001385

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated May 01, 2024.

For Silkflex Polymers (India) Limited  
On Behalf of the Board of Directors

Sd/-

Mr. Tushar Lalit Kumar Sanghavi

Designation: Chairman & Managing Director

Date: May 13, 2024  
DIN: 07476030

Place: Howrah

Date: May 13, 2024

LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED

Silkflex Polymers (India) Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a Public Issue of its Equity Shares and has filed Prospectus with the Registrar of Companies, Kolkata on May 01, 2024. The Prospectus is available on websites of the Company, the NSE and the Lead Manager at www.silklflexindia.in, www.nseindia.com, www.shreni.in respectively. Applicants should note that investment in equity shares involves a high-risk and for details relating to the same, see the Prospectus, including section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities law. Accordingly, the Equity Shares are offered or sold (i) within the United States to persons reasonably believed to be qualified institutional investors (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act and (ii) Outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and applicable laws of the jurisdiction where such offers and sales occur.

## ALAN SCOTT ENTERPRISES LIMITED



(formerly known as Alan Scott Industries Limited)

Corporate Identification Number: L33100MH1994PLC076732

Registered Office: Unit no. 302, Kumar Plaza, 3rd Floor, Near Kalina Masjid, Kalina Kurla Road, Santacruz (East), Mumbai - 400029, Maharashtra, India. | Tel: +91 61786000/01, 9867644930  
E-mail: alanscottcompliance@gmail.com | Website: thealanscott.com | Contact person: Mr. Shankar Madva

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined here shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated June 16, 2023 filed with BSE Limited ("BSE").

### FINAL DEMAND-CUM-FORFEITURE NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES

In terms of the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made thereunder, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer dated June 16, 2023 ("Letter of Offer"), a Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been sent in electronic mode to the holders of partly paid-up equity shares who have not paid the call money or part thereof, pursuant to the First and/or Second & Final Call Money Notice dated November 27, 2023 and February 26, 2024, and physical copy of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice along with the detailed instructions and payment slip, has been sent through permitted modes of dispatch at the registered address of all those holders of partly paid-up equity shares, who have not paid the First and Second & Final call money (or a part thereof). The Company has completed the dispatch on May 10, 2024.

The Board of Director ("Board"), duly authorized by the Board, has on Thursday, May 9, 2024, approved sending of a Final Demand-cum-Forfeiture Notice for payment of First and Second & Final call amount of ₹ 10.00 (including share premium of ₹ 6.5) towards the First Call and ₹10.00 (including share premium of ₹ 7.00) as First and Second & Final Call money ("Final Demand cum-Forfeiture Notice"), to the holders of such partly paid-up equity shares on which the First and/or Second & Final Call Money remains unpaid.

Accordingly, the Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been served providing the details given below:

Payment Period	From		To	Duration
	Tuesday, May 14, 2024			
Mode of Payment	Cheque or Demand Draft payable to:			
	Alan Scott Call Money - Escrow Collection - R A/c (For resident Shareholders) Alan Scott Call Money - Escrow Collection - NR A/c (for Non-resident Shareholders)			

Shareholder pay through cheque/demand draft, the payment slip (stating Full Name of the Sole/First shareholder, DP ID-Client ID/ Folio No; and No. of partly paid-up equity shares) along with the amount payable by cheque or demand draft must be presented.

Please note that, failure to pay the First and Second & Final Call Money pursuant to the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, as aforesaid, shall render the partly paid-up equity shares (to the extent that the First and Second & Final Call Money was not paid), including the application amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the Act, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.

Shareholders may also note that:

- The ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares of face value ₹10 each (₹3.50 paid-up and ₹7.00 paid up) has been suspended by the Stock Exchanges. Further the ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares has been suspended by National Securities Depository Ltd ("NSDL") and Central Depository Services (India) Ltd. ("CDSL").
- The process of corporate action for converting the partly paid-up equity shares to the fully paid-up ordinary shares under the present ISIN INE273F01022 for the existing fully paid-up ordinary shares, allotted by the depositories, is estimated to be completed, on a best effort basis, within two to three weeks from the last date of payment of the First and/or Second & Final Call Money stipulated under this Final Demand-cum-Forfeiture Notice. Upon completion of the corporate action, the partly paid-up equity shares shall be converted into fully paid-up equity shares and would be credited to ISIN INE273F01022, allotted by NSDL/CDSL.
- In case of non-receipt of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the duplicate Final Demand-cum-Forfeiture Notice to the Registrar, or may also download the same from the Company's website: www.thealanscott.com or the Registrar's website: www.purvashare.com. In such a case, however, the shareholder has to fill the DP ID-Client ID/folio Number, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the First and Second & Final Call Money.
- The shareholder must mention in the Application, his/her PAN number allotted under the Income Tax Act, 1961.

All correspondence in respect of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice may be addressed to: Purva Shareistry (India) Private Limited (Unit: Alan Scott Enterprises Limited) at the address Office 9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel East, Mumbai - 400011, Maharashtra, India, Telephone No - 022 49614132 | 022 49700138 | 022 35220056; E-mail: newissue@purvashare.com; Website: www.purvashare.com; Contact Person: Ms. Deepali Dhuri; SEBI Registration Number: INR000001112.

For Alan Scott Enterprises Ltd.



**KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED**  
(Formerly Known as KURLON LIMITED)  
(CIN : U17214KA1962PLC001443)  
Regd. Office : # N-301, 3rd Floor, North Block, Manipal Centre,  
47 Dickenson Road, Bangalore - 560 042.  
Phone : 080 - 4031 3131, E-mail : secretary@manipal.com

**NOTICE OF RECORD DATE - BUYBACK OF SHARES**  
NOTICE is hereby given that pursuant to Section 91 of The Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, the Board of Directors of the Company at its meeting held on Friday, 3rd May 2024, noted that the shareholders have approved the buyback of shares of the Company via postal ballot the equity shares of face value of Rs. 10 each fully paid, being offered at a price of Rs. 1,300 per share.

The Company has further fixed the record date as Tuesday, 21st May 2024 to determine the shareholders eligible to receive the Letter of Offer and the Tender Form for the buyback of shares.

For KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED  
(Formerly Known as Kurlon Limited)  
Date : 14-05-2024  
Place : Bangalore

Sd/-  
Susheela Y. Bungale  
Company Secretary

**PRIOR PUBLIC NOTICE**  
**CHANGE IN NBFC CONTROL AND MANAGEMENT**  
Public Notice is hereby issued under Direction 42.3 of Master Direction - Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023 ("RBI NBFC Directions") for intention to sell and transfer ownership / control of Pyxis Finvest Limited (Company), a Non-Banking Finance Company (NBFC) registered with the Reserve Bank of India (RBI) under registration number N.13.01840 dated 30-August-2006 and bearing CIN L65990MH2005PLC157586.

**Particulars of Transferee:**  
Mr. Uttam Bharat Bagri, an Indian Resident individual bearing Income Tax Permanent Account Number AAEPB6014D residing in Mumbai.

**Reasons for such sale or transfer of ownership/control:**  
The existing promoters of the Company being JBCG Advisory Services Private Limited (Transferor) bearing CIN U74110MH2016PTC287730 have executed Share Purchase Agreement dated 19-December-2023 with the Transferee to sell their entire holding of 65,72,000 equity shares (representing 57.13% of the Company as a strategic business decision. Following this transaction, there will be change in Management (Board of Directors) of the company.

In compliance with RBI NBFC Directions, prior approval has been obtained from the RBI as evidenced by their letter reference DoS.CO.RSG.No. S1030/02.13.001/2024-25 dated 10-May-2024. The proposed transfer of ownership (by sale of shares) and control will take place after thirty days have elapsed following the publication of this public notice.

This notice is being issued jointly by Transferee, Transferor and the Company. For any further clarifications/ information/ objections, kindly contact the company at email pyxisinvest@gmail.com or by post at registered office address at Level 9 (Unit 801), Centrum House, CST Road, Vidya Nagar Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400098.

**Transferee** For JBCG Advisory Services Private Limited - Transferor For Pyxis Finvest Limited - Company  
Sd/- Sd/- Sd/-  
Uttam Bharat Bagri Kapil Bagla Shalendra Apte  
PAN AAEPB6014D DIN 00387814 DIN 00017814  
Place: Mumbai  
Date: 13-May-2024

**ALAN SCOTT ENTERPRISES LIMITED**  
(formerly known as Alan Scott Industries Limited)  
Corporate Identification Number: L33100MH1994PLC076732  
Registered Office: Unit no. 302, Kumar Plaza, 3rd Floor, Near Kalina Masjid, Kalina Kurla Road, Santacruz (East), Mumbai - 400029, Maharashtra, India. | Tel: +91 617860001, 9867644930  
E-mail: alanscottcompliance@gmail.com | Website: thealanscott.com | Contact person: Mr. Shankar Madva

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined here shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated June 16, 2023 filed with BSE Limited ("BSE").

**FINAL DEMAND-CUM-FORFEITURE NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES**  
In terms of the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made thereunder, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer dated June 16, 2023 ("Letter of Offer"), a Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been sent in electronic mode to the holders of partly paid-up equity shares who have not paid the call money or part thereof, pursuant to the First and/or Second & Final Call Money Notice dated November 27, 2023 and February 26, 2024, and physical copy of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice along with the detailed instructions and payment slip, has been sent through permitted modes of dispatch at the registered address of all those holders of partly paid-up equity shares, who have not paid the First and Second & Final call money (or a part thereof). The Company has completed the dispatch on May 10, 2024.

The Board of Director ("Board"), duly authorized by the Board, has on Thursday, May 9, 2024, approved sending of a Final Demand-cum-Forfeiture Notice for payment of First and Second & Final call amount of ₹ 10.00 (including share premium of ₹ 6.5) towards the First Call and ₹ 10.00 (including share premium of ₹ 7.00) as First and Second & Final Call money ("Final Demand cum-Forfeiture Notice"), to the holders of such partly paid-up equity shares on which the First and/or Second & Final Call Money remains unpaid.

Accordingly, the Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been served providing the details given below:

Payment Period	From	To	Duration
	Tuesday, May 14, 2024	Tuesday, May 28, 2024	15 days

Cheque or Demand Draft payable to:  
Alan Scott Call Money - Escrow Collection - R A/c (For resident Shareholders)  
Alan Scott Call Money - Escrow Collection - NR A/c (for Non-resident Shareholders)

Shareholder pay through cheque/demand draft, the payment slip (stating Full Name of the Sole/First shareholder; DP ID-Client ID/ Folio No; and No. of partly paid-up equity shares) along with the amount payable by cheque or demand draft must be presented.

Please note that, failure to pay the First and Second & Final Call Money pursuant to the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, as aforesaid, shall render the partly paid-up equity shares (to the extent that the First and Second & Final Call Money was not paid), including the application amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the Act, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.

Shareholders may also note that:

- The ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares of face value ₹10 each (₹3.50 paid-up and ₹7.00 paid up) has been suspended by the Stock Exchanges. Further the ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares has been suspended by National Securities Depository Ltd ("NSDL") and Central Depository Services (India) Ltd. ("CDSL").
- The process of corporate action for converting the partly paid-up equity shares to the fully paid-up ordinary shares under the present ISIN INE273F01022 for the existing fully paid-up ordinary shares, allotted by the depositories, is estimated to be completed, on a best effort basis, within two to three weeks from the last date of payment of the First and/or Second & Final Call Money stipulated under this Final Demand-cum-Forfeiture Notice. Upon completion of the corporate action, the partly paid-up equity shares shall be converted into fully paid-up equity shares and would be credited to ISIN INE273F01022, allotted by NSDL/CDSL.
- In case of non-receipt of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the duplicate Final Demand-cum-Forfeiture Notice to the Registrar, or may also download the same from the Company's website: www.thealanscott.com or the Registrar's website: www.purvashare.com. In such a case, however, the shareholder has to fill the DP ID-Client ID/folio Number, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the First and Second & Final Call Money.
- The shareholder must mention in the Application, his/her PAN number allotted under the Income Tax Act, 1961.

All correspondence in respect of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice may be addressed to: Purva Shareistry (India) Private Limited (Unit: Alan Scott Enterprises Limited) at the address Office 9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel East, Mumbai - 400011, Maharashtra, India, Telephone No - 022 49614132 | 022 49700138 | 022 35220056; E-mail: newissue@purvashare.com; Website: www.purvashare.com; Contact Person: Ms. Deepali Dhuri; SEBI Registration Number: INR00000112.

For Alan Scott Enterprises Ltd.  
Sd/-  
Saloni Suresh Jain  
Director

Date: May 13, 2024  
Place: Mumbai

**CHALET Chalet Hotels Limited**  
HOTELS  
CIN: L55101MH1986PLC038538,  
Registered office: Raheja Tower, Plot No. C-30, Block 'G' Next to Bank of Baroda, Bandra Kurla Complex, Bandra, Mumbai 400 051  
Email ID: investorrelations@chalet-hotels.com, website: www.chalet-hotels.com

**EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2024**  
(Rs. in million)

Particulars	CONSOLIDATED					
	Quarter Ended			Year Ended		
	31 March 2024 (Audited)	31 December 2023 (Unaudited)	31 March 2023 (Audited)	31 March 2024 (Audited)	31 March 2023 (Audited)	31 March 2023 (Audited)
Total Income	4,244.07	3,798.87	3,457.83	14,370.38	11,779.54	
EBITDA before exceptional items	1,890.08	1,722.15	1,602.71	6,043.78	5,023.04	
Profit before income tax	990.26	886.52	714.59	2,693.53	2,728.29	
Profit for the period / year	824.40	706.42	366.31	2,781.81	1,832.90	
Total Comprehensive Income for the period / year	819.98	705.09	361.45	2,773.42	1,828.26	
Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 per share)	2,054.74	2,053.95	2,050.25	2,054.74	2,050.25	
Other Equity	-	-	-	16,458.68	13,369.14	
Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each)						
Basic (*not annualised) (in Rs.)	*4.01	*3.44	*1.79	13.54	8.94	
Diluted (*not annualised) (in Rs.)	*4.01	*3.44	*1.79	13.53	8.94	

**1) Key numbers of Standalone Financial Results**

Particulars	Quarter Ended			Year Ended		
	31 March 2024 (Audited)	31 December 2023 (Unaudited)	31 March 2023 (Audited)	31 March 2024 (Audited)	31 March 2023 (Audited)	31 March 2023 (Audited)
	Total Income	4,210.50	3,783.89	3,469.51	14,186.63	11,793.81
Profit before income tax	990.23	910.59	749.64	2,684.81	2,772.53	
Profit for the period / year	818.36	731.87	401.52	2,782.82	1,877.65	

**Notes:**

- The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2024 are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website at www.chalet-hotels.com.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 13 May 2024.
- The above results are in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 as prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013, read with the relevant Rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.

For Chalet Hotels Limited  
(CIN - L55101MH1986PLC038538)  
Sd/-  
Sanjay Sethi  
Managing Director & CEO  
(DIN. 00641243)

Place : Mumbai  
Date : 13 May 2024

(This is Only An Advertisement For Information Purposes And Not A Prospectus Announcement. Not For Distribution Outside India.)

# SILKFLEX

## SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED

Corporate Identification Number: U51909WB2016PLC215739

Our Company was originally incorporated on May 13, 2016 as "Silkflex Polymers (India) Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, the status of the Company was changed to public limited Company and the name of our Company was changed from "Silkflex Polymers (India) Private Limited" to "Silkflex Polymers (India) Limited" vide fresh certificate of incorporation dated December 21, 2023 by the Registrar of Companies, Kolkata. The Corporate Identification Number of our Company is U51909WB2016PLC215739. For further details on incorporation and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 155 of the Prospectus.

Registered Office: Daga Complex, Sulati, Jaladulagori, Sankrail, Howrah - 711 302, West Bengal, India  
Tel: +91 9674912615 | E-mail: investors@silkflexindia.in | Website: www.silkflexindia.in  
Contact Person: Mr. Sourabh Sharma, Company Secretary and Compliance Officer

**PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. TUSHAR LALIT KUMAR SANGHAVI, MS. URMI RAJ MEHTA, M/S. TUSHAR LALITKUMAR SANGHAVI HUF AND M/S. LALITBHAI H SANGHVI HUF**

"The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the equity shares are proposed to be listed on Emerge Platform of NSE (NSE EMERGE)."

### BASIS OF ALLOTMENT

**INITIAL PUBLIC OFFERING OF 34,82,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED ("SPL" OR "OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹52/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹42/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 1,810.64 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH 1,78,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 92.56 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 33,04,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 52/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 1,718.08 LAKHS ("NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 30.00% AND 28.47% RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 250 OF THE PROSPECTUS.**

**THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS 5.2 TIMES OF THE FACE VALUE**

**ISSUE** **ISSUE OPENED ON: TUESDAY, MAY 07, 2024**  
**ISSUE CLOSED ON: FRIDAY, MAY 10, 2024**

### RISK TO INVESTORS:

- Our Equity Shares have never been publicly traded, and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may be volatile and you may be unable to resell your Equity Shares at or above the Issue Price or at all.
- The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is set forth in the table below:

Sr. No.	Name of the Promoters	No of Equity Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Mr. Tushar Lalit Kumar Sanghavi	66,65,450	6.81
2.	Ms. Urmi Raj Mehta	48,750	10.77
3.	M/s Tushar Lalitkumar Sanghavi HUF	9,10,000	6.18
4.	M/s Lalitbhai H. Sanghvi HUF	4,87,500	3.08

Investors are required to refer section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Prospectus.

Our Company has filed the Prospectus dated May 01, 2024 with the ROC, Kolkata (the "Prospectus"). The Equity Shares of the Company are proposed to be listed on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited i.e., NSE Emerge, in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval from NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated April 30, 2024. NSE is the Designated Stock Exchange for the purpose of this Issue. The trading is to be commenced on May 15, 2024 (Subject to receipt of listing and trading approvals from the NSE).

The Issue is being made through the Fixed Price process, the allocation in the Net Issue to the Public category is made pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, wherein a minimum of 50% of the Net Issue of shares to the Public is initially made available for allotment to Retail Individual Investors. The balance of Net Issue of Shares to the public is made available for allotment to Individual Applicants other than Retail Individual Investors and other Investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. If the Retail Individual Investor category is entitled to more than 50% on proportionate basis, they shall be allotted that higher percentage. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and the Designation Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All potential investors shall participate in the Issue only through an Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process including through UPI mode (as applicable) by providing details of the irrelative bank accounts and / or UPI IDs, in case of RILs, if applicable, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") for the same.

### SUBSCRIPTION DETAILS

The Net Issue has received 34,418 applications before technical rejections for 12,27,48,000 Equity Shares resulting in 37.15 times subscription. The details of the applications received in the Net Issue (before and after technical rejections & withdrawal) are as follows:

Category	Gross		Less: Rejections*		Valid	
	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares
Non-Retail Investors	3,390	6,06,92,000	36	1,88,000	3,354	6,05,04,000
Retail Individual Investors	31,028	6,20,56,000	830	16,60,000	30,198	6,03,96,000
<b>TOTAL</b>	<b>34,418</b>	<b>12,27,48,000</b>	<b>866</b>	<b>18,48,000</b>	<b>33,552</b>	<b>12,09,00,000</b>

\*This includes 312 applications for 6,24,000 equity shares from Retail investors which were not in book but excludes bids (UPI mandates) not accepted by investors.

### Note:

- The Net Issue does not include 1,78,000 Equity Shares reserved for Market Maker, which was subscribed by 1.00 time.
- There were 866 Technical Rejections for 18,48,000 Equity Shares. The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange - NSE on May 13, 2024.

**A) Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawals):** The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Issue Price of ₹ 52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 1,78,000 Equity Shares. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to Total
1,78,000	1	100.00	1,78,000	100.00	1,78,000	1:1	1,78,000	100.00

**B) Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawals):** The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.56 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant		Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to Total	
					Before Rounding off	After Rounding off				
2000	30,198	100.00	6,03,96,000	100.00	54.71	2000	25	914	16,52,000	100.00

**C) Allocation to Other than Retail Category (After Technical Rejections & Withdrawals):** The Basis of Allotment to the Non-Retail Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.62 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of shares allocated/allotted	
						Before Rounding off	After Rounding off			
4,000	2,253	67.17	90,12,000	14.89	2,46,063	109.22	2,000	41	751	2,46,000
6,000	213	6.35	12,78,000	2.11	34,894	163.82	2,000	17	213	34,000
8,000	139	4.14	11,12,000	1.84	30,362	218.43	2,000	15	139	30,000
10,000	111	3.31	11,10,000	1.83	30,307	273.04	2,000	5	37	30,000
12,000	50	1.49	6,00,000	0.99	16,382	327.64	2,000	4	25	16,000
14,000	26	0.78	3,64,000	0.60	9,939	382.27	2,000	5	26	10,000
16,000	36	1.07	5,76,000	0.95	15,727	436.86	2,000	2	9	16,000
20,000	179	5.34	35,80,000	5.92	97,748	546.08	2,000	49	179	98,000
22,000	22	0.66	4,84,000	0.80	13,215	600.68	2,000	7	22	14,000
30,000	17	0.51	5,10,000	0.84	13,925	819.12	2,000	7	17	14,000
38,000	7	0.21	2,66,000	0.44	7,263	1,037.57	2,000	4	7	8,000
40,000	16	0.48	6,40,000	1.06	17,475	1,092.19	2,000	9	16	18,000
50,000	10	0.30	5,00,000	0.83	13,652	1,365.2	2,000	7	10	14,000
52,000	4	0.12	2,08,000	0.34	5,679	1,419.75	2,000	3	4	6,000
58,000	6	0.18	3,48,000	0.58	9,502	1,583.67	2,000	5	6	10,000

The Board of Directors of the Company at its meeting held on May 13, 2024, has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares, as approved by the Designated Stock Exchange viz. NSE and has authorized the corporate action for the allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

The CAN and allotment advice and / or notices shall be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories on or before May 14, 2024. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking of funds will process on or prior to May 14, 2024. The Equity Shares allotted to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. In case the same is not received within prescribed time, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the Emerge Platform of NSE within 3 working days from the Closure of the Issue. **The trading is proposed to be commenced on May 15, 2024 subject to receipt of listing and trading approvals from NSE.**

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated May 01, 2024 ("Prospectus").

### INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, Bigshare Services Private Limited at www.bigshareonline.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole Applicant, Serial number of the Application Form, Number of Shares Applied for and Bank Branch where the Application had been lodged and payment details at the address given below:

**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED**  
Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai - 400 093, Maharashtra, India | Telephone: 022 - 6263 8200 | E-mail: ipo@bigshareonline.com  
Investor Grievance E-mail: investor@bigshareonline.com | Website: www.bigshareonline.com  
Contact Person: Mr. Vinayak Morbale | SEBI Registration Number: INR000001385

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated May 01, 2024.

For Silkflex Polymers (India) Limited  
On Behalf of the Board of Directors  
Sd/-

Mr. Tushar Lalit Kumar Sanghavi  
Designation: Chairman & Managing Director  
Date: May 13, 2024  
DIN





**KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED**  
(Formerly Known as KURLON LIMITED)  
(CIN : U17214KA1962PLC001443)  
Regd. Office : # N-301, 3rd Floor, North Block, Manipal Centre,  
47 Dickenson Road, Bangalore - 560 042.  
Phone : 080 - 4031 3131, E-mail : secretary@manipal.com

### NOTICE OF RECORD DATE - BUYBACK OF SHARES

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 91 of The Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, the Board of Directors of the Company at its meeting held on Friday, 3rd May 2024, noted that the shareholders have approved the buyback of shares of the Company via postal ballot the equity shares of face value of Rs. 10 each fully paid, being offered at a price of Rs. 1,300 per share.

The Company has further fixed the record date as Tuesday, 21st May 2024 to determine the shareholders eligible to receive the Letter of Offer and the Tender Form for the buyback of shares.

For KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED  
(Formerly Known as Kurlon Limited)

Date : 14-05-2024  
Place : Bangalore  
Sd/- Susheela Y. Bungale  
Company Secretary

### PRIOR PUBLIC NOTICE

#### CHANGE IN NBFC CONTROL AND MANAGEMENT

Public Notice is hereby issued under Direction 42.3 of Master Direction - Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023 ("RBI NBFC Directions") for intention to sell and transfer ownership / control of Pyxis Finvest Limited (Company), a Non-Banking Finance Company (NBFC) registered with the Reserve Bank of India (RBI) under registration number N.13.01840 dated 30-August-2006 and bearing CIN L65990MH2005PLC157586.

#### Particulars of Transferee:

Mr. Uttam Bharat Bagri, an Indian Resident individual bearing Income Tax Permanent Account Number AAEPB6014D residing in Mumbai.

#### Reasons for such sale or transfer of ownership/control:

The existing promoters of the Company being JBCG Advisory Services Private Limited (Transferor) bearing CIN U74110MH2016PTC287730 have executed Share Purchase Agreement dated 19-December-2023 with the Transferee to sell their entire holding of 65,72,000 equity shares (representing 57.13%) of the Company as a strategic business decision. Following this transaction, there will be change in Management (Board of Directors) of the company.

In compliance with RBI/NBFC Directions, prior approval has been obtained from the RBI as evidenced by their letter reference DoS.CO.RSG.No. S1030/02.13.001/2024-25 dated 10-May-2024. The proposed transfer of ownership (by sale of shares) and control will take place after thirty days have elapsed following the publication of this public notice.

This notice is being issued jointly by Transferee, Transferor and the Company. For any further clarifications/ information/ objections, kindly contact the company at email pyxisinvest@gmail.com or by post at registered office address at Level 9 (Unit 801), Centrum House, CST Road, Vidya Nagar Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400098.

Transferee	For JBCG Advisory Services Private Limited - Transferor	For Pyxis Finvest Limited - Company
Sd/-	Sd/-	Sd/-
Uttam Bharat Bagri	Kapil Bagla	Shalendra Apte
PAN AAEPB6014D	DIN 00387814	DIN 00017814
Place: Mumbai		
Date: 13-May-2024		



## ALAN SCOTT ENTERPRISES LIMITED

(formerly known as Alan Scott Industries Limited)

Corporate Identification Number: L33100MH1994PLC076732

Registered Office: Unit no. 302, Kumar Plaza, 3rd Floor, Near Kalina Masjid, Kalina Kurla Road, Santacruz (East), Mumbai - 400029, Maharashtra, India. | Tel: +91 61786000/01, 9867644930

E-mail: alanscottcompliance@gmail.com | Website: thealanscott.com | Contact person: Mr. Shankar Madva

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined here shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated June 16, 2023 filed with BSE Limited ("BSE").

### FINAL DEMAND-CUM-FORFEITURE NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES

In terms of the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made thereunder, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer dated June 16, 2023 ("Letter of Offer"), a Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been sent in electronic mode to the holders of partly paid-up equity shares who have not paid the call money or part thereof, pursuant to the First and/or Second & Final Call Money Notice dated November 27, 2023 and February 26, 2024, and physical copy of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice along with the detailed instructions and payment slip, has been sent through permitted modes of dispatch at the registered address of all those holders of partly paid-up equity shares, who have not paid the First and Second & Final call money (or a part thereof). The Company has completed the dispatch on May 10, 2024.

The Board of Director ("Board"), duly authorized by the Board, has on Thursday, May 9, 2024, approved sending of a Final Demand-cum-Forfeiture Notice for payment of First and Second & Final call amount of ₹ 10.00 (including share premium of ₹ 6.5) towards the First Call and ₹ 10.00 (including share premium of ₹ 7.00) as First and Second & Final Call money ("Final Demand cum-Forfeiture Notice"), to the holders of such partly paid-up equity shares on which the First and/or Second & Final Call Money remains unpaid.

Accordingly, the Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been served providing the details given below:

Payment Period	From		To	Duration
	Tuesday, May 14, 2024			
Mode of Payment	Cheque or Demand Draft payable to:			
	Alan Scott Call Money - Escrow Collection - R A/c (For resident Shareholders) Alan Scott Call Money - Escrow Collection - NR A/c (for Non-resident Shareholders)			

Shareholder pay through cheque/demand draft, the payment slip (stating Full Name of the Sole/First shareholder, DP ID-Client ID/ Folio No; and No. of partly paid-up equity shares) along with the amount payable by cheque or demand draft must be presented.

Please note that, failure to pay the First and Second & Final Call Money pursuant to the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, as aforesaid, shall render the partly paid-up equity shares (to the extent that the First and Second & Final Call Money was not paid), including the application amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the Act, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.

Shareholders may also note that:

- The ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares of face value ₹10 each (₹3.50 paid-up and ₹7.00 paid up) has been suspended by the Stock Exchanges. Further the ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares has been suspended by National Securities Depository Ltd ("NSDL") and Central Depository Services (India) Ltd. ("CDSL").
- The process of corporate action for converting the partly paid-up equity shares to the fully paid-up ordinary shares under the present ISIN INE273F01022 for the existing fully paid-up ordinary shares, allotted by the depositories, is estimated to be completed, on a best effort basis, within two to three weeks from the last date of payment of the First and/or Second & Final Call Money stipulated under this Final Demand-cum-Forfeiture Notice. Upon completion of the corporate action, the partly paid-up equity shares shall be converted into fully paid-up equity shares and would be credited to ISIN INE273F01022, allotted by NSDL/CDSL.
- In case of non-receipt of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the duplicate Final Demand-cum-Forfeiture Notice to the Registrar, or may also download the same from the Company's website: www.thealanscott.com or the Registrar's website: www.purvashare.com. In such a case, however, the shareholder has to fill the DP ID-Client ID/folio Number, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the First and Second & Final Call Money.
- The shareholder must mention in the Application, his/her PAN number allotted under the Income Tax Act, 1961.

All correspondence in respect of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice may be addressed to: Purva Shareistry (India) Private Limited (Unit: Alan Scott Enterprises Limited) at the address Office 9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel East, Mumbai - 400011, Maharashtra, India, Telephone No - 022 49614132 | 022 49700138 | 022 35220056; E-mail: newissue@purvashare.com; Website: www.purvashare.com; Contact Person: Ms. Deepali Dhuri; SEBI Registration Number: INR000001112.

For Alan Scott Enterprises Ltd.  
Sd/-  
Saloni Suresh Jain  
Director

Date: May 13, 2024  
Place: Mumbai

## Chalet Hotels Limited

CIN: L55101MH1986PLC038538,

Registered office: Raheja Tower, Plot No. C-30, Block 'G' Next to Bank of Baroda, Bandra Kurla Complex, Bandra, Mumbai 400 051

Email ID: investorrelations@chalet-hotels.com, website: www.chalet-hotels.com

### EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2024

(Rs. in million)

Particulars	CONSOLIDATED					
	Quarter Ended			Year Ended		
	31 March 2024 (Audited)	31 December 2023 (Unaudited)	31 March 2023 (Audited)	31 March 2024 (Audited)	31 March 2023 (Audited)	31 March 2023 (Audited)
Total Income	4,244.07	3,798.87	3,457.83	14,370.38	11,779.54	
EBITDA before exceptional items	1,890.08	1,722.15	1,602.71	6,043.78	5,023.04	
Profit before income tax	990.26	886.52	714.59	2,693.53	2,728.29	
Profit for the period / year	824.40	706.42	366.31	2,781.81	1,832.90	
Total Comprehensive Income for the period / year	819.98	705.09	361.45	2,773.42	1,828.26	
Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 per share)	2,054.74	2,053.95	2,050.25	2,054.74	2,050.25	
Other Equity	-	-	-	16,458.68	13,369.14	
Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each)						
Basic (*not annualised) (in Rs.)	*4.01	*3.44	*1.79	13.54	8.94	
Diluted (*not annualised) (in Rs.)	*4.01	*3.44	*1.79	13.53	8.94	

#### 1) Key numbers of Standalone Financial Results

Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
	31 March 2024 (Audited)	31 December 2023 (Unaudited)	31 March 2023 (Audited)	31 March 2024 (Audited)	31 March 2023 (Audited)
	Total Income	4,210.50	3,783.89	3,469.51	14,186.63
Profit before income tax	990.23	910.59	749.64	2,684.81	2,772.53
Profit for the period / year	818.36	731.87	401.52	2,782.82	1,877.65

#### Notes:

- The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2024 are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website at www.chalet-hotels.com.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 13 May 2024.
- The above results are in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 as prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013, read with the relevant Rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.

For Chalet Hotels Limited  
(CIN - L55101MH1986PLC038538)

Sd/-  
Sanjay Sethi  
Managing Director & CEO  
(DIN. 00641243)

Place : Mumbai  
Date : 13 May 2024  
financial.expapp.in

(This Is Only An Advertisement For Information Purposes And Not A Prospectus Announcement. Not For Distribution Outside India.)

# SILKFLEX

## SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED

Corporate Identification Number: U51909WB2016PLC215739

Our Company was originally incorporated on May 13, 2016 as "Silkflex Polymers (India) Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, the status of the Company was changed to public limited Company and the name of our Company was changed from "Silkflex Polymers (India) Private Limited" to "Silkflex Polymers (India) Limited" vide fresh certificate of incorporation dated December 21, 2023 by the Registrar of Companies, Kolkata. The Corporate Identification Number of our Company is U51909WB2016PLC215739. For further details on incorporation and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 155 of the Prospectus.

Registered Office: Daga Complex, Sulati Jaladhulagori, Sankrail, Howrah - 711 302, West Bengal, India

Tel: +91 9674912615 | E-mail: investors@silklflexindia.in | Website: www.silklflexindia.in

Contact Person: Mr. Sourabh Sharma, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. TUSHAR LALIT KUMAR SANGHAVI, MS. URMI RAJ MEHTA, M/S. TUSHAR LALITKUMAR SANGHAVI HUF AND M/S. LALITBHAI H SANGHVI HUF

"The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the equity shares are proposed to be listed on Emerge Platform of NSE (NSE EMERGE)."

### BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFERING OF 34,82,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED ("SPIL" OR "OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹52/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹42/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 1,810.64 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH 1,78,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 92.56 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 33,04,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 52/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 1,718.08 LAKHS ("NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 30.00% AND 28.47% RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 250 OF THE PROSPECTUS.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS 5.2 TIMES OF THE FACE VALUE

### ISSUE

ISSUE OPENED ON: TUESDAY, MAY 07, 2024  
ISSUE CLOSED ON: FRIDAY, MAY 10, 2024

#### RISK TO INVESTORS:

- Our Equity Shares have never been publicly traded, and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may be volatile and you may be unable to resell your Equity Shares at or above the Issue Price or at all.

- The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is set forth in the table below:

Sr. No.	Name of the Promoters	No of Equity Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Mr. Tushar Lalit Kumar Sanghavi	66,65,450	6.81
2.	Ms. Urmi Raj Mehta	48,750	10.77
3.	M/s Tushar Lalitkumar Sanghavi HUF	9,10,000	6.18
4.	M/s Lalitbhai H. Sanghvi HUF	4,87,500	3.08

Investors are required to refer section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Prospectus.

Our Company has filed the Prospectus dated May 01, 2024 with the ROC, Kolkata (the "Prospectus"). The Equity Shares of the Company are proposed to be listed on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited i.e., NSE Emerge, in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval from NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated April 30, 2024. NSE is the Designated Stock Exchange for the purpose of this Issue. The trading is to be commenced on May 15, 2024 (Subject to receipt of listing and trading approvals from the NSE).

The Issue is being made through the Fixed Price process, the allocation in the Net Issue to the Public category is made pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, wherein a minimum of 50% of the Net Issue of shares to the Public is initially made available for allotment to Retail Individual Investors. The balance of Net Issue of Shares to the public is made available for allotment to Individual Applicants other than Retail Individual Investors and other investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. If the Retail Individual Investor category is entitled to more than 50% on proportionate basis, they shall be allotted that higher percentage. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and the Designation Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All potential investors shall participate in the Issue only through an Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process including through UPI mode (as applicable) by providing details of the irrevocable bank accounts and / or UPI IDs, in case of RILs, if applicable, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") for the same.

#### SUBSCRIPTION DETAILS

The Net Issue has received 34,418 applications before technical rejections for 12,27,48,000 Equity Shares resulting in 37.15 times subscription. The details of the applications received in the Net Issue (before and after technical rejections & withdrawal) are as follows:

#### Detail of the Applications Received

Category	Gross		Less: Rejections*		Valid	
	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares
Non-Retail Investors	3,390	6,06,92,000	36	1,88,000	3,354	6,05,04,000
Retail Individual Investors	31,028	6,20,56,000	830	16,60,000	30,198	6,03,96,000
<b>TOTAL</b>	<b>34,418</b>	<b>12,27,48,000</b>	<b>866</b>	<b>18,48,000</b>	<b>33,552</b>	<b>12,09,00,000</b>

\*This includes 312 applications for 6,24,000 equity shares from Retail investors which were not in book but excludes bids (UPI mandates) not accepted by investors.

#### Note:

- The Net Issue does not include 1,78,000 Equity Shares reserved for Market Maker, which was subscribed by 1.00 time.
- There were 866 Technical Rejections for 18,48,000 Equity Shares. The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange - NSE on May 13, 2024.

A) Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Issue Price of ₹ 52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 1,78,000 Equity Shares. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to Total
1,78,000	1	100.00	1,78,000	100.00	1,78,000	1:1	1,78,000	100.00

B) Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.56 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant		Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to Total	
					Before Rounding off	After Rounding off				
2000	30,198	100.00	6,03,96,000	100.00	54.71	2000	25	914	16,52,000	100.00

C) Allocation to Other than Retail Category (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Non-Retail Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.62 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of shares allocated/allotted	
						Before Rounding off	After Rounding off			
4,000	2,253	67.17	90,12,000	14.89	2,46,063	109.22	2,000	41	751	2,46,000
6,000	213	6.35	12,78,000	2.11	34,894	163.82	2,000	17	213	34,000
8,000	139	4.14	11,12,000	1.84	30,362	218.43	2,000	15	139	30,000
10,000	111	3.31	11,10,000	1.83	30,307	273.04	2,000	5	37	30,000
12,000	50	1.49	6,00,000	0.99	16,382	327.64	2,000	4	25	16,000
14,000	26	0.78	3,64,000	0.60	9,939	382.27	2,000	5	26	10,000
16,000	36	1.07	5,76,000	0.95	15,727	436.86	2,000	2	9	16,000
20,000	179	5.34	35,80,000	5.92	97,748	546.08	2,000	49	179	98,000
22,000	22	0.66	4,84,000	0.80	13,215	600.68	2,000	7	22	14,000
30,000	17	0.51</								













## KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED

(Formerly Known as KURLON LIMITED)

(CIN : U17214KA1962PLC001443)

Regd. Office : # N-301, 3rd Floor, North Block, Manipal Centre,  
47 Dickenson Road, Bangalore - 560 042.  
Phone : 080 - 4031 3131, E-mail : secretary@manipal.com

### NOTICE OF RECORD DATE - BUYBACK OF SHARES

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 91 of The Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, the Board of Directors of the Company at its meeting held on Friday, 3rd May 2024, noted that the shareholders have approved the buyback of shares of the Company via postal ballot the equity shares of face value of Rs. 10 each fully paid, being offered at a price of Rs. 1,300 per share.

The Company has further fixed the record date as Tuesday, 21st May 2024 to determine the shareholders eligible to receive the Letter of Offer and the Tender Form for the buyback of shares.

For KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED  
(Formerly Known as Kurlon Limited)

Date : 14-05-2024  
Place : Bangalore

Sd/- Susheela Y. Bungle  
Company Secretary

### PRIOR PUBLIC NOTICE

#### CHANGE IN NBFC CONTROL AND MANAGEMENT

Public Notice is hereby issued under Direction 42.3 of Master Direction - Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023 ("RBI NBFC Directions") for intention to sell and transfer ownership / control of Pyxis Finvest Limited (Company), a Non-Banking Finance Company (NBFC) registered with the Reserve Bank of India (RBI) under registration number N.13.01840 dated 30-August-2006 and bearing CIN L65990MH2005PLC157586.

#### Particulars of Transferee:

Mr. Uttam Bharat Bagri, an Indian Resident individual bearing Income Tax Permanent Account Number AAEP6014D residing in Mumbai.

#### Reasons for such sale or transfer of ownership/control:

The existing promoters of the Company being JBCG Advisory Services Private Limited (Transferor) bearing CIN U74110MH2016PTC287730 have executed Share Purchase Agreement dated 19-December-2023 with the Transferee to sell their entire holding of 65,72,000 equity shares (representing 57.13%) of the Company as a strategic business decision. Following this transaction, there will be change in Management (Board of Directors) of the company.

In compliance with RBI NBFC Directions, prior approval has been obtained from the RBI as evidenced by their letter reference DoS.CO.RSG.No.S1030/02.13.001/2024-25 dated 10-May-2024. The proposed transfer of ownership (by sale of shares) and control will take place after thirty days have elapsed following the publication of this public notice.

This notice is being issued jointly by Transferee, Transferor and the Company. For any further clarifications/ information/ objections, kindly contact the company at email pyxisinvest@gmail.com or by post at registered office address at Level 9 (Unit 801), Centrum House, CST Road, Vidya Nagar Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400098.

Transferee	For JBCG Advisory Services Private Limited - Transferor	For Pyxis Finvest Limited - Company
Sd/-	Sd/-	Sd/-
Uttam Bharat Bagri	Kapil Bagla	Shailendra Apte
PAN AAEP6014D	DIN 00387814	SHIN 00017814
Place: Mumbai		
Date: 13-May-2024		

(This Is Only An Advertisement For Information Purposes And Not A Prospectus Announcement. Not For Distribution Outside India.)

# SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED

Corporate Identification Number: U51909WB2016PLC215739

Our Company was originally incorporated on May 13, 2016 as "Silkflex Polymers (India) Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, the status of the Company was changed to public limited Company and the name of our Company was changed from "Silkflex Polymers (India) Private Limited" to "Silkflex Polymers (India) Limited" vide fresh certificate of incorporation dated December 21, 2023 by the Registrar of Companies, Kolkata. The Corporate Identification Number of our Company is U51909WB2016PLC215739. For further details on incorporation and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 155 of the Prospectus.

Registered Office: Daga Complex, Sulati Jaladhulagori, Sankrail, Howrah - 711 302, West Bengal, India

Tel: +91 9674912615 | E-mail: investors@silkflexindia.in | Website: www.silkflexindia.in

Contact Person: Mr. Sourabh Sharma, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. TUSHAR LALIT KUMAR SANGHAVI, MS. URMI RAJ MEHTA, M/S. TUSHAR LALITKUMAR SANGHAVI HUF AND M/S. LALITBHAI H. SANGHVI HUF

"The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the equity shares are proposed to be listed on Emerge Platform of NSE (NSE EMERGE)."

### BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFERING OF 34,82,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED ("SPL" OR "OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹52/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹42/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 1,810.64 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH 1,78,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 92.56 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 33,04,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 52/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 1,718.08 LAKHS ("NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 30.00% AND 28.47% RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 250 OF THE PROSPECTUS.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS 5.2 TIMES OF THE FACE VALUE

## ISSUE

ISSUE OPENED ON: TUESDAY, MAY 07, 2024  
ISSUE CLOSED ON: FRIDAY, MAY 10, 2024

### RISK TO INVESTORS:

1. Our Equity Shares have never been publicly traded, and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may be volatile and you may be unable to resell your Equity Shares at or above the Issue Price or at all.

2. The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is set forth in the table below:

Sr. No.	Name of the Promoters	No of Equity Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Mr. Tushar Lalit Kumar Sanghavi	66,65,450	6.81
2.	Ms. Urmi Raj Mehta	48,750	10.77
3.	M/s Tushar Lalitkumar Sanghavi HUF	9,10,000	6.18
4.	M/s Lalitbhai H. Sanghvi HUF	4,87,500	3.08

Investors are required to refer section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Prospectus.

Our Company has filed the Prospectus dated May 01, 2024 with the ROC, Kolkata (the "Prospectus"). The Equity Shares of the Company are proposed to be listed on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited i.e., NSE Emerge, in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval from NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated April 30, 2024. NSE is the Designated Stock Exchange for the purpose of this Issue. The trading is to be commenced on May 15, 2024 (Subject to receipt of listing and trading approvals from the NSE).

The Issue is being made through the Fixed Price process, the allocation in the Net Issue to the Public category is made pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, wherein a minimum of 50% of the Net Issue of shares to the Public is initially made available for allotment to Retail Individual Investors. The balance of Net Issue of Shares to the public is made available for allotment to Individual Applicants other than Retail Individual Investors and other Investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. If the Retail Individual Investor category is entitled to more than 50% on proportionate basis, they shall be allotted that higher percentage. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and the Designation Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All potential investors shall participate in the Issue only through an Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process including through UPI mode (as applicable) by providing details of the irrelative bank accounts and / or UPI IDs, in case of RILs, if applicable, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") for the same.

### SUBSCRIPTION DETAILS

The Net Issue has received 34,418 applications before technical rejections for 12,27,48,000 Equity Shares resulting in 37.15 times subscription. The details of the applications received in the Net Issue (before and after technical rejections & withdrawal) are as follows:

#### Detail of the Applications Received

Category	Gross		Less: Rejections*		Valid	
	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares
Non-Retail Investors	3,390	6,06,92,000	36	1,88,000	3,354	6,05,04,000
Retail Individual Investors	31,028	6,20,56,000	830	16,60,000	30,198	6,03,96,000
<b>TOTAL</b>	<b>34,418</b>	<b>12,27,48,000</b>	<b>866</b>	<b>18,48,000</b>	<b>33,552</b>	<b>12,09,00,000</b>

\*This includes 312 applications for 6,24,000 equity shares from Retail investors which were not in book but excludes bids (UPI mandates) not accepted by investors.

#### Note:

1. The Net Issue does not include 1,78,000 Equity Shares reserved for Market Maker, which was subscribed by 1.00 time.

2. There were 866 Technical Rejections for 18,48,000 Equity Shares. The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange - NSE on May 13, 2024.

A) Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Issue Price of ₹ 52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 1,78,000 Equity Shares. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to Total
1,78,000	1	100.00	1,78,000	100.00	1,78,000	1:1	1,78,000	100.00

B) Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.56 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant		Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to Total	
					Before Rounding off	After Rounding off				
2000	30,198	100.00	6,03,96,000	100.00	54.71	2000	25	914	16,52,000	100.00

C) Allocation to Other than Retail Category (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Non-Retail Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.62 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of shares allocated/allotted	
						Before Rounding off	After Rounding off			
4,000	2,253	67.17	90,12,000	14.89	2,46,063	109.22	2,000	41	751	2,46,000
6,000	213	6.35	12,78,000	2.11	34,894	163.82	2,000	17	213	34,000
8,000	139	4.14	11,12,000	1.84	30,362	218.43	2,000	15	139	30,000
10,000	111	3.31	11,10,000	1.83	30,307	273.04	2,000	5	37	30,000
12,000	50	1.49	6,00,000	0.99	16,382	327.64	2,000	4	25	16,000
14,000	26	0.78	3,64,000	0.60	9,939	382.27	2,000	5	26	10,000
16,000	36	1.07	5,76,000	0.95	15,727	436.86	2,000	2	9	16,000
20,000	179	5.34	35,80,000	5.92	97,748	546.08	2,000	49	179	98,000
22,000	22	0.66	4,84,000	0.80	13,215	600.68	2,000	7	22	14,000
30,000	17	0.51	5,10,000	0.84	13,925	819.12	2,000	7	17	14,000
38,000	7	0.21	2,66,000	0.44	7,263	1,037.57	2,000	4	7	8,000
40,000	16	0.48	6,40,000	1.06	17,475	1,092.19	2,000	9	16	18,000
50,000	10	0.30	5,00,000	0.83	13,652	1,365.2	2,000	7	10	14,000
52,000	4	0.12	2,08,000	0.34	5,679	1,419.75	2,000	3	4	6,000
58,000	6	0.18	3,48,000	0.58	9,502	1,583.67	2,000	5	6	10,000

The Board of Directors of the Company at its meeting held on May 13, 2024, has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares, as approved by the Designated Stock Exchange viz. NSE and has authorized the corporate action for the allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

The CAN and allotment advice and / or notices shall be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories on or before May 14, 2024. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking of funds will process on or prior to May 14, 2024. The Equity Shares allotted to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. In case the same is not received within prescribed time, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the Emerge Platform of NSE within 3 working days from the Closure of the Issue. The trading is proposed to be commenced on May 15, 2024 subject to receipt of listing and trading approvals from NSE.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated May 01, 2024 ("Prospectus").

### INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, Bigshare Services Private Limited at www.bigshareonline.com.

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole Applicant, Serial number of the Application Form, Number of Shares Applied for and Bank Branch where the Application had been lodged and payment details at the address given below:

#### BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED

Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai - 400 093, Maharashtra, India | Telephone: 022 - 6263 8200 | E-mail: ipo@bigshareonline.com

Investor Grievance E-mail: investor@bigshareonline.com | Website: www.bigshareonline.com

Contact Person: Mr. Vinayak Morbale | SEBI Registration Number: INR000001385

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated May 01, 2024.

For Silkflex Polymers (India) Limited

On Behalf of the Board of Directors

Sd/-

Mr. Tushar Lalit Kumar Sanghavi

Designation: Chairman & Managing Director

DIN: 07476030

Place: Howrah

Date: May 13, 2024

LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED

Silkflex Polymers (India) Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a Public Issue of its Equity Shares and has filed Prospectus with the Registrar of Companies, Kolkata on May 01, 2024. The Prospectus is available on websites of the Company, the NSE and the Lead Manager at www.silkflexindia.in, www.nseindia.com, www.shreni.in respectively. Applicants should note that investment in equity shares involves a high-risk and for details relating to the same, see the Prospectus, including section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities law. Accordingly, the Equity Shares are offered (i) within the United States to persons reasonably believed to be qualified institutional investors (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act and (ii) Outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and applicable laws of the jurisdiction where such offers and sales occur.

## ALAN SCOTT ENTERPRISES LIMITED

(formerly known as Alan Scott Industries Limited)

Corporate Identification Number: L33100MH1994PLC076732

Registered Office: Unit no. 302, Kumar Plaza, 3rd Floor, Near Kalina Masjid, Kalina Kuria Road, Santacruz (East), Mumbai - 400029, Maharashtra, India. | Tel: +91 61786000/01, 9867644930

E-mail: alanscottcompliance@gmail.com | Website: thealanscott.com | Contact person: Mr. Shankar Madva

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined here shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated June 16, 2023 filed with BSE Limited ("BSE").

### FINAL DEMAND-CUM-FORFEITURE NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES

In terms of the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made thereunder, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer dated June 16, 2023 ("Letter of Offer"), a Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been sent in electronic mode to the holders of partly paid-up equity shares who have not paid the call money or part thereof, pursuant to the First and/or Second & Final Call Money Notice dated November 27, 2023 and February 26, 2024, and physical copy of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice along with the detailed instructions and payment slip, has been sent through permitted modes of dispatch at the registered address of all those holders of partly paid-up equity shares, who have not paid the First and Second & Final call money (or a part thereof). The Company has completed the dispatch on May 10, 2024.

The Board of Director ("Board"), duly authorized by the Board, has on Thursday, May 9, 2024, approved sending of a Final Demand-cum-Forfeiture Notice for payment of First and Second & Final call amount of ₹ 10.00 (including share premium of ₹ 6.5) towards the First Call and ₹10.00 (including share premium of ₹ 7.00) as First and Second & Final Call money ("Final Demand-cum-Forfeiture Notice"), to the holders of such partly paid-up equity shares on which the First and/or Second & Final Call Money remains unpaid.

Accordingly, the Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been served providing the details given below:

Payment Period	From	To	Duration
	Tuesday, May 14, 2024	Tuesday, May 28, 2024	
Mode of Payment	Cheque or Demand Draft payable to:		
	Alan Scott Call Money - Escrow Collection - R/A/c (For resident Shareholders) Alan Scott Call Money - Escrow Collection - NR/A/c (for Non-resident Shareholders)		

Shareholder pay through cheque/demand draft, the payment slip (stating Full Name of the Sole/First shareholder, DP ID-Client ID/ Folio No; and No. of partly paid-up equity shares) along with the amount payable by cheque or demand draft must be presented.

Please note that, failure to pay the First and Second & Final Call Money pursuant to the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, as aforesaid, shall render the partly paid-up equity shares (to the extent that the First and Second & Final Call Money was not paid), including the application amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the Act, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.

Shareholders may also note that:

- The ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares of face value ₹10 each (₹3.50 paid-up and ₹7.00 paid up) has been suspended by the Stock Exchanges. Further the ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares has been suspended by National Securities Depository Ltd ("NSDL") and Central Depository Services (India) Ltd. ("CDSL").
- The process of corporate action for converting the partly paid-up equity shares to the fully paid-up ordinary shares under the present ISIN INE273F01022 for the existing fully paid-up ordinary shares, allotted by the depositories, is estimated to be completed, on a best effort basis, within two to three weeks from the last date of payment of the First and/or Second & Final Call Money stipulated under this Final Demand-cum-Forfeiture Notice. Upon completion of the corporate action, the partly paid-up equity shares shall be converted into fully paid-up equity shares and would be credited to ISIN INE273F01022, allotted by NSDL/CDSL.
- In case of non-receipt of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the duplicate Final Demand-cum-Forfeiture Notice to the Registrar, or may also download the same from the Company's website: www.thealanscott.com or the Registrar's website: www.purvashare.com. In such a case, however, the shareholder has to fill the DP ID-Client ID/Folio Number, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the First and Second & Final Call Money.
- The shareholder must mention in the Application, his/her PAN number allotted under the Income Tax Act, 1961.

All correspondence in respect of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice may be addressed to: Purva Shareistry (India) Private Limited (Unit: Alan Scott Enterprises Limited) at the address Office 9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel East, Mumbai - 400011, Maharashtra, India, Telephone No - 022 49614132 | 022 49700138 | 022 35220056; E-mail: newissue@purvashare.com; Website: www.purvashare.com; Contact Person: Ms. Deepali Dhuri; SEBI Registration Number: INR000001112.

For Alan Scott Enterprises Ltd.

Sd/-  
Saloni Suresh Jain  
Director

Date: May 13, 2024





**KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED**  
(Formerly Known as KURLON LIMITED)  
(CIN : U17214KA1962PLC001443)  
Regd. Office : # N-301, 3rd Floor, North Block, Manipal Centre,  
47 Dickenson Road, Bangalore - 560 042.  
Phone : 080 - 4031 3131, E-mail : secretary@manipal.com

**NOTICE OF RECORD DATE - BUYBACK OF SHARES**

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, the Board of Directors of the Company at its meeting held on Friday, 3rd May 2024, noted that the shareholders have approved the buyback of shares of the Company via postal ballot the equity shares of face value of Rs. 10 each fully paid, being offered at a price of Rs. 1,300 per share.

The Company has further fixed the record date as Tuesday, 21st May 2024 to determine the shareholders eligible to receive the Letter of Offer and the Tender Form for the buyback of shares.

For KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED  
(Formerly Known as Kurlon Limited)

Date : 14-05-2024  
Place : Bangalore  
Sd/- Susheela Y. Bungale  
Company Secretary

**PRIOR PUBLIC NOTICE  
CHANGE IN NBFC CONTROL AND MANAGEMENT**

Public Notice is hereby issued under Direction 42.3 of Master Direction – Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company – Scale Based Regulation) Directions, 2023 (“RBI NBFC Directions”) for intention to sell and transfer ownership / control of Pyxis Finvest Limited (Company), a Non-Banking Finance Company (NBFC) registered with the Reserve Bank of India (RBI) under registration number N.13.01840 dated 30-August-2006 and bearing CIN L65990MH2005PLC157586.

**Particulars of Transferee:**

Mr. Uttam Bharat Bagri, an Indian Resident individual bearing Income Tax Permanent Account Number AAEPB6014D residing in Mumbai.

**Reasons for such sale or transfer of ownership/control:**

The existing promoters of the Company being JBCG Advisory Services Private Limited (Transferor) bearing CIN U74110MH2016PTC287730 have executed Share Purchase Agreement dated 19-December-2023 with the Transferee to sell their entire holding of 65,72,000 equity shares (representing 57.13%) of the Company as a strategic business decision. Following this transaction, there will be change in Management (Board of Directors) of the company.

In compliance with RBI NBFC Directions, prior approval has been obtained from the RBI as evidenced by their letter reference DoS.CO.RSG.No.S1030/02.13.001/2024-25 dated 10-May-2024. The proposed transfer of ownership (by sale of shares) and control will take place after thirty days have elapsed following the publication of this public notice.

This notice is being issued jointly by Transferee, Transferor and the Company. For any further clarifications/ information/ objections, kindly contact the company at email pyxisinvest@gmail.com or by post at registered office address at Level 9 (Unit 801), CentrumHouse, CST Road, Vidya Nagar Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400098.

Transferee	For JBCG Advisory Services Private Limited - Transferor	For Pyxis Finvest Limited - Company
Sd/-	Sd/-	Sd/-
Uttam Bharat Bagri	Kapil Bagla	Shallendra Apte
PAN AAEPB6014D	DIN 00387814	SHIN 00017814
Place: Mumbai		
Date: 13-May-2024		

**ALAN SCOTT ENTERPRISES LIMITED**

(formerly known as Alan Scott Industries Limited)  
Corporate Identification Number: L33100MH1994PLC076732  
Registered Office: Unit no. 302, Kumar Plaza, 3rd Floor, Near Kalina Masjid, Kalina Kuria Road, Santacruz (East), Mumbai – 400029, Maharashtra, India. | Tel: +91 61786000/01, 9867644930  
E-mail: alanscottcompliance@gmail.com | Website: thealanscott.com | Contact person: Mr. Shankar Madva

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined here shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated June 16, 2023 filed with BSE Limited (“BSE”).

**FINAL DEMAND-CUM-FORFEITURE NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES**

In terms of the provisions of the Companies Act, 2013 (“Act”) read with relevant rules made thereunder, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer dated June 16, 2023 (“Letter of Offer”), a Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been sent in electronic mode to the holders of partly paid-up equity shares who have not paid the call money or part thereof, pursuant to the First and/or Second & Final Call Money Notice dated November 27, 2023 and February 26, 2024, and physical copy of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice along with the detailed instructions and payment slip, has been sent through permitted modes of dispatch at the registered address of all those holders of partly paid-up equity shares, who have not paid the First and Second & Final call money (or a part thereof). The Company has completed the dispatch on May 10, 2024.

The Board of Director (“Board”), duly authorized by the Board, has on Thursday, May 9, 2024, approved sending of a Final Demand-cum-Forfeiture Notice for payment of First and Second & Final call amount of ₹ 10.00 (including share premium of ₹ 6.5) towards the First Call and ₹10.00 (including share premium of ₹ 7.00) as First and Second & Final Call money (“Final Demand cum-Forfeiture Notice”), to the holders of such partly paid-up equity shares on which the First and/or Second & Final Call Money remains unpaid.

Accordingly, the Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been served providing the details given below:

Payment Period	From	To	Duration
	Tuesday, May 14, 2024	Tuesday, May 28, 2024	

Cheque or Demand Draft payable to:

Mode of Payment	Details
Alan Scott Call Money – Escrow Collection – R/A/c (For Resident Shareholders)	
Alan Scott Call Money – Escrow Collection – NR A/c (For Non-Resident Shareholders)	

Shareholder pay through cheque/demand draft, the payment slip (stating Full Name of the Sole/First shareholder; DP ID-Client ID/ Folio No; and No. of partly paid-up equity shares) along with the amount payable by cheque or demand draft must be presented.

Please note that, failure to pay the First and Second & Final Call Money pursuant to the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, as aforesaid, shall render the partly paid-up equity shares (to the extent that the First and Second & Final Call Money was not paid), including the application amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the Act, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.

Shareholders may also note that:

- The ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares of face value ₹10 each (₹3.50 paid-up and ₹7.00 paid up) has been suspended by the Stock Exchanges. Further the ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares has been suspended by National Securities Depository Ltd (“NSDL”) and Central Depository Services (India) Ltd. (“CDSL”).
- The process of corporate action for converting the partly paid-up equity shares to the fully paid-up ordinary shares under the present ISIN INE273F01022 for the existing fully paid-up ordinary shares, allotted by the depositories, is estimated to be completed, on a best effort basis, within two to three weeks from the last date of payment of the First and/or Second & Final Call Money stipulated under this Final Demand-cum-Forfeiture Notice. Upon completion of the corporate action, the partly paid-up equity shares shall be converted into fully paid-up equity shares and would be credited to ISIN INE273F01022, allotted by NSDL/CDSL.
- In case of non-receipt of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the duplicate Final Demand-cum-Forfeiture Notice to the Registrar, or may also download the same from the Company’s website: www.thealanscott.com or the Registrar’s website: www.purvashare.com. In such a case, however, the shareholder has to fill the DP ID-Client ID/Folio Number, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the First and Second & Final Call Money.
- The shareholder must mention in the Application, his/her PAN number allotted under the Income Tax Act, 1961.

All correspondence in respect of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice may be addressed to: Purva Sharegistry (India) Private Limited (Unit: Alan Scott Enterprises Limited) at the address Office 9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel East, Mumbai - 400011, Maharashtra, India, Telephone No - 022 49614132 | 022 49700138 | 022 35220056; E-mail: newissue@purvashare.com; Website: www.purvashare.com; Contact Person: Ms. Deepali Dhuri; SEBI Registration Number: INR000001112.

For Alan Scott Enterprises Ltd.  
Sd/-  
Saloni Suresh Jain  
Director

Date: May 13, 2024  
Place: Mumbai

**CHALET Chalet Hotels Limited**

CIN: L55101MH1986PLC038538,  
Registered office: Raheja Tower, Plot No. C-30, Block ‘G’ Next to Bank of Baroda, Bandra Kuria Complex, Bandra, Mumbai 400 051  
Email ID: investorrelations@chalet-hotels.com, website: www.chalet-hotels.com

**EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2024**

Particulars	CONSOLIDATED				
	Quarter Ended			Year Ended	
	31 March 2024	31 December 2023	31 March 2023	31 March 2024	31 March 2023
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total Income	4,244.07	3,798.87	3,457.83	14,370.38	11,779.54
EBITDA before exceptional items	1,890.08	1,722.15	1,602.71	6,043.78	5,023.04
Profit before income tax	990.26	886.52	714.59	2,693.53	2,728.29
Profit for the period / year	824.40	706.42	366.31	2,781.81	1,832.90
Total Comprehensive Income for the period / year	819.98	705.09	361.45	2,773.42	1,828.26
Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 per share)	2,054.74	2,053.95	2,050.25	2,054.74	2,050.25
Other Equity	-	-	-	16,458.68	13,369.14
Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each)					
Basic (*not annualised) (in Rs.)	*4.01	*3.44	*1.79	13.54	8.94
Diluted (*not annualised) (in Rs.)	*4.01	*3.44	*1.79	13.53	8.94

**1) Key numbers of Standalone Financial Results**

Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
	31 March 2024	31 December 2023	31 March 2023	31 March 2024	31 March 2023
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total Income	4,210.50	3,783.89	3,469.51	14,186.63	11,793.81
Profit before income tax	990.23	910.59	749.64	2,684.81	2,772.53
Profit for the period / year	818.36	731.87	401.52	2,782.82	1,877.65

**Notes:**

- The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2024 are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company’s website at www.chalet-hotels.com.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 13 May 2024.
- The above results are in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 as prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013, read with the relevant Rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.

For Chalet Hotels Limited  
(CIN - L55101MH1986PLC038538)  
Sd/-  
Sanjay Sethi  
Managing Director & CEO  
(DIN. 00641243)

Place : Mumbai  
Date : 13 May 2024

(This Is Only An Advertisement For Information Purposes And Not A Prospectus Announcement. Not For Distribution Outside India.)

**SILKFLEX  
SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED**

Corporate Identification Number: U51909WB2016PLC215739

Our Company was originally incorporated on May 13, 2016 as “Silkflex Polymers (India) Private Limited” under the provisions of the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, the status of the Company was changed to public limited Company and the name of our Company was changed from “Silkflex Polymers (India) Private Limited” to “Silkflex Polymers (India) Limited” vide fresh certificate of incorporation dated December 21, 2023 by the Registrar of Companies, Kolkata. The Corporate Identification Number of our Company is U51909WB2016PLC215739. For further details on incorporation and registered office of our Company, see “History and Certain Corporate Matters” beginning on page 155 of the Prospectus.

Registered Office: Daga Complex, Sulati Jaladhulagori, Sankrail, Howrah – 711 302, West Bengal, India  
Tel: +91 9674912615 | E-mail: investors@silklflexindia.in | Website: www.silklflexindia.in  
Contact Person: Mr. Sourabh Sharma, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. TUSHAR LALIT KUMAR SANGHAVI, MS. URMI RAJ MEHTA, M/S. TUSHAR LALITKUMAR SANGHAVI HUF AND M/S. LALITBHAI H SANGHVI HUF

\*The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the equity shares are proposed to be listed on Emerge Platform of NSE (NSE EMERGE).

**BASIS OF ALLOTMENT**

INITIAL PUBLIC OFFERING OF 34,82,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH (“EQUITY SHARES”) OF SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED (“SPIL” OR “OUR COMPANY”) OR “THE ISSUER”) FOR CASH AT A PRICE OF ₹52/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹42/- PER EQUITY SHARE) (“ISSUE PRICE”) AGGREGATING TO ₹ 1,810.64 LAKHS (“THE ISSUE”) OF WHICH 1,78,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 92.56 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER (“MARKET MAKER RESERVATION PORTION”). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 33,04,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 52/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 1,718.08 LAKHS (“NET ISSUE”). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 30.00% AND 28.47% RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO CHAPTER TITLED “TERMS OF THE ISSUE” BEGINNING ON PAGE 250 OF THE PROSPECTUS.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS 5.2 TIMES OF THE FACE VALUE

**ISSUE**  
ISSUE OPENED ON: TUESDAY, MAY 07, 2024  
ISSUE CLOSED ON: FRIDAY, MAY 10, 2024

**RISK TO INVESTORS:**

- Our Equity Shares have never been publicly traded, and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may be volatile and you may be unable to resell your Equity Shares at or above the Issue Price or at all.
- The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is set forth in the table below:

Sr. No.	Name of the Promoters	No of Equity Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Mr. Tushar Lalit Kumar Sanghavi	66,65,450	6.81
2.	Ms. Urmi Raj Mehta	48,750	10.77
3.	M/s Tushar Lalitkumar Sanghavi HUF	9,10,000	6.18
4.	M/s Lalitbhai H. Sanghvi HUF	4,87,500	3.08

Investors are required to refer section titled “Risk Factors” beginning on page 26 of the Prospectus.

Our Company has filed the Prospectus dated May 01, 2024 with the ROC, Kolkata (the “Prospectus”). The Equity Shares of the Company are proposed to be listed on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited i.e., NSE Emerge, in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval from NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated April 30, 2024. NSE is the Designated Stock Exchange for the purpose of this Issue. The trading is to be commenced on May 15, 2024 (Subject to receipt of listing and trading approvals from the NSE).

The Issue is being made through the Fixed Price process, the allocation in the Net Issue to the Public category is made pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, wherein a minimum of 50% of the Net Issue of shares to the Public is initially made available for allotment to Retail Individual Investors. The balance of Net Issue of Shares to the public is made available for allotment to Individual Applicants other than Retail Individual Investors and other Investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. If the Retail Individual Investor category is entitled to more than 50% on proportionate basis, they shall be allotted that higher percentage. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and the Designation Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All potential investors shall participate in the Issue only through an Application Supported by Blocked Amount (“ASBA”) process including through UPI mode (as applicable) by providing details of the irrelative bank accounts and / or UPI IDs, in case of RILs, if applicable, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks (“SCSBs”) for the same

**SUBSCRIPTION DETAILS**

The Net Issue has received 34,418 applications before technical rejections for 12,27,48,000 Equity Shares resulting in 37.15 times subscription. The details of the applications received in the Net Issue (before and after technical rejections & withdrawal) are as follows:

**Detail of the Applications Received**

Category	Gross		Less: Rejections*		Valid	
	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares
Non-Retail Investors	3,390	6,06,92,000	36	1,88,000	3,354	6,05,04,000
Retail Individual Investors	31,028	6,20,56,000	830	16,60,000	30,198	6,03,96,000
<b>TOTAL</b>	<b>34,418</b>	<b>12,27,48,000</b>	<b>866</b>	<b>18,48,000</b>	<b>33,552</b>	<b>12,09,00,000</b>

\*This includes 312 applications for 6,24,000 equity shares from Retail investors which were not in book but excludes bids (UPI mandates) not accepted by investors.

**Note:**

- The Net Issue does not include 1,78,000 Equity Shares reserved for Market Maker, which was subscribed by 1.00 time.
- There were 866 Technical Rejections for 18,48,000 Equity Shares. The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange – NSE on May 13, 2024.

**A) Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawals):** The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Issue Price of ₹ 52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 1,78,000 Equity Shares. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to Total
1,78,000	1	100.00	1,78,000	100.00	1,78,000	1:1	1,78,000	100.00

**B) Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawals):** The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.56 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant		Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to Total
					Before Rounding off	After Rounding off			
2000	30,198	100.00	6,03,96,000	100.00	54.71	2000	25 : 914	16,52,000	100.00

**C) Allocation to Other than Retail Category (After Technical Rejections & Withdrawals):** The Basis of Allotment to the Non-Retail Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.62 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of shares allocated/allotted
						Before Rounding off	After Rounding off		
4,000	2,253	67.17	90,12,000	14.89	2,46,063	109.22	2,000	41 : 751	2,46,000
6,000	213	6.35	12,78,000	2.11	34,894	163.82	2,000	17 : 213	34,000
8,000	139	4.14	11,12,000	1.84	30,362	218.43	2,000	15 : 139	30,000
10,000	111	3.31	11,10,000	1.83	30,307	273.04	2,000	5 : 37	30,000
12,000	50	1.49	6,00,000	0.99	16,382	327.64	2,000	4 : 25	16,000
14,000	26	0.78	3,64,000	0.60	9,939	382.27	2,000	5 : 26	10,000
16,000	36	1.07	5,76,000	0.95	15,727	436.86	2,000	2 : 9	16,000
20,000	179	5.34	35,80,000	5.92	97,748	546.08	2,000	49 : 179	98,000
22,000	22	0.66	4,84,000	0.80	13,215	600.68	2,000	7 : 22	14,000
30,000	17	0.51	5,10,000	0.84	13,925	819.12	2,000	7 : 17	14,000
38,000	7	0.21	2,66,000	0.44	7,263	1,037.57	2,000	4 : 7	8,000
40,000	16	0.48	6,40,000	1.06	17,475	1,092.19	2,000	9 : 16	18,000
50,000	10	0.30	5,00,000	0.83	13,652	1,365.2	2,000	7 : 10	14,000
52,000									



**फॉर्म नं. 3**  
[ विनियम-15(1)(ए) देखें ]/16(3)  
**ऋण वसूली न्यायाधिकरण, कोलकाता (डीआरटी 1)**  
9वां तल, जीवन सुधा भवन, 42-सी, जे. एल. नेहरू रोड, कोलकाता-700071

मासिका सं. ओए/81/2022  
(ऋण वसूली न्यायाधिकरण (विधि) नियमों, 1993 के नियम 5 के उप नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (4) के अर्धीन समन)  
ईएक्सएच. नं. 2437

**साउथ इंडियन बैंक बनाम श्री काशीकांत झा**

प्रति,  
(1) श्री काशीकांत झा पुत्र स्वामी सहदेव झा मेसर्स जय मां तारा टिम्बर के मालिक, एकशार मल्लिक पार्क, बल्ली जगाछ, चारमेल ग्राम, डब्ल्यू लिलुआ, पो-चारमेल, थाना-चारमेल हावड़ा, पश्चिम बंगाल-711114  
(2) श्रीमती ममता झा पत्नी श्री काशीकांत झा, एकशार मल्लिक पार्क, बल्ली जगाछ, चारमेल ग्राम, डब्ल्यू लिलुआ, पो-चारमेल, पीएस-चारमेल हावड़ा, पश्चिम बंगाल-711114  
(3) श्री संदीप कुमार झा पुत्र- श्री काशीकांत झा, एकशार मल्लिक पार्क, बल्ली जगाछ, चारमेल ग्राम डब्ल्यू लिलुआ, पो-चारमेल, थाना-चारमेल हावड़ा, पश्चिम बंगाल-711114

**समन**  
चूंकि दिनांक 22.08.2022 को ओए/81/2022 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया था।  
चूंकि, यह माननीय न्यायाधीकरणी राशि 2,66,51,680.15 रूपए के ऋणों की वसूली के लिए आपके विरुद्ध दाखिल (ओए) में अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत कथित आवेदन पर समन/नोटिस जारी करता है। (दस्तावेजों की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न है)।  
अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (4) के तदनुसार, प्रतिवादी को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है:-  
(i) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कारण बताना होगा कि जिसके लिए राहत की प्रार्थना की गई है वह क्यों प्रदान नहीं की जानी चाहिए।  
(ii) मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट संघर्षों तथा परिसंपत्तियों के अलावा संघर्षों तथा परिसंपत्तियों का विवरण प्रदर्शित करना।  
(iii) आपको मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत प्रदर्शित की गई प्रतिभूति परिसंपत्तियों या ऐसी किसी अन्य परिसंपत्तियों तथा संघर्षों के साथ लेन-देन और निपटान करने से प्रतिबंधित किया जाता है, साथ जुड़ी हुई संघर्षों के लिए आवेदन की सुनवाई एवं निपटान लंबित है।  
(iv) आप न्यायाधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट या प्रदर्शित किसी परिसंपत्ति या किसी अन्य संघर्षों, जिस पर प्रतिभूति ब्याज सुनिश्चित किया है, पर अपने व्यापार के सामान्य कोर्स को छोड़कर विक्री, लीज या अन्यथा तरीके द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण नहीं कर सकते।  
(v) आप व्यापार के सामान्य कोर्स में प्रतिभूति परिसंपत्तियां या अन्य परिसंपत्तियां तथा संघर्षों की विक्री द्वारा विक्री प्रक्रिया से वसूली और ऐसी परिसंपत्तियों के ऊपर प्रतिभूति ब्याज को धारण करने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के साथ रखे गए खाते में ऐसी विक्री प्रक्रिया की राशि को जमा करने के उतरदायी होंगे।  
आपको आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई उस प्रति के साथ लिखित बयान को दाखिल करने तथा दिनांक 22.05.2024 को पूर्वान 10.30 बजे इस रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें अस्पष्ट होने पर आवेदन की सुनवाई आपके अनुपस्थिति में कर दी जाएगी।  
मेरे हस्ताक्षर व इस न्यायाधिकरण की मुहर के अर्धीन 18.10.2022 को जारी किया गया।  
समन जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर  
सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली न्यायाधिकरण संख्या 1, कोलकाता

**NAME CHANGE**  
I, Gautam Ghosh, (Ex- Serviceman no. JC2223597, Ex- No Sub.) S/O- Netaji Chandra Ghosh R/O- Paikpara, P.O+PS- Bongaon, Pin- 742325, Dist- North 24 Parganas declare that I have retired from Army Services since 31.12.2023 & drawing pension vide PPO no. 23220204826. My mother's actual & correct name is Raba Ghosh & DOB- 02/08/1960, but in my Service documents & discharge book my mother's name has been recorded as Raba Ghosh & DOB- 01/07/1966. So, Raba Ghosh & DOB- 01/07/1966 & Raba Ghosh & DOB- 02/08/1960 is the same & one identical person vide affidavit no.2222, from Lt. A.C.J.M 1st Class at Bongaon on 15.03.2024.

**"IMPORTANT"**

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting in an advertisement in any manner whatsoever.



**CORRIGENDUM TO LETTER OF OFFER FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF CINERAD COMMUNICATIONS LIMITED**

Corporate Identification Number: L92100WB1986PLC218825  
Registered Office: 80, Burtolla Street, Kolkata - 700007, West Bengal, India | Phone: +91-77199 13351  
E-mail ID: cinerad@qtsolutions.in | Website: www.cineradcommunications.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 49,82,098 (FORTY NINE LAKHS EIGHTY TWO THOUSAND NINETY EIGHT) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- (INDIAN RUPEES TEN) EACH ("EQUITY SHARES") REPRESENTING 26.00% (TWENTY SIX) PERCENT OF THE EMERGING VOTING CAPITAL OF THE TARGET COMPANY FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF CINERAD COMMUNICATIONS LIMITED, BY PANKAJ RAMESH SAMANI ("ACQUIRER NO. 1"), KAUSHAL UTTAM SHAH ("ACQUIRER NO. 2") UGPATWARDHAN SERVICES PRIVATE LIMITED ("ACQUIRER NO. 3"), GANESH NATARAJAN ("ACQUIRER NO. 4"), UMA GANESH NATARAJAN ("ACQUIRER NO. 5"), MANOJ MANOHAR PANVELKAR ("ACQUIRER NO. 6"), NITIN NEMINATH PATIL ("ACQUIRER NO. 7") AND BASANTA KUMAR SWAIN ("ACQUIRER NO. 8") (HEREINAFTER, COLLECTIVELY REFERRED TO AS "ACQUIRERS") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE SEBI (SAST) REGULATIONS (THE "OPEN OFFER" OR "OFFER").

This corrigendum to the Letter of Offer ("Corrigendum") is being issued by Vivro Financial Services Limited, the Manager to the offer ("Manager to the Offer"), for and on behalf of the Acquirers, in compliance with Regulation 18(7) and other applicable provisions of the SEBI (SAST) Regulations.

The Public Shareholders of the Target Company are requested to note the following change in the schedule of major activities of the Open Offer.

Activity	Revised Day and Date
Date of commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	Monday, May 13, 2024
Date of closure of Tendering Period (Offer Closing Date)	Tuesday, May 28, 2024
Last date of communicating of rejection/acceptance and completion of payment of consideration for accepted tenders or return of unaccepted shares	Tuesday, June 11, 2024
Last date for publication of post Open Offer public announcement in the newspaper in which DPS has been published	Wednesday, June 19, 2024
Last Date of Filing the Final report to SEBI	Wednesday, June 19, 2024

The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Corrigendum and undertake that they are aware of and will comply with their obligations under the SEBI (SAST) Regulations in respect of this offer.

The Corrigendum would also be available on the SEBI website at www.sebi.gov.in and on the website of the Manager to the Offer at www.vivro.net.

**Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirers**

**Vivro Financial Services Private Limited**  
Address: Vivro House, 11 Shashi Colony, Opp. Suvidha Shopping Centre, Paldi, Ahmedabad - 380007, Gujarat, India.  
Tel No.: 079-4040 4242 | SEBI Reg. No.: MB/INM000010122.  
Email: investors@vivro.net | Website: www.vivro.net  
Contact Person: Shivam Patel | CIN: U67120GJ1996PTC029182

For and on behalf of the Acquirers  
Sd/-  
Pankaj Ramesh Samani  
Acquirer

Place: Mumbai  
Date: May 13, 2024

**ALAN SCOTT ENTERPRISES LIMITED**

(formerly known as Alan Scott Industries Limited)  
Corporate Identification Number: L33100MH1994PLC076732  
Registered Office: Unit no. 302, Kumar Plaza, 3rd Floor, Near Kalina Masjid, Kalina Kurla Road, Santacruz (East), Mumbai - 400029, Maharashtra, India. | Tel: +91 617860001, 9867644930  
E-mail: alanscottcompliance@gmail.com | Website: thealanscott.com | Contact person: Mr. Shankar Madva

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated June 16, 2023 filed with BSE Limited ("BSE").

**FINAL DEMAND-CUM-FORFEITURE NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES**

In terms of the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made thereunder, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer dated June 16, 2023 ("Letter of Offer"), a Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been sent in electronic mode to the holders of partly paid-up equity shares who have not paid the call money or part thereof, pursuant to the First and/or Second & Final Call Money Notice dated November 27, 2023 and February 26, 2024, and physical copy of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice along with the detailed instructions and payment slip, has been sent through permitted modes of dispatch at the registered address of all those holders of partly paid-up equity shares, who have not paid the First and Second & Final call money (or a part thereof). The Company has completed the dispatch on May 10, 2024.

The Board of Director ("Board"), duly authorized by the Board, has on **Thursday, May 9, 2024**, approved sending of a Final Demand-cum-Forfeiture Notice for payment of First and Second & Final call amount of ₹ 10.00 (including share premium of ₹ 6.5) towards the First Call and ₹ 10.00 (including share premium of ₹ 7.00) as First and Second & Final call money ("Final Demand cum-Forfeiture Notice"), to the holders of such partly paid-up equity shares on which the First and/or Second & Final Call Money remains unpaid.

Accordingly, the Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been served providing the details given below:

Payment Period	From	To	Duration
	Tuesday, May 14, 2024	Tuesday, May 28, 2024	15 days

Cheque or Demand Draft payable to:  
Alan Scott Call Money - Escrow Collection - R A/c (For resident Shareholders)  
Alan Scott Call Money - Escrow Collection - NR A/c (For Non-resident Shareholders)

Shareholder pay through cheque/demand draft, the payment slip (stating Full Name of the Sole/First shareholder; DP ID-Client ID/ Folio No; and No. of partly paid-up equity shares) along with the amount payable by cheque or demand draft must be presented.

Please note that, failure to pay the First and Second & Final Call Money pursuant to the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, as aforesaid, shall render the partly paid-up equity shares (to the extent that the First and Second & Final Call Money was not paid), including the application amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the Act, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.

Shareholders may also note that:

- The ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares of face value ₹10 each (₹3.50 paid-up and ₹7.00 paid up) has been suspended by the Stock Exchanges. Further the ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares has been suspended by National Securities Depository Ltd ("NSDL") and Central Depository Services (India) Ltd. ("CDSL").
- The process of corporate action for converting the partly paid-up equity shares to the fully paid-up ordinary shares under the present ISIN INE273F01022 for the existing fully paid-up ordinary shares, allotted by a best effort basis, is estimated to be completed, on a best effort basis, within two to three weeks from the last date of payment of the First and/or Second & Final Call Money stipulated under this Final Demand-cum-Forfeiture Notice. Upon completion of the corporate action, the partly paid-up equity shares shall be converted into fully paid-up equity shares and would be credited to ISIN INE273F01022, allotted by NSDL/CDSL.
- In case of non-receipt of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the duplicate Final Demand-cum-Forfeiture Notice to the Registrar, or may also download the same from the Company's website: www.thealanscott.com or the Registrar's website: www.purvashare.com. In such a case, however, the shareholder has to fill the DP ID-Client ID/folio Number, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the First and Second & Final Call Money.
- The shareholder must mention in the Application, his/her PAN number allotted under the Income Tax Act, 1961.

All correspondence in respect of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice may be addressed to: **Purva Sharegistry (India) Private Limited (Unit: Alan Scott Enterprises Limited)** at the address **Office 9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel East, Mumbai - 400011, Maharashtra, India, Telephone No - 022 49614132 | 022 49700138 | 022 35220056; E-mail: newissue@purvashare.com; Website: www.purvashare.com; Contact Person: Ms. Deepali Dhuri; SEBI Registration Number: INR000001112.**

For Alan Scott Enterprises Ltd.  
Sd/-  
Saloni Suresh Jain  
Director

Date: May 13, 2024  
Place: Mumbai

(This is Only An Advertisement For Information Purposes And Not A Prospectus Announcement. Not For Distribution Outside India.)

**SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED**

Corporate Identification Number: U51909WB2016PLC215739  
Our Company was originally incorporated on May 13, 2016 as "Silkflex Polymers (India) Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, the status of the Company was changed to public limited Company and the name of our Company was changed from "Silkflex Polymers (India) Private Limited" to "Silkflex Polymers (India) Limited" vide fresh certificate of incorporation dated December 21, 2023 by the Registrar of Companies, Kolkata. The Corporate Identification Number of our Company is U51909WB2016PLC215739. For further details on incorporation and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 155 of the Prospectus.

Registered Office: Daga Complex, Sulati Jaladhulagori, Sankrail, Howrah - 711 302, West Bengal, India  
Tel: +91 9674912615 | E-mail: investors@silkflexindia.in | Website: www.silkflexindia.in  
Contact Person: Mr. Sourabh Sharma, Company Secretary and Compliance Officer

**PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. TUSHAR LALIT KUMAR SANGHAVI, M.S. URMJI RAJ MEHTA, M/S. TUSHAR LALITKUMAR SANGHAVI HUF AND M/S. LALITBHAI H SANGHVI HUF**

"The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the equity shares are proposed to be listed on Emerge Platform of NSE (NSE EMERGE)."

**BASIS OF ALLOTMENT**

INITIAL PUBLIC OFFERING OF 34,82,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED ("SPL" OR "OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹52/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹42/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 1,81,06,40,000 ("THE ISSUE") OF WHICH 1,78,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 92.56 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 33,04,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 52/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 1,71,80,80,000 ("NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 30.00% AND 28.47% RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 250 OF THE PROSPECTUS.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS 5.2 TIMES OF THE FACE VALUE

**ISSUE** **ISSUE OPENED ON: TUESDAY, MAY 07, 2024**  
**ISSUE CLOSED ON: FRIDAY, MAY 10, 2024**

**RISK TO INVESTORS:**

- Our Equity Shares have never been publicly traded, and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may be volatile and you may be unable to resell your Equity Shares at or above the Issue Price or at all.
- The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is set forth in the table below:

Sr. No.	Name of the Promoters	No of Equity Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Mr. Tushar Lalit Kumar Sanghavi	66,65,450	6.81
2.	Ms. Urmji Raj Mehta	48,750	10.77
3.	M/s Tushar Lalitkumar Sanghavi HUF	9,10,000	6.18
4.	M/s Lalitbhai H. Sanghvi HUF	4,87,500	3.08

Investors are required to refer section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Prospectus.

Our Company has filed the Prospectus dated May 01, 2024 with the ROC, Kolkata (the "Prospectus"). The Equity Shares of the Company are proposed to be listed on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited i.e., **NSE Emerge**, in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval from NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated April 30, 2024. **NSE is the Designated Stock Exchange for the purpose of this Issue. The trading is to be commenced on May 15, 2024** (Subject to receipt of listing and trading approvals from the NSE).

The Issue is being made through the Fixed Price process, the allocation in the Net Issue to the Public category is made pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, wherein a minimum of 50% of the Net Issue of shares to the Public is initially made available for allotment to Retail Individual Investors. The balance of Net Issue of Shares to the public is made available for allotment to Individual Applicants other than Retail Individual Investors and other Investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. If the Retail Individual Investor category is entitled to more than 50% on proportionate basis, they shall be allotted that higher percentage. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and the Designation Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All potential investors shall participate in the Issue only through an Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process including through UPI mode (as applicable) by providing details of the irrevocable bank accounts and / or UPI IDs, in case of RILs, if applicable, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") for the same.

**SUBSCRIPTION DETAILS**

The Net Issue has received 34,418 applications before technical rejections for 12,27,48,000 Equity Shares resulting in 37.15 times subscription. The details of the applications received in the Net Issue (before and after technical rejections & withdrawal) are as follows:

Detail of the Applications Received

Category	Gross		Less: Rejections*		Valid	
	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares
Non-Retail Investors	3,390	6,06,92,000	36	1,88,000	3,354	6,05,04,000
Retail Individual Investors	31,028	6,20,56,000	830	16,60,000	30,198	6,03,96,000
<b>TOTAL</b>	<b>34,418</b>	<b>12,27,48,000</b>	<b>866</b>	<b>18,48,000</b>	<b>33,552</b>	<b>12,09,00,000</b>

\*This includes 312 applications for 6,24,000 equity shares from Retail investors which were not in book but excludes bids (UPI mandates) not accepted by investors.

Note:  
1. The Net Issue does not include 1,78,000 Equity Shares reserved for Market Maker, which was subscribed by 1.00 time.

- There were 866 Technical Rejections for 18,48,000 Equity Shares. The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange - NSE on May 13, 2024.

**A) Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawals):** The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Issue Price of ₹ 52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 1,78,000 Equity Shares. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to Total
1,78,000	1	100.00	1,78,000	100.00	1,78,000	1:1	1,78,000	100.00

**B) Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawals):** The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.56 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant		Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to Total	
					Before Rounding off	After Rounding off				
2000	30,198	100.00	6,03,96,000	100.00	54.71	2000	25	914	16,52,000	100.00

**C) Allocation to Other than Retail Category (After Technical Rejections & Withdrawals):** The Basis of Allotment to the Non-Retail Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.62 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of shares allocated/allotted	
						Before Rounding off	After Rounding off			
4,000	2,253	67.17	90,12,000	14.89	2,46,063	109.22	2,000	41	751	2,46,000
6,000	213	6.35	12,78,000	2.11	34,894	163.82	2,000	17	213	34,000
8,000	139	4.14	11,12,000	1.84	30,362	218.43	2,000	15	139	30,000
10,000	111	3.31	11,10,000	1.83	30,307	273.04	2,000	5	37	30,000
12,000	50	1.49	6,00,000	0.99	16,382	327.64	2,000	4	25	16,000
14,000	26	0.78	3,64,000	0.60	9,939	382.27	2,000	5	26	10,000
16,000	36	1.07	5,76,000	0.95	15,727	436.86	2,000	2	9	16,000
20,000	179	5.34	35,80,000	5.92	97,748	546.08	2,000	49	179	98,000
22,000	22	0.66	4,84,000	0.80	13,215	600.68	2,000	7	22	14,000
30,000	17	0.51	5,10,000	0.84	13,925	819.12	2,000	7	17	14,000
38,000	7	0.21	2,66,000	0.44	7,263	1,037.57	2,000	4	7	8,000
40,000	16	0.48	6,40,000	1.06	17,475	1,092.19	2,000	9	16	18,000
50,000	10	0.30	5,00,000	0.83	13,652	1,365.2	2,000	7	10	14,000
52,000	4	0.12	2,08,000	0.34	5,679	1,419.75	2,000	3	4	6,000
58,000	6	0.18	3,48,000	0.58	9,502	1,583.67	2,000	5	6	10,000

The Board of Directors of the Company at its meeting held on **May 13, 2024**, has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares, as approved by the Designated Stock Exchange viz. NSE and has authorized the corporate action for the allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

The CAN and allotment advice and / or notices shall be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories on or before May 14, 2024. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking of funds will process on or prior to May 14, 2024. The Equity Shares allotted to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. In case the same is not received within prescribed time, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the Emerge Platform of NSE within 3 working days from the Closure of the Issue. **The trading is proposed to be commenced on May 15, 2024 subject to receipt of listing and trading approvals from NSE.**

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated May 01, 2024 ("Prospectus").





## KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED

(Formerly Known as KURLON LIMITED)

(CIN : U17214KA1962PLC001443)

Regd. Office : # N-301, 3rd Floor, North Block, Manipal Centre,  
47 Dickenson Road, Bangalore - 560 042.

Phone : 080 - 4031 3131, E-mail : secretary@manipal.com

### NOTICE OF RECORD DATE - BUYBACK OF SHARES

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 91 of The Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, the Board of Directors of the Company at its meeting held on Friday, 3rd May 2024, noted that the shareholders have approved the buyback of shares of the Company via postal ballot the equity shares of face value of Rs. 10 each fully paid, being offered at a price of Rs. 1,300 per share.

The Company has further fixed the record date as Tuesday, 21st May 2024 to determine the shareholders eligible to receive the Letter of Offer and the Tender Form for the buyback of shares.

For KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED  
(Formerly Known as Kurlon Limited)

Date : 14-05-2024

Place : Bangalore

Sd/- Susheela Y. Bungale  
Company Secretary

### PRIOR PUBLIC NOTICE

#### CHANGE IN NBFC CONTROL AND MANAGEMENT

Public Notice is hereby issued under Direction 42.3 of Master Direction - Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023 ("RBI NBFC Directions") for intention to sell and transfer ownership / control of Pyxis Finvest Limited (Company), a Non-Banking Finance Company (NBFC) registered with the Reserve Bank of India (RBI) under registration number N.13.01840 dated 30-August-2006 and bearing CIN L65990MH2005PLC157586.

#### Particulars of Transferee:

Mr. Uttam Bharat Bagri, an Indian Resident individual bearing Income Tax Permanent Account Number AAEPB6014D residing in Mumbai.

#### Reasons for such sale or transfer of ownership/control:

The existing promoters of the Company being JBCG Advisory Services Private Limited (Transferor) bearing CIN U74110MH2016PTC287730 have executed Share Purchase Agreement dated 19-December-2023 with the Transferee to sell their entire holding of 65,72,000 equity shares (representing 57.13%) of the Company as a strategic business decision. Following this transaction, there will be change in Management (Board of Directors) of the company.

In compliance with RBI NBFC Directions, prior approval has been obtained from the RBI as evidenced by their letter reference DoS.CO.RSG.No. S1030/02.13.001/2024-25 dated 10-May-2024. The proposed transfer of ownership (by sale of shares) and control will take place after thirty days have elapsed following the publication of this public notice.

This notice is being issued jointly by Transferee, Transferor and the Company. For any further clarifications/ information/ objections, kindly contact the company at email pyxisinvest@gmail.com or by post at registered office address at Level 9 (Unit 801), Centrum House, CST Road, Vidya Nagar Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400098.

Transferee For JBCG Advisory Services Private Limited - Transferor For Pyxis Finvest Limited - Company

Sd/- Uttam Bharat Bagri PAN AAEPB6014D Place: Mumbai Date: 13-May-2024

Sd/- Kapil Bagla DIN 00387814 Sd/- Shailendra Apte DIN 00017814



## ALAN SCOTT ENTERPRISES LIMITED

(formerly known as Alan Scott Industries Limited)

Corporate Identification Number: L33100MH1994PLC076732

Registered Office: Unit no. 302, Kumar Plaza, 3rd Floor, Near Kalina Masjid, Kalina Kurla Road, Santacruz (East), Mumbai - 400029, Maharashtra, India. | Tel: +91 617860001, 9867644930

E-mail: alanscottcompliance@gmail.com | Website: thealanscott.com | Contact person: Mr. Shankar Madva

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined here shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated June 16, 2023 filed with BSE Limited ("BSE").

### FINAL DEMAND-CUM-FORFEITURE NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES

In terms of the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made thereunder, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer dated June 16, 2023 ("Letter of Offer"), a Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been sent in electronic mode to the holders of partly paid-up equity shares who have not paid the call money or part thereof, pursuant to the First and/or Second & Final Call Money Notice dated November 27, 2023 and February 26, 2024, and physical copy of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice along with the detailed instructions and payment slip, has been sent through permitted modes of dispatch at the registered address of all those holders of partly paid-up equity shares, who have not paid the First and Second & Final call money (or a part thereof). The Company has completed the dispatch on May 10, 2024.

The Board of Director ("Board"), duly authorized by the Board, has on Thursday, May 9, 2024, approved sending of a Final Demand-cum-Forfeiture Notice for payment of First and Second & Final call amount of ₹ 10.00 (including share premium of ₹ 6.5) towards the First Call and ₹ 10.00 (including share premium of ₹ 7.00) as First and Second & Final Call money ("Final Demand cum-Forfeiture Notice"), to the holders of such partly paid-up equity shares on which the First and/or Second & Final Call Money remains unpaid.

Accordingly, the Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been served providing the details given below:

Payment Period	From	To	Duration
	Tuesday, May 14, 2024	Tuesday, May 28, 2024	15 days

Cheque or Demand Draft payable to:  
Alan Scott Call Money - Escrow Collection - R A/c (For resident Shareholders)  
Alan Scott Call Money - Escrow Collection - NR A/c (for Non-resident Shareholders)

Shareholder pay through cheque/demand draft, the payment slip (stating Full Name of the Sole/First shareholder; DP ID-Client ID/ Folio No; and No. of partly paid-up equity shares) along with the amount payable by cheque or demand draft must be presented.

Please note that, failure to pay the First and Second & Final Call Money pursuant to the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, as aforesaid, shall render the partly paid-up equity shares (to the extent that the First and Second & Final Call Money was not paid), including the application amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the Act, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.

Shareholders may also note that:

- The ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares of face value ₹10 each (₹3.50 paid-up and ₹7.00 paid up) has been suspended by the Stock Exchanges. Further the ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares has been suspended by National Securities Depository Ltd ("NSDL") and Central Depository Services (India) Ltd. ("CDSL").
- The process of corporate action for converting the partly paid-up equity shares to the fully paid-up ordinary shares under the present ISIN INE273F01022 for the existing fully paid-up ordinary shares, allotted by the depositories, is estimated to be completed, on a best effort basis, within two to three weeks from the last date of payment of the First and/or Second & Final Call Money stipulated under this Final Demand-cum-Forfeiture Notice. Upon completion of the corporate action, the partly paid-up equity shares shall be converted into fully paid-up equity shares and would be credited to ISIN INE273F01022, allotted by NSDL/CDSL.
- In case of non-receipt of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the duplicate Final Demand-cum-Forfeiture Notice to the Registrar, or may also download the same from the Company's website: www.thealanscott.com or the Registrar's website: www.purvashare.com. In such a case, however, the shareholder has to fill the DP ID-Client ID/folio Number, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the First and Second & Final Call Money.
- The shareholder must mention in the Application, his/her PAN number allotted under the Income Tax Act, 1961.

All correspondence in respect of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice may be addressed to: Purva Shareistry (India) Private Limited (Unit: Alan Scott Enterprises Limited) at the address Office 9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel East, Mumbai - 400011, Maharashtra, India, Telephone No - 022 49614132 | 022 49700138 | 022 35220056; E-mail: newissue@purvashare.com; Website: www.purvashare.com; Contact Person: Ms. Deepali Dhuri; SEBI Registration Number: INR00000112.

For Alan Scott Enterprises Ltd.

Sd/-  
Saloni Suresh Jain  
Director

Date: May 13, 2024

Place: Mumbai

## CHALET Chalet Hotels Limited

CIN: L55101MH1986PLC038538,

Registered office: Raheja Tower, Plot No. C-30, Block 'G' Next to Bank of Baroda, Bandra Kurla Complex, Bandra, Mumbai 400 051

Email ID: investorrelations@chalet-hotels.com, website: www.chalet-hotels.com

### EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2024

(Rs. in million)

Particulars	CONSOLIDATED					
	Quarter Ended			Year Ended		
	31 March 2024 (Audited)	31 December 2023 (Unaudited)	31 March 2023 (Audited)	31 March 2024 (Audited)	31 March 2023 (Audited)	31 March 2023 (Audited)
Total Income	4,244.07	3,798.87	3,457.83	14,370.38	11,779.54	
EBITDA before exceptional items	1,890.08	1,722.15	1,602.71	6,043.78	5,023.04	
Profit before income tax	990.26	886.52	714.59	2,693.53	2,728.29	
Profit for the period / year	824.40	706.42	366.31	2,781.81	1,832.90	
Total Comprehensive Income for the period / year	819.98	705.09	361.45	2,773.42	1,828.26	
Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 per share)	2,054.74	2,053.95	2,050.25	2,054.74	2,050.25	
Other Equity	-	-	-	16,458.68	13,369.14	
Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each)						
Basic (*not annualised) (in Rs.)	*4.01	*3.44	*1.79	13.54	8.94	
Diluted (*not annualised) (in Rs.)	*4.01	*3.44	*1.79	13.53	8.94	

#### 1) Key numbers of Standalone Financial Results

Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
	31 March 2024 (Audited)	31 December 2023 (Unaudited)	31 March 2023 (Audited)	31 March 2024 (Audited)	31 March 2023 (Audited)
	Total Income	4,210.50	3,783.89	3,469.51	14,186.63
Profit before income tax	990.23	910.59	749.64	2,684.81	2,772.53
Profit for the period / year	818.36	731.87	401.52	2,782.82	1,877.65

#### Notes:

- The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2024 are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website at www.chalet-hotels.com.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 13 May 2024.
- The above results are in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 as prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013, read with the relevant Rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.

For Chalet Hotels Limited  
(CIN - L55101MH1986PLC038538)

Sd/-  
Sanjay Sethi  
Managing Director & CEO  
(DIN: 00641243)

Place : Mumbai

Date : 13 May 2024

(This Is Only An Advertisement For Information Purposes And Not A Prospectus Announcement. Not For Distribution Outside India.)

# SILKFLEX

## SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED

Corporate Identification Number: U51909WB2016PLC215739

Our Company was originally incorporated on May 13, 2016 as "Silkflex Polymers (India) Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, the status of the Company was changed to public limited Company and the name of our Company was changed from "Silkflex Polymers (India) Private Limited" to "Silkflex Polymers (India) Limited" vide fresh certificate of incorporation dated December 21, 2023 by the Registrar of Companies, Kolkata. The Corporate Identification Number of our Company is U51909WB2016PLC215739. For further details on incorporation and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 155 of the Prospectus.

Registered Office: Daga Complex, Sulati, Jaladulagori, Sankrail, Howrah - 711 302, West Bengal, India

Tel: +91 9674912615 | E-mail: investors@silkflexindia.in | Website: www.silkflexindia.in

Contact Person: Mr. Sourabh Sharma, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. TUSHAR LALIT KUMAR SANGHAVI, MS. URMI RAJ MEHTA, M/S. TUSHAR LALITKUMAR SANGHAVI HUF AND M/S. LALITBHAI H SANGHVI HUF

"The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the equity shares are proposed to be listed on Emerge Platform of NSE (NSE EMERGE)."

### BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFERING OF 34,82,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED ("SPL" OR "OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹52/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹42/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 1,810.64 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH 1,78,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 92.56 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 33,04,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 52/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 1,718.08 LAKHS ("NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 30.00% AND 28.47% RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 250 OF THE PROSPECTUS.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS 5.2 TIMES OF THE FACE VALUE

### ISSUE

ISSUE OPENED ON: TUESDAY, MAY 07, 2024

ISSUE CLOSED ON: FRIDAY, MAY 10, 2024

#### RISK TO INVESTORS:

- Our Equity Shares have never been publicly traded, and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may be volatile and you may be unable to resell your Equity Shares at or above the Issue Price or at all.
- The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is set forth in the table below:

Sr. No.	Name of the Promoters	No of Equity Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Mr. Tushar Lalit Kumar Sanghavi	66,65,450	6.81
2.	Ms. Urmil Raj Mehta	48,750	10.77
3.	M/s Tushar Lalitkumar Sanghavi HUF	9,10,000	6.18
4.	M/s Lalitbhai H. Sanghvi HUF	4,87,500	3.08

Investors are required to refer section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Prospectus.

Our Company has filed the Prospectus dated May 01, 2024 with the ROC, Kolkata (the "Prospectus"). The Equity Shares of the Company are proposed to be listed on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited i.e., NSE Emerge, in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval from NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated April 30, 2024. NSE is the Designated Stock Exchange for the purpose of this Issue. The trading is to be commenced on May 15, 2024 (Subject to receipt of listing and trading approvals from the NSE).

The Issue is being made through the Fixed Price process, the allocation in the Net Issue to the Public category is made pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, wherein a minimum of 50% of the Net Issue of shares to the Public is initially made available for allotment to Retail Individual Investors. The balance of Net Issue of Shares to the public is made available for allotment to Individual Applicants other than Retail Individual Investors and other Investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. If the Retail Individual Investor category is entitled to more than 50% on proportionate basis, they shall be allotted that higher percentage. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and the Designation Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All potential investors shall participate in the Issue only through an Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process including through UPI mode (as applicable) by providing details of the irrelative bank accounts and / or UPI IDs, in case of RILs, if applicable, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") for the same.

#### SUBSCRIPTION DETAILS

The Net Issue has received 34,418 applications before technical rejections for 12,27,48,000 Equity Shares resulting in 37.15 times subscription. The details of the applications received in the Net Issue (before and after technical rejections & withdrawal) are as follows:

#### Detail of the Applications Received

Category	Gross		Less: Rejections*		Valid	
	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares
Non-Retail Investors	3,390	6,06,92,000	36	1,88,000	3,354	6,05,04,000
Retail Individual Investors	31,028	6,20,56,000	830	16,60,000	30,198	6,03,96,000
<b>TOTAL</b>	<b>34,418</b>	<b>12,27,48,000</b>	<b>866</b>	<b>18,48,000</b>	<b>33,552</b>	<b>12,09,00,000</b>

\*This includes 312 applications for 6,24,000 equity shares from Retail investors which were not in book but excludes bids (UPI mandates) not accepted by investors.

#### Note:

- The Net Issue does not include 1,78,000 Equity Shares reserved for Market Maker, which was subscribed by 1.00 time.
- There were 866 Technical Rejections for 18,48,000 Equity Shares. The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange - NSE on May 13, 2024.

A) Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Issue Price of ₹ 52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 1,78,000 Equity Shares. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to Total
1,78,000	1	100.00	1,78,000	100.00	1,78,000	1:1	1,78,000	100.00

B) Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.56 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant		Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to Total	
					Before Rounding off	After Rounding off				
2000	30,198	100.00	6,03,96,000	100.00	54.71	2000	25	914	16,52,000	100.00

C) Allocation to Other than Retail Category (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Non-Retail Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.62 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of shares allocated/allotted	
						Before Rounding off	After Rounding off			
4,000	2,253	67.17	90,12,000	14.89	2,46,063	109.22	2,000	41	751	2,46,000
6,000	213	6.35	12,78,000	2.11	34,894	163.82	2,000	17	213	34,000
8,000	139	4.14	11,12,000	1.84	30,362	218.43	2,000	15	139	30,000
10,000	111	3.31	11,10,000	1.83	30,307	273.04	2,000	5	37	30,000
12,000	50	1.49	6,00,000	0.99	16,382	327.64	2,000	4	25	16,000
14,000	26	0.78	3,64,000	0.60	9,939	382.27	2,000	5	26	10,000
16,000	36	1.07	5,76,000	0.95	15,727	436.86	2,000	2	9	16,000
20,000										







**KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED**  
(Formerly Known as KURLON LIMITED)  
(CIN : U17214KA1962PLC001443)  
Regd. Office : # N-301, 3rd Floor, North Block, Manipal Centre,  
47 Dickenson Road, Bangalore - 560 042.  
Phone : 080 - 4031 3131, E-mail : secretary@manipal.com

**NOTICE OF RECORD DATE - BUYBACK OF SHARES**  
NOTICE is hereby given that pursuant to Section 91 of The Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, the Board of Directors of the Company at its meeting held on Friday, 3rd May 2024, noted that the shareholders have approved the buyback of shares of the Company via postal ballot the equity shares of face value of Rs. 10 each fully paid, being offered at a price of Rs. 1,300 per share.

The Company has further fixed the record date as Tuesday, 21st May 2024 to determine the shareholders eligible to receive the Letter of Offer and the Tender Form for the buyback of shares.

For KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED  
(Formerly Known as Kurlon Limited)  
Date : 14-05-2024  
Place : Bangalore

Sd/-  
Susheela Y. Bungale  
Company Secretary

**PRIOR PUBLIC NOTICE**  
**CHANGE IN NBFC CONTROL AND MANAGEMENT**  
Public Notice is hereby issued under Direction 42.3 of Master Direction - Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023 ("RBI NBFC Directions") for intention to sell and transfer ownership / control of Pyxis Finvest Limited (Company), a Non-Banking Finance Company (NBFC) registered with the Reserve Bank of India (RBI) under registration number N.13.01840 dated 30-August-2006 and bearing CIN L65990MH2005PLC157586.

**Particulars of Transferee:**  
Mr. Uttam Bharat Bagri, an Indian Resident individual bearing Income Tax Permanent Account Number AAEPB6014D residing in Mumbai.

**Reasons for such sale or transfer of ownership/control:**  
The existing promoters of the Company being JBCG Advisory Services Private Limited (Transferor) bearing CIN U74110MH2016PTC287730 have executed Share Purchase Agreement dated 19-December-2023 with the Transferee to sell their entire holding of 65,72,000 equity shares (representing 57.13%) of the Company as a strategic business decision. Following this transaction, there will be change in Management (Board of Directors) of the company.

In compliance with RBI NBFC Directions, prior approval has been obtained from the RBI as evidenced by their letter reference DoS.CO.RSG.No. S1030/02.13.001/2024-25 dated 10-May-2024. The proposed transfer of ownership (by sale of shares) and control will take place after thirty days have elapsed following the publication of this public notice.

This notice is being issued jointly by Transferee, Transferor and the Company. For any further clarifications/ information/ objections, kindly contact the company at email pyxisinvest@gmail.com or by post at registered office address at Level 9 (Unit 801), Centrum House, CST Road, Vidya Nagar Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400098.

**Transferee** For JBCG Advisory Services Private Limited - Transferor For Pyxis Finvest Limited - Company  
Sd/- Sd/- Sd/-  
Uttam Bharat Bagri Kapil Bagla Shalendra Apte  
PAN AAEPB6014D DIN 00387814 DIN 00017814  
Place: Mumbai  
Date: 13-May-2024

(This is Only An Advertisement For Information Purposes And Not A Prospectus Announcement. Not For Distribution Outside India.)

**SILKFLEX**  
**SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED**  
Corporate Identification Number: U51909WB2016PLC215739

Our Company was originally incorporated on May 13, 2016 as "Silkflex Polymers (India) Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, the status of the Company was changed to public limited Company and the name of our Company was changed from "Silkflex Polymers (India) Private Limited" to "Silkflex Polymers (India) Limited" vide fresh certificate of incorporation dated December 21, 2023 by the Registrar of Companies, Kolkata. The Corporate Identification Number of our Company is U51909WB2016PLC215739. For further details on incorporation and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 155 of the Prospectus.

**Registered Office:** Daga Complex, Sulati Jaladulagori, Sankrail, Howrah - 711 302, West Bengal, India  
Tel: +91 9674912615 | E-mail: investors@silkflexindia.in | Website: www.silkflexindia.in  
**Contact Person:** Mr. Sourabh Sharma, Company Secretary and Compliance Officer

**PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. TUSHAR LALIT KUMAR SANGHAVI, MS. URMI RAJ MEHTA, M/S. TUSHAR LALITKUMAR SANGHAVI HUF AND M/S. LALITBHAI H SANGHAVI HUF**

"The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the equity shares are proposed to be listed on Emerge Platform of NSE (NSE EMERGE)."

**BASIS OF ALLOTMENT**

**INITIAL PUBLIC OFFERING OF 34,82,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED ("SPL" OR "OUR COMPANY") OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹52/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹42/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 1,810.64 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH 1,78,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 92.56 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 33,04,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 52/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 1,718.08 LAKHS ("NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 30.00% AND 28.47% RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 250 OF THE PROSPECTUS.**

**THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS 5.2 TIMES OF THE FACE VALUE**

**ISSUE**  
**ISSUE OPENED ON: TUESDAY, MAY 07, 2024**  
**ISSUE CLOSED ON: FRIDAY, MAY 10, 2024**

**RISK TO INVESTORS:**

- Our Equity Shares have never been publicly traded, and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may be volatile and you may be unable to resell your Equity Shares at or above the Issue Price or at all.
- The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is set forth in the table below:

Sr. No.	Name of the Promoters	No of Equity Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Mr. Tushar Lalit Kumar Sanghavi	66,65,450	6.81
2.	Ms. Urmi Raj Mehta	48,750	10.77
3.	M/s Tushar Lalitkumar Sanghavi HUF	9,10,000	6.18
4.	M/s Lalitbhai H. Sanghvi HUF	4,87,500	3.08

Investors are required to refer section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Prospectus.

Our Company has filed the Prospectus dated May 01, 2024 with the ROC, Kolkata (the "Prospectus"). The Equity Shares of the Company are proposed to be listed on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited i.e., NSE Emerge, in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval from NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated April 30, 2024. NSE is the Designated Stock Exchange for the purpose of this Issue. The trading is to be commenced on May 15, 2024 (Subject to receipt of listing and trading approvals from the NSE).

The Issue is being made through the Fixed Price process, the allocation in the Net Issue to the Public category is made pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, wherein a minimum of 50% of the Net Issue of shares to the Public is initially made available for allotment to Retail Individual Investors. The balance of Net Issue of Shares to the public is made available for allotment to Individual Applicants other than Retail Individual Investors and other Investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. If the Retail Individual Investor category is entitled to more than 50% on proportionate basis, they shall be allotted that higher percentage. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and the Designation Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All potential investors shall participate in the Issue only through an Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process including through UPI mode (as applicable) by providing details of the irrelative bank accounts and / or UPI IDs, in case of RILs, if applicable, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") for the same.

**SUBSCRIPTION DETAILS**

The Net Issue has received 34,418 applications before technical rejections for 12,27,48,000 Equity Shares resulting in 37.15 times subscription. The details of the applications received in the Net Issue (before and after technical rejections & withdrawal) are as follows:

**Detail of the Applications Received**

Category	Gross		Less: Rejections*		Valid	
	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares
Non-Retail Investors	3,390	6,06,92,000	36	1,88,000	3,354	6,05,04,000
Retail Individual Investors	31,028	6,20,56,000	830	16,60,000	30,198	6,03,96,000
<b>TOTAL</b>	<b>34,418</b>	<b>12,27,48,000</b>	<b>866</b>	<b>18,48,000</b>	<b>33,552</b>	<b>12,09,00,000</b>

\*This includes 312 applications for 6,24,000 equity shares from Retail investors which were not in book but excludes bids (UPI mandates) not accepted by investors.

**Note:**

- The Net Issue does not include 1,78,000 Equity Shares reserved for Market Maker, which was subscribed by 1.00 time.
- There were 866 Technical Rejections for 18,48,000 Equity Shares. The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange - NSE on May 13, 2024.

**A) Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawals):** The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Issue Price of ₹ 52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 1,78,000 Equity Shares. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to Total
1,78,000	1	100.00	1,78,000	100.00	1,78,000	1:1	1,78,000	100.00

**B) Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawals):** The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.56 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant		Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to Total	
					Before Rounding off	After Rounding off				
2000	30,198	100.00	6,03,96,000	100.00	54.71	2000	25	914	16,52,000	100.00

**C) Allocation to Other than Retail Category (After Technical Rejections & Withdrawals):** The Basis of Allotment to the Non-Retail Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.62 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of shares allocated/allotted	
						Before Rounding off	After Rounding off			
4,000	2,253	67.17	90,12,000	14.89	2,46,063	109.22	2,000	41	751	2,46,000
6,000	213	6.35	12,78,000	2.11	34,894	163.82	2,000	17	213	34,000
8,000	139	4.14	11,12,000	1.84	30,362	218.43	2,000	15	139	30,000
10,000	111	3.31	11,10,000	1.83	30,307	273.04	2,000	5	37	30,000
12,000	50	1.49	6,00,000	0.99	16,382	327.64	2,000	4	25	16,000
14,000	26	0.78	3,64,000	0.60	9,939	382.27	2,000	5	26	10,000
16,000	36	1.07	5,76,000	0.95	15,727	436.86	2,000	2	9	16,000
20,000	179	5.34	35,80,000	5.92	97,748	546.08	2,000	49	179	98,000
22,000	22	0.66	4,84,000	0.80	13,215	600.68	2,000	7	22	14,000
30,000	17	0.51	5,10,000	0.84	13,925	819.12	2,000	7	17	14,000
38,000	7	0.21	2,66,000	0.44	7,263	1,037.57	2,000	4	7	8,000
40,000	16	0.48	6,40,000	1.06	17,475	1,092.19	2,000	9	16	18,000
50,000	10	0.30	5,00,000	0.83	13,652	1,365.2	2,000	7	10	14,000
52,000	4	0.12	2,08,000	0.34	5,679	1,419.75	2,000	3	4	6,000
58,000	6	0.18	3,48,000	0.58	9,502	1,583.67	2,000	5	6	10,000

The Board of Directors of the Company at its meeting held on May 13, 2024, has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares, as approved by the Designated Stock Exchange viz. NSE and has authorized the corporate action for the allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

The CAN and allotment advice and / or notices shall be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories on or before May 14, 2024. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking of funds will process on or prior to May 14, 2024. The Equity Shares allotted to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. In case the same is not received within prescribed time, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the Emerge Platform of NSE within 3 working days from the Closure of the Issue. **The trading is proposed to be commenced on May 15, 2024 subject to receipt of listing and trading approvals from NSE.**

**Note:** All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated May 01, 2024 ("Prospectus").

**INVESTORS, PLEASE NOTE**

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, Bigshare Services Private Limited at www.bigshareonline.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole Applicant, Serial number of the Application Form, Number of Shares Applied for and Bank Branch where the Application had been lodged and payment details at the address given below:

**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED**  
Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai - 400 093, Maharashtra, India | Telephone: 022 - 6263 8200 | E-mail: ipo@bigshareonline.com  
Investor Grievance E-mail: investor@bigshareonline.com | Website: www.bigshareonline.com  
**Contact Person:** Mr. Vinayak Morbale | SEBI Registration Number: INR000001385

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated May 01, 2024.

For Silkflex Polymers (India) Limited  
On Behalf of the Board of Directors  
Sd/-  
Mr. Tushar Lalit Kumar Sanghavi  
Designation: Chairman & Managing Director  
Date: May 13, 2024  
DIN: 07476030

**LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED**

Silkflex Polymers (India) Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a Public Issue of its Equity Shares and has filed Prospectus with the Registrar of Companies, Kolkata on May 01, 2024. The Prospectus is available on websites of the Company, the NSE and the Lead Manager at www.silkflexindia.in, www.nseindia.com, www.shreni.in respectively. Applicants should note that investment in equity shares involves a high-risk and for details relating to the same, see the Prospectus, including section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities law. Accordingly, the Equity Shares are offered or sold (i) within the United States to persons reasonably believed to be qualified institutional investors (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act and (ii) Outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and applicable laws of the jurisdiction where such offers and sales occur.

**ALAN SCOTT ENTERPRISES LIMITED**  
(formerly known as Alan Scott Industries Limited)  
Corporate Identification Number: L33100MH1994PLC076732  
Registered Office: Unit no. 302, Kumar Plaza, 3rd Floor, Near Kalina Masjid, Kalina Kurla Road, Santacruz (East), Mumbai - 400029, Maharashtra, India. | Tel: +91 617860001, 9867644930  
E-mail: alanscottcompliance@gmail.com | Website: thealanscott.com | Contact person: Mr. Shankar Madva

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined here shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated June 16, 2023 filed with BSE Limited ("BSE").

**FINAL DEMAND-CUM-FORFEITURE NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES**

In terms of the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made thereunder, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer dated June 16, 2023 ("Letter of Offer"), a Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been sent in electronic mode to the holders of partly paid-up equity shares who have not paid the call money or part thereof, pursuant to the First and/or Second & Final Call Money Notice dated November 27, 2023 and February 26, 2024, and physical copy of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice along with the detailed instructions and payment slip, has been sent through permitted modes of dispatch at the registered address of all those holders of partly paid-up equity shares, who have not paid the First and Second & Final call money (or a part thereof). The Company has completed the dispatch on May 10, 2024.

The Board of Director ("Board"), duly authorized by the Board, has on Thursday, May 9, 2024, approved sending of a Final Demand-cum-Forfeiture Notice for payment of First and Second & Final call amount of ₹ 10.00 (including share premium of ₹ 6.5) towards the First Call and ₹10.00 (including share premium of ₹ 7.00) as First and Second & Final Call money ("Final Demand cum-Forfeiture Notice"), to the holders of such partly paid-up equity shares on which the First and/or Second & Final Call Money remains unpaid.

Accordingly, the Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been served providing the details given below:

Payment Period	From	To	Duration
	Tuesday, May 14, 2024	Tuesday, May 28, 2024	15 days

Cheque or Demand Draft payable to:  
Alan Scott Call Money - Escrow Collection - R A/c (For resident Shareholders)  
Alan Scott Call Money - Escrow Collection - NR A/c (for Non-resident Shareholders)

Shareholder pay through cheque/demand draft, the payment slip (stating Full Name of the Sole/First shareholder; DP ID-Client ID/ Folio No; and No. of partly paid-up equity shares) along with the amount payable by cheque or demand draft must be presented.

Please note that, failure to pay the First and Second & Final Call Money pursuant to the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, as aforesaid, shall render the partly paid-up equity shares (to the extent that the First and Second & Final Call Money was not paid), including the application amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the Act, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.

Shareholders may also note that:

- The ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares of face value ₹10 each (₹3.50 paid-up and ₹7.00 paid up) has been suspended by the Stock Exchanges. Further the ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares has been suspended by National Securities Depository Ltd ("NSDL") and Central Depository Services (India) Ltd. ("CDSL").
- The process of corporate action for converting the partly paid-up equity shares to the fully paid-up ordinary shares under the present ISIN INE273F01022 for the existing fully paid-up ordinary shares, allotted by the depositories, is estimated to be completed, on a best effort basis, within two to three weeks from the last date of payment of the First and/or Second & Final Call Money stipulated under this Final Demand-cum-Forfeiture Notice. Upon completion of the corporate action, the partly paid-up equity shares shall be converted into fully paid-up equity shares and would be credited to ISIN INE273F01022, allotted by NSDL/CDSL.
- In case of non-receipt of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the duplicate Final Demand-cum-Forfeiture Notice to the Registrar, or may also download the same from the Company's website: www.thealanscott.com or the Registrar's website: www.purvashare.com. In such a case, however, the shareholder has to fill the DP ID-Client ID/folio Number, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the First and Second & Final Call Money.
- The shareholder must mention in the Application, his/her PAN number allotted under the Income Tax Act, 1961.

All correspondence in respect of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice may be addressed to: Purva Shareistry (India) Private Limited (Unit: Alan Scott Enterprises Limited) at the address Office 9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel East, Mumbai - 400011, Maharashtra, India, Telephone No - 022 49614132 | 022 49700138 | 022 35220056; E-mail: newissue@purvashare.com; Website: www.purvashare.com; Contact Person: Ms. Deepali Dhuri; SEBI Registration Number: INR000001112.

For Alan Scott Enterprises Ltd.  
Sd/-  
Saloni Suresh Jain  
Director

Date: May 13, 2024  
Place: Mumbai

**CHALET Chalet Hotels Limited**  
HOTELS  
CIN: L55101MH1986PLC038538,  
Registered office: Raheja Tower, Plot No. C-30, Block 'G' Next to Bank of Baroda, Bandra Kurla Complex, Bandra, Mumbai 400 051  
Email ID: investorrelations@chalet-hotels.com, website: www.chalet-hotels.com

**EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2024**  
(Rs. in million)

Particulars	CONSOLIDATED					
	Quarter Ended			Year Ended		
	31 March 2024 (Audited)	31 December 2023 (Unaudited)	31 March 2023 (Audited)	31 March 2024 (Audited)	31 March 2023 (Audited)	
Total Income	4,244.07	3,798.87	3,457.83	14,370.38	11,779.54	
EBITDA before exceptional items	1,890.08	1,722.15	1,602.71	6,043.78	5,023.04	
Profit before income tax	990.26	886.52	714.59	2,693.53	2,728.29	
Profit for the period / year	824.40	706.42	366.31	2,781.81	1,832.90	
Total Comprehensive Income for the period / year	819.98	705.09	361.45	2,773.42	1,828.26	
Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 per share)	2,054.74	2,053.95	2,050.25	2,054.74	2,050.25	
Other Equity	-	-	-	16,458.68	13,369.14	
Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each)						
Basic (*not annualised) (in Rs.)	*4.01	*3.44	*1.79	13.54	8.94	
Diluted (*not annualised) (in Rs.)	*4.01	*3.44	*1.79	13.53	8.94	

**1) Key numbers of Standalone Financial Results**

Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
	31 March 2024 (Audited)	31 December 2023 (Unaudited)	31 March 2023 (Audited)	31 March 2024 (Audited)	31 March 2023 (Audited)
	Total Income	4,210.50	3,783.89	3,469.51	14,186.63
Profit before income tax	990.23	910.59	749.64	2,684.81	2,772.53
Profit for the period / year	818.36	731.87	401.52	2,782.82	1,877.65

**Notes:**

- The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2024 are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website at www.chalet-hotels.com.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 13 May 2024.
- The above results are in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 as prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013, read with the relevant Rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.

For Chalet Hotels Limited  
(CIN - L55101MH1986PLC038538)  
Sd/-  
Sanjay Sethi  
Managing Director & CEO  
(DIN. 00641243)

Place : Mumbai  
Date : 13 May 2024





**KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED**  
(Formerly Known as KURLON LIMITED)  
(CIN : U17214KA1962PLC001443)  
Regd. Office : # N-301, 3rd Floor, North Block, Manipal Centre,  
47 Dickenson Road, Bangalore - 560 042.  
Phone : 080 - 4031 3131, E-mail : secretary@manipal.com

### NOTICE OF RECORD DATE - BUYBACK OF SHARES

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 91 of The Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, the Board of Directors of the Company at its meeting held on Friday, 3rd May 2024, noted that the shareholders have approved the buyback of shares of the Company via postal ballot the equity shares of face value of Rs. 10 each fully paid, being offered at a price of Rs. 1,300 per share.

The Company has further fixed the record date as Tuesday, 21st May 2024 to determine the shareholders eligible to receive the Letter of Offer and the Tender Form for the buyback of shares.

For KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED  
(Formerly Known as Kurlon Limited)

Date : 14-05-2024  
Place : Bangalore

Sd/- Susheela Y. Bungale  
Company Secretary

### PRIOR PUBLIC NOTICE

#### CHANGE IN NBFC CONTROL AND MANAGEMENT

Public Notice is hereby issued under Direction 42.3 of Master Direction - Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023 ("RBI NBFC Directions") for intention to sell and transfer ownership / control of Pyxis Finvest Limited (Company), a Non-Banking Finance Company (NBFC) registered with the Reserve Bank of India (RBI) under registration number N.13.01840 dated 30-August-2006 and bearing CIN L65990MH2005PLC157586.

#### Particulars of Transferee:

Mr. Uttam Bharat Bagri, an Indian Resident individual bearing Income Tax Permanent Account Number AEPB6014D residing in Mumbai.

#### Reasons for such sale or transfer of ownership/control:

The existing promoters of the Company being JBCG Advisory Services Private Limited (Transferor) bearing CIN U74110MH2016PTC287730 have executed Share Purchase Agreement dated 19-December-2023 with the Transferee to sell their entire holding of 65,72,000 equity shares (representing 57.13% of the Company as a strategic business decision. Following this transaction, there will be change in Management (Board of Directors) of the company.

In compliance with RBI NBFC Directions, prior approval has been obtained from the RBI as evidenced by their letter reference DoS.Co.RSG No. S1030/02.13.001/2024-25 dated 10-May-2024. The proposed transfer of ownership (by sale of shares) and control will take place after thirty days have elapsed following the publication of this public notice.

This notice is being issued jointly by Transferee, Transferor and the Company. For any further clarifications/ information/ objections, kindly contact the company at email pyxisinvest@gmail.com or by post at registered office address at Level 9 (Unit 801), Centrum House, CST Road, Vidya Nagar Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400098.

Transferee	For JBCG Advisory Services Private Limited - Transferor	For Pyxis Finvest Limited - Company
Sd/-	Sd/-	Sd/-
Uttam Bharat Bagri	Kapil Bagla	Shailendra Apte
PAN AEPB6014D	DIN 00387814	DIN 00017814
Place: Mumbai		
Date: 13-May-2024		

(This is Only An Advertisement For Information Purposes And Not A Prospectus Announcement. Not For Distribution Outside India.)

# SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED

Corporate Identification Number: U51909WB2016PLC215739

Our Company was originally incorporated on May 13, 2016 as "Silkflex Polymers (India) Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, the status of the Company was changed to public limited Company and the name of our Company was changed from "Silkflex Polymers (India) Private Limited" to "Silkflex Polymers (India) Limited" vide fresh certificate of incorporation dated December 21, 2023 by the Registrar of Companies, Kolkata. The Corporate Identification Number of our Company is U51909WB2016PLC215739. For further details on incorporation and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 155 of the Prospectus.

Registered Office: Daga Complex, Sulati Jaladhulagori, Sankrali, Howrah - 711 302, West Bengal, India

Tel: +91 9674912615 | E-mail: investors@silklflexindia.in | Website: www.silklflexindia.in

Contact Person: Mr. Sourabh Sharma, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. TUSHAR LALIT KUMAR SANGHAVI, MS. URMI RAJ MEHTA, M/S. TUSHAR LALITKUMAR SANGHAVI HUF AND M/S. LALITBHAI H SANGHAVI HUF

The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the equity shares are proposed to be listed on Emerge Platform of NSE (NSE EMERGE).

### BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFERING OF 34,82,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED ("SPIL" OR "OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹52/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹42/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 1,810.64 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH 1,78,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 92.56 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 33,04,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 52/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 1,718.08 LAKHS ("NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 30.00% AND 28.47% RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 250 OF THE PROSPECTUS.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS 5.2 TIMES OF THE FACE VALUE

ISSUE OPENED ON: TUESDAY, MAY 07, 2024  
ISSUE CLOSED ON: FRIDAY, MAY 10, 2024

### RISK TO INVESTORS:

1. Our Equity Shares have never been publicly traded, and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may be volatile and you may be unable to resell your Equity Shares at or above the Issue Price or at all.

2. The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is set forth in the table below:

Sr. No.	Name of the Promoters	No of Equity Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Mr. Tushar Lalit Kumar Sanghavi	66,65,450	6.81
2.	Ms. Urmi Raj Mehta	48,750	10.77
3.	M/s Tushar Lalitkumar Sanghavi HUF	9,10,000	6.18
4.	M/s Lalitbhai H. Sanghvi HUF	4,87,500	3.08

Investors are required to refer section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Prospectus.

Our Company has filed the Prospectus dated May 01, 2024 with the ROC, Kolkata (the "Prospectus"). The Equity Shares of the Company are proposed to be listed on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited i.e., NSE Emerge, in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval from NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated April 30, 2024. NSE is the Designated Stock Exchange for the purpose of this Issue. The trading is to be commenced on May 15, 2024 (Subject to receipt of listing and trading approvals from the NSE).

The Issue is being made through the Fixed Price process, the allocation in the Net Issue to the Public category is made pursuant to Regulation 25(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, wherein a minimum of 50% of the Net Issue of shares to the Public is initially made available for allotment to Retail Individual Investors. The balance of Net Issue of Shares to the public is made available for allotment to Individual Applicants other than Retail Individual Investors and other investors, including Corporate Bodies / institutions irrespective of number of shares applied for. If the Retail Individual Investor category is entitled to more than 50% on proportionate basis, they shall be allotted that higher percentage. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and the Designation Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All potential investors shall participate in the Issue only through an Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process including through UPI mode (as applicable) by providing details of the irrelative bank accounts and / or UPI IDs, in case of RILs, if applicable, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") for the same.

### SUBSCRIPTION DETAILS

The Net Issue has received 34,418 applications before technical rejections for 12,27,48,000 Equity Shares resulting in 37.15 times subscription. The details of the applications received in the Net Issue (before and after technical rejections & withdrawal) are as follows:

#### Detail of the Applications Received

Category	Gross		Less: Rejections*		Valid	
	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares
Non-Retail Investors	3,390	6,06,92,000	36	1,88,000	3,354	6,05,04,000
Retail Individual Investors	31,028	6,20,56,000	830	16,60,000	30,198	6,03,96,000
<b>TOTAL</b>	<b>34,418</b>	<b>12,27,48,000</b>	<b>866</b>	<b>18,48,000</b>	<b>33,552</b>	<b>12,09,00,000</b>

\*This includes 312 applications for 6,24,000 equity shares from Retail investors which were not in book but excludes bids (UPI mandates) not accepted by investors.

#### Note:

1. The Net Issue does not include 1,78,000 Equity Shares reserved for Market Maker, which was subscribed by 1.00 time.  
2. There were 866 Technical Rejections for 18,48,000 Equity Shares. The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange - NSE on May 13, 2024.

A) Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Issue Price of ₹ 52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 1,78,000 Equity Shares. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to Total
1,78,000	1	100.00	1,78,000	100.00	1,78,000	1:1	1,78,000	100.00

B) Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 25(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.56 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant		Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to Total	
					Before Rounding off	After Rounding off				
2000	30,198	100.00	6,03,96,000	100.00	54.71	2000	25	914	16,52,000	100.00

C) Allocation to Other than Retail Category (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Non-Retail Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 25(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.62 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of shares allocated/allotted	
						Before Rounding off	After Rounding off			
4,000	2,253	67.17	90,12,000	14.89	2,46,063	109.22	2,000	41	751	2,46,000
6,000	213	6.35	12,78,000	2.11	34,894	163.82	2,000	17	213	34,000
8,000	139	4.14	11,12,000	1.84	30,362	218.43	2,000	15	139	30,000
10,000	111	3.31	11,10,000	1.83	30,307	273.04	2,000	5	37	30,000
12,000	50	1.49	6,00,000	0.99	16,382	327.64	2,000	4	25	16,000
14,000	26	0.78	3,64,000	0.60	9,939	382.27	2,000	5	26	10,000
16,000	36	1.07	5,76,000	0.95	15,727	436.86	2,000	2	9	16,000
20,000	179	5.34	35,80,000	5.92	97,748	546.08	2,000	49	179	98,000
22,000	22	0.66	4,84,000	0.80	13,215	600.68	2,000	7	22	14,000
30,000	17	0.51	5,10,000	0.84	13,925	819.12	2,000	7	17	14,000
38,000	7	0.21	2,66,000	0.44	7,263	1,037.57	2,000	4	7	8,000
40,000	16	0.48	6,40,000	1.06	17,475	1,092.19	2,000	9	16	18,000
50,000	10	0.30	5,00,000	0.83	13,652	1,365.2	2,000	7	10	14,000
52,000	4	0.12	2,08,000	0.34	5,679	1,419.75	2,000	3	4	6,000
58,000	6	0.18	3,48,000	0.58	9,502	1,583.67	2,000	5	6	10,000

The Board of Directors of the Company at its meeting held on May 13, 2024, has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares, as approved by the Designated Stock Exchange viz. NSE and has authorized the corporate action for the allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

The CAN and allotment advice and / or notices shall be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories on or before May 14, 2024. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking of funds will process on or prior to May 14, 2024. The Equity Shares allotted to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. In case the same is not received within prescribed time, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the Emerge Platform of NSE within 3 working days from the Closure of the Issue. The trading is proposed to be commenced on May 15, 2024 subject to receipt of listing and trading approvals from NSE.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated May 01, 2024 ("Prospectus").

### INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, Bigshare Services Private Limited at www.bigshareonline.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole Applicant, Serial number of the Application Form, Number of Shares Applied for and Bank Branch where the Application had been lodged and payment details at the address given below:

#### BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED

Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai - 400 093, Maharashtra, India | Telephone: 022 - 6263 8200 | E-mail: ipo@bigshareonline.com  
Investor Grievance E-mail: investor@bigshareonline.com | Website: www.bigshareonline.com  
Contact Person: Mr. Vinayak Morbale | SEBI Registration Number: INR00001385

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated May 01, 2024.

For Silkflex Polymers (India) Limited

On Behalf of the Board of Directors

Sd/-

Mr. Tushar Lalit Kumar Sanghavi

Designation: Chairman & Managing Director

DIN: 07476030

Place: Howrah

Date: May 13, 2024

LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED

Silkflex Polymers (India) Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a Public Issue of its Equity Shares and has filed Prospectus with the Registrar of Companies, Kolkata on May 01, 2024. The Prospectus is available on websites of the Company, the NSE and the Lead Manager at www.silklflexindia.in, www.nseindia.com, www.shreni.in respectively. Applicants should note that investment in equity shares involves a high-risk and for details relating to the same, see the Prospectus, including section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities law. Accordingly, the Equity Shares are offered or sold (i) within the United States to persons reasonably believed to be qualified institutional investors (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act and (ii) Outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and applicable laws of the jurisdiction where such offers and sales occur.

AdBaz

## ALAN SCOTT ENTERPRISES LIMITED

(formerly known as Alan Scott Industries Limited)  
Corporate Identification Number: L33100MH1994PLC076732  
Registered Office: Unit no. 302, Kumar Plaza, 3rd Floor, Near Kalina Masjid, Kalina Kurla Road, Santacruz (East), Mumbai - 400029, Maharashtra, India. | Tel: +91 617860001, 9867644930  
E-mail: alanscottcompliance@gmail.com | Website: thealanscott.com | Contact person: Mr. Shankar Madva

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined here shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated June 16, 2023 filed with BSE Limited ("BSE").

### FINAL DEMAND-CUM-FORFEITURE NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES

In terms of the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made thereunder, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer dated June 16, 2023 ("Letter of Offer"), a Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been sent in electronic mode to the holders of partly paid-up equity shares who have not paid the call money or part thereof, pursuant to the First and/or Second & Final Call Money Notice dated November 27, 2023 and February 26, 2024, and physical copy of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice along with the detailed instructions and payment slip, has been sent through permitted modes of dispatch at the registered address of all those holders of partly paid-up equity shares, who have not paid the First and Second & Final call money (or a part thereof). The Company has completed the dispatch on May 10, 2024.

The Board of Director ("Board"), duly authorized by the Board, has on Thursday, May 9, 2024, approved sending of a Final Demand-cum-Forfeiture Notice for payment of First and Second & Final call amount of ₹ 10.00 (including share premium of ₹ 6.5) towards the First Call and ₹ 10.00 (including share premium of ₹ 7.00) as First and Second & Final Call money ("Final Demand cum-Forfeiture Notice"), to the holders of such partly paid-up equity shares on which the First and/or Second & Final Call Money remains unpaid.

Accordingly, the Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been served providing the details given below:

Payment Period	From	To	Duration
	Tuesday, May 14, 2024	Tuesday, May 28, 2024	
Mode of Payment	Cheque or Demand Draft payable to:		
	Alan Scott Call Money - Escrow Collection - R A/c (For resident Shareholders) Alan Scott Call Money - Escrow Collection - NR A/c (For non-resident Shareholders)		

Shareholder pay through cheque/demand draft, the payment slip (stating Full Name of the Sole/First shareholder; DP ID-Client ID/ Folio No; and No. of partly paid-up equity shares) along with the amount payable by cheque or demand draft must be presented.

Please note that, failure to pay the First and Second & Final Call Money pursuant to the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, as aforesaid, shall render the partly paid-up equity shares (to the extent that the First and Second & Final Call Money was not paid), including the application amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the Act, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.

Shareholders may also note that:

- The ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares of face value ₹10 each (₹3.50 paid-up and ₹7.00 paid up) has been suspended by the Stock Exchanges. Further the ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares has been suspended by National Securities Depository Ltd ("NSDL") and Central Depository Services (India) Ltd. ("CDSL").
- The process of corporate action for converting the partly paid-up equity shares to the fully paid-up ordinary shares under the present ISIN INE273F01022 for the existing fully paid-up ordinary shares, allotted by the depositories, is estimated to be completed, on a best effort basis, within two to three weeks from the last date of payment of the First and/or Second & Final Call Money stipulated under this Final Demand-cum-Forfeiture Notice. Upon completion of the corporate action, the partly paid-up equity shares shall be converted into fully paid-up equity shares and would be credited to ISIN INE273F01022, allotted by NSDL/CDSL.
- In case of non-receipt of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the duplicate Final Demand-cum-Forfeiture Notice to the Registrar, or may also download the same from the Company's website: www.thealanscott.com or the Registrar's website: www.purvashare.com. In such a case, however, the shareholder has to fill the DP ID-Client ID/folio Number, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the First and Second & Final Call Money.
- The shareholder must mention in the Application, his/her PAN number allotted under the Income Tax Act, 1961.

All correspondence in respect of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice may be addressed to: Purva Sharegistry (India) Private Limited (Unit: Alan Scott Enterprises Limited) at the address Office 9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel East, Mumbai - 400011, Maharashtra, India, Telephone No - 022 49614132 | 022 49700138 | 022 35220056; E-mail: newissue@purvashare.com; Website: www.purvashare.com; Contact Person: Ms. Deepali Dhuri; SEBI Registration Number: INR00001112.

For Alan Scott Enterprises Ltd.

Sd/-

Saloni Suresh Jain

Director

Date: May 13, 2024

Place: Mumbai

## CHALET Chalet Hotels Limited

CIN: L55101MH1986PLC038538,

Registered office: Raheja Tower, Plot No. C-30, Block 'G' Next to Bank of Baroda, Bandra Kurla Complex, Bandra, Mumbai 400